

॥ श्री ३ ॥

११६१९
अथ वेदांगप्रकाशः

नामिकः

प्रकाशक—

आर्य साहित्य मण्डल लि०, अजमेर.

ओ३म्

अथ वेदांगप्रकाशः

तत्रत्यः तृतीयो भागः

नामिकः

पाणिनीयाष्टाध्याय्यां द्वितीयो भागः

श्रीमत्स्वामिदयानन्दसरस्वतीकृतव्याख्यासहितः

श्री पण्डित युधिष्ठिर मीमांसकेन संशोध्य टिप्पणीमिश्रितः

पठनपाठनव्यवस्थायां पंचमं पुस्तकम्



प्रकाशक—

आर्य साहित्य मण्डल लि०, अजमेर

प्रथमावृत्ति

१०००

संवत् २०१० वि०



प्रकाशकः—

आर्य साहित्य मण्डल लिमिटेड,
अजमेर.



मुद्रकः—

३। प्रसाद शिवहरे
दि पाइन आटे प्रिंटिंग प्रेस, अजमेर

प्रकाशकीय वक्तव्य

हमने वेदाङ्गप्रकाश के शुद्ध संस्करण प्रकाशित करने का जो उपक्रम प्रारम्भ किया है, उसके अनुसार हम सन्धिविषय भाष्यात्मिक वर्णोच्चारण शिक्षा और धातुपाठ ये चार भाग प्रकाशित कर चुके हैं। यह नामिक* नामक पाठको भी आज पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर रहे हैं।

हमारे इस सन्धिविषय संस्करण में क्या विशेषताएँ हैं, यह हम सन्धिविषय के वक्तव्य में दर्शा चुके हैं।

नामिक में नीचे दो प्रकार की टिप्पणियाँ छपी हैं, उन में कुछ ग्रन्थकार की हैं और कुछ श्री पं० युधिष्ठिरजी मीमांसक (जिन्होंने इस का सशोधन किया है) की। दोनों में स्पष्टतया भेद बतलाने के लिये दोनों टिप्पणियों में निम्न विशेषता बारी गई है।

इस संस्कार में ग्रन्थकार की सब टिप्पणियों पर एक, दो आदि संख्या का निर्देश किया है और सशोधक की टिप्पणियों पर * + आदि चिह्न दिया गया है। जिस पृष्ठ में दोनों प्रकार की टिप्पणियाँ हैं उन में पहले ग्रन्थकार की दो हैं और उसके नीचे सशोधक की। इस प्रकार दोनों की टिप्पणियों का भेद कर देने से पाठकों को किसी प्रकार का भ्रम न होगा।

इस ग्रन्थ में जितने शब्दों के रूप दिखलाये गये हैं, उन शब्दों की सूची भी इस संस्करण में दे दी है। इससे प्रत्येक शब्द की रूपसिद्धि देखने में असंख्य सरलता हो गई है।

आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस संस्करण से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को असंख्य लाभ होगा।

प्रकाशक—

* नामिक ग्रन्थ के इतिहास के लिये देखो पं० युधिष्ठिरजी मीमांसक कृत 'ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास' पृष्ठ १६०।

नामिक


विषय-सूची



विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
नाम की व्याख्या	१	जकारान्त	५२
यौगिक योगरूढ , रूढ	२	टकारान्त	५५
जाति, गुण, क्रिया, यदन्ध्रा- शब्द, लिङ्ग भेद और उमकी		थकारान्त	५५
व्याख्या	३	दकारान्त	५७
अकारान्त	७	नकारान्त	५७
आकारान्त	१९	पकारान्त	६६
इकारान्त	२३	भकारान्त	६७
ईकारान्त	२१	रेफान्त	६७
उकारान्त	२६	वकारान्त	६९
ऊकारान्त	३९	शकारान्त	७०
अकारान्त	४१	षकारान्त	७१
एकारान्त	४६	सकारान्त	७२
औकारान्त	४७	हकारान्त	७७
षकारान्त	४८	सर्वनामसंज्ञक	८१
इकारान्त	५१	वेद विषयक सामान्य नियम	१०१
		लिङ्ग-व्यवस्था	१०३

नामिकान्तर्गतप्रदर्शितरूपनाम्नाम्

अकारादिक्रमेण सूचीपत्रम्



नाम	पृ०	पं०	नाम	पृ०	पं०	नाम	पृ०	पं०
अक्षि	२८	७	अधं	८३	२३	आसुरी	३४	११
अग्नि	२३	१०	अयमन्	५८	१९	आस्य	७९	१२
अग्रणी	३२	३	अर्वाच्	४८	१५	इतर	८३	३
अह्निसू	७२	१४	अल्प	८३	२२	इवम्	८८	४
अजा	२३	४	अल्पीयसू	७४	२२	ईदृक्	७०	१२
अतिरि	२८	५	अवयाजू	५३	९, १८	इत्थाञ्जसू	७४	१२
अथर्वन्	५८	१८	अवर	८४	१२	इत्तर	८४	१३
अदसू	९१	३	अवी	३५	७	इत्स्नुह्	७७	२२
अधर	८४	१३	अशमन्	५८	१७	इदक्	७९	१२
अनहुह्	७८	१७	अश्रु	३८	७	इदक् ४८	१५, ५०	९
अनुष्टुम्	६७	१२	अदचवत्	५६	१४	इन्मुह्	७७	२२
अन्तर	८५	१	अष्टन्	६३	२०	उपानह्	७८	७
अन्य	८३	३	असृज्	७९	१३	उपोयिचसू	७४	१९
अन्यतर	८३	३	अस्थि	२८	६	उभ	८२	१९
अप्	६६	१५, १७	अहमद्	९३	८	उभय	८३	२
अपर	८४	१३	अहन्	६२	१३	उशनसू	७२	१८
अप्सरसू	७५	६	आज्यपा	२१	६	उपसू	७५	६
अम्भसू	७५	१४	आशमन्	५८	८	उरणभोजिन्	६३	१४
अरसू	७६	५	आपद्	५७	५	उपिचसू	७१	१३
अर्विसू	७६	६	आयुम्	७६	५	प्रविज्	५२	६
अथं	१६	५	आनिष्	७१	९	अनुहन्	५९	१०

नाम	पृ०	पं०	नाम	पृ०	पं०	नाम	पृ०	पं०
कभुक्षिन्	६५	९	कुमारघातिन्	६३	१३	घृतस्निह्	७७	२२
कृक	९२	१४	कुमारी	३३	९	घृतस्पृश्	७०	११
कृत्तर	८३	१६	कुषत्	५६	५	चतसृ	४५	४, ९
कृतद्	८७	८	कुहु	३८	१६	चतुर	६८	१०
कृताहन्	७०	१२	कूपला	२१	५	चन्द्रमस्	७२	५
कृन्	७५	१४	कृष्ण	१६	१४	चमू	४१	१
ककुभ्	६७	६	कृञ्च ४८ १६, ५०	१५		चरम	८३	२२
कतम	८३	३	क्रीण्डु	३७	३	चर्मन्	६१	१२
कतर	८३	३	कलेदन्	५८	३	चिरण्टी	३४	१२
कतिपय	८३	२३	क्षत्	४४	७	छदिस्	७६	१०
कनीयस्	७४	२२	क्षच्छन्	५६	५	छापा	२३	३
कन्या	२१	८	गिर्	६७	१५	जगु	३८	७
कप्	६६	१५	गुगुल्	४१	२	जनिमन्	५८	४
कमण्डलु	४१	२	गुहलिह्	७७	२०	जन्मन्	६१	१२
कण्टं	४४	७	गुद	३७	२	जरा	२३	५
कण्टं	४४	९	गृह	१९	१	जल	१८	१८
कर्त्री	३४	१२	गो	४७	१	जातवेदस्	७२	१२
कर्मन्	६१	१२	गोज्ञा	२१	५	जातु	३८	७
कण्	४०	९	गोदुह्	७७	६	जामात्	४३	८
काम	१६	१५	गोमन्	५६	१४	जाया	२३	३
कारम्	३९	७	गोपा	२१	१५	जूर	६८	७
काष्ठमिद्	५७	५	ग्रन्थ	१६	१५	ज्योतिस्	७६	५
किन्नीरी	३४	१२	ग्रामशी	३२	३	तक्षन्	{ ५८ २ ५९ १०	
कीरदा	७०	१२	घट	१६	१५	तत्	८६	१४
कीडालपा	२१	६	पृगपापन्	५८	५			

नाम	पृ०	पं०	नाम	पृ०	पं०	नाम	पृ०	पं०
सनु	३८	१६	ददू	४१	२	नतृ	४४	७
तन्त्री	३५	७	दशन्	६४	२३	नवन्	६४	२३
सरी	३५	७	दिव्	६९	१४	नामन्	६१	१०
सस्थिवस्	७४	१९	दिन्	७०	६	नासिका	७९	१३
साधन्	७०	१२	दुहितृ	४५	३, ५	निशा	७९	१३
तिप्	६६	१५	दम्भू	३९	७	नृ	४३	९
तिसृ	४५	४, ९	दश	७०	१२	नृचक्षस्	७२	१४
सालु	३८	७	दपद्	५७	४	नेम	८३	१९
वूर्	६८	७	दोप्	७९	१४	नेम	७३	२३
सृपव्	५५	१८	द्रविणोदस्	७२	१३	नेष्टृ	४४	७
स्यद्	८५	१९	द्वि	९३	१	नोधस्	७२	१४
स्यादश	७०	१२	द्वितय	८४	५	नौ	४७	१७
प्रपु	३८	७	धन	१७	१	न्याय	१६	१५
प्रि	३०	१	धनवत्	५६	१४	पचद्	५६	५
द्वितय	८४	५	धनिन्	६३	१३	पञ्चन्	६३	२०
प्रिष्टुम	६७	१२	धनुस्	७६	५	पट	१६	१५
त्वच्	४८	१३	धरिमन्	५८	४	पठद्	५६	१
त्वष्टृ	४४	७	धर्म	{ १६ १५ १९ ५		पण्डितमानिन्	६३	१५
रिक्प्	७१	७	धुर्	६८	७	पति	२५	१४
दक्षिण	८४	१३	धेनु	३८	९	पथिन्	६५	९
दण्डिन्	६३	७	ध्वारायिन्	६३	१४	पथिवस्	७४	१९
दधि	२८	६	नराच्छिद्	५७	५	पपी	३५	८
दधिका	२१	५	नदी	३४	११	पयस्	७५	७
दण्यच्	४८	१५	ननान्त	४५	३	पर	८४	१२
दन्त	७९	१२				परमार्थ	१६	१६

नाम	पृ०	पं०	नाम	पृ०	पं०	नाम	पृ०	पं०
परमेश्वर	१६	१४	प्रभु	३७	२	भ्रूणहन्	६२	१२
परिभू	३९	१	परिज्मन्	५८	१७	मघवन्	५९	१६
परीणाह्	७८	१५	प्रशास्त्र	४४	८	मज्जन्	५८	३
पर्णध्वस्	७४	६	प्राच्	४८	१५	मथिन्	६५	९
पात्र	१८	१८	प्राह्	५१	६	मध्वच्	४८	१५
पाथस्	७५	१३	प्रावृत्	७१	१	मनस्	७५	१३
पाद	७९	१२	प्रियचतुर्	६९	६	मरुत्	५५	१३
पापीयस्	७४	२२	प्लीहन्	५८	३	महत्	५६	६
पामन्	६१	११	बहिस्	७६	६	महिमन्	५८	५
पितृ	४१	५	बल	१८	१८	मातरिदवन्	५८	१८
पुनभू	३९	७	बहुपूषन्	५८	२१	मातृ	४५	४
पुर्	६८	७	बह्वयंभन्	५८	२१	माया	२३	३
पुरुष	७	१३	बृहत्	५६	५	मास	७९	१२
पुरोधस्	७२	१४	ब्रह्मन्	६२	११	मित्रद्रह्	७७	२२
पूर्व	८४	१२	ब्रह्मबन्धू	४०	११	मिप्	६६	१५
पूषन्	५८	१९	ब्रह्मवादिन्	६३	१४	सूधन्	५८	३
पृषत्	५६	५	ब्राह्मणी	३४	११	मेघा	२३	३
पोतृ	४४	७	भवत्	१००	८	मोक्ष	१६	१५
प्रजा	२३	३	भसद्	५७	४	अदिमन्	५८	४
प्रतिदिवन्	६४	२४	भस्मन्	६१	१२	यवृन्	७९	१४
प्रतिपद्	५७	५	भानु	३७	२	यलुस्	७६	५
प्रात्यच्	४८	१५	भुर्	६८	७	यज्ञनी	३२	४
प्रथम	६३	२२	भूयस्	७५	१३	यज्वन्	५८	१८
प्रथमजा	२१	५	भूरीदायन्	५८	५	यद्	८७	१
प्रथिमन्	५८	४	घ्रात्	४३	७	ययी	३५	८

ना	पृ०	पं०	नाम	पृ०	पं०	नाम	पृ०	पं०
यवभृज्	५३	८	वपुस्	७६	५	वृद्धन्	६१	१६
यवमत	५६	१४	वयोधस्	७२	१४	वृपन्	५८	२
यवीयस्	७४	१२	वर्षाभू	३९	७	वेद	१६	१५
यातृ	४५	४	वस्तु	३७	१५	वेदविद्	५७	५
यादृश	७०	१२	वस्त्र	१८	१८	वेदि	३०	१०
युज्	५३	९	वद्धि	२५	१३	वेधस्	७२	१४
युवन्	५९	१६	घाच्	४८	१	वेहत्	५५	१८
युष्मद्	९३	८	घामोरू	४१	१	व्यवहार	१६	१६
यूप्	७९	१४	वायु	३६	९	व्योमन्	६१	१०
रञ्जु	३८	१६	वारि	२७	३	शकृत्	७९	१४
रवि	२५	१३	विद्याधव	५६	१४	शक्मन्	५८	१७
राजन्	५७	९	विद्वस्	७३	९	शशु	३७	२
रूप्	७१	७	विपद्	५७	४	शप्	६६	१५
रेणु	३८	१७	विपुप्	७१	६	शाद्	५७	४
रै	४६	११	विभु	३७	२	शरिमन्	५८	४
रोमन्	६१	११	विराज्	५३	८	शर्मन्	६१	११
रोहित्	५५	१७	विश	७०	११	शास्त्र	१८	१८
रुद्धमी	३५	८	विश्य	८२	१८	शिव	१६	१४
रुघट	५५	१०	विश्वप्सन्	५८	३	शोषघातिन्	६३	१३
रुलिश	७०	११	विश्वभोजस्	७२	१३	शुच्	४८	१३
रुमन्	६१	११	विश्वभ्राज्	५३	८	शुश्र्वस्	७४	१९
यचस्	७५	१४	विश्वयशास्	७२	१३	शोषिस्	७६	६
वभू	४१	१	विश्वराज्	५३	८	शमभु	३८	७
वभृटी	३४	१२	पिनवेदस्	७९	१३	शमभ्	४१	१
वन	१८	१८	वृक्ष	१६	१५	श्री	३५	८

नाम	पृ०	पं०	नाम	पृ०	पं०	नाम	पृ०	पं०
श्रेयस्	७४	२२	सलिल	१८	१८	स्तरी	३५	७
श्वन्	५९	१६	साधुकारिन्	६३	१४	स्त्री	३४	१२
षय्	७१	१३	सामन्	६१	१	स्थाण्डिलशायिन्	६३/१५	
संश्रवत्	५५	१८	सीमन्	६१	१०	स्थामन्	५८	३
सहितोरु	४१	१	सुग्रामन्	५८	४	स्नेहन्	५८	३
सन्धि	२८	६	सुदामन्	५८	५	स्व	८४	२२
सन्धि	२६	७	सुधर्मन्	५८	१७	स्वतवस्	७५	१५
सदृश	७४	१२, २०	सुधी	३२	४	स्ववस्	७५	१५
ससन्	६३	२०	सुधीवन्	५८	५	स्वसृ	४५	३
ससन्	६५	२३	सुप	६६	१०	स्वादु	३८	७
सम्पद्	५७	१	सुपर्वन्	५८	१८	स्रुच्	४८	१३
सम्राज्	५३	८	सुमनस्	७५	६	हरित	५५	१७
सरट्	५५	४	सेदिवस्	७४	१९	हर्तुं	४४	७
सरयु	३८	१६	सेनानी	३१	८	हविस्	७६	६
सरस्वती	३४	११	सोमपा	१९	११	हृदय	७९	१३
सर्पिस्	७६	६	सोमयाजिन	६३	१५	होत्	४३	१५
सर्व	८१	११						



अथ नामिकः



यह पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था में पांचवां † पुस्तक है। प्रथम, सन्धिविषय को पढ़कर पश्चात् इसको पढ़ना चाहिये। नामिक इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें सुप् के साथ नाम अर्थात् संज्ञा आदि शब्दों का विधान है, और इसी हेतु से 'नाम्नां व्याख्यानो ग्रन्थो नामिकः' यह तद्विद्यार्थ संगत होता है, क्योंकि यहाँ नामशब्द से व्याख्यान अर्थ में 'ठक्' प्रत्यय हुआ है ‡। नामवाचकों का प्रयोग-सिद्धि के लिये मुनिवर पाणिनिजी ने प्रातिपदिकसंज्ञा से विधान किया है।

(प्र०) प्रातिपदिकसंज्ञा का क्या फल है ?

(उ०) सुप्, स्त्री और तद्धित प्रत्ययों का विधान होना।

(प्र०) सुप् किसका नाम है ?

(उ०) प्रथमा के एक वचन से लेके सप्तमी के बहुवचन पर्यन्त

इक्कीस (२१) प्रत्ययों के संघात का।

(प्र०) सुप् के कितने अर्थ हैं ?

† क्रमशः षर्जोच्चारणाशिक्षा, संस्कृतयास्यप्रबोध, व्यवहारमानु और सन्धिविषय के अनन्तर नामिक का स्थान है।

‡ इयजुद्माहणकंप्रथमाप्वरपुरध्वरणनामाख्याताहक् । स्त्रीण० १९० ॥

(३०) सुपां कर्मादयोऽप्यर्थाः संख्या चैव तथा
तिडाम् ॥ महाभाष्य अध्याय १ । पाद ४ । सू० २१ ।
आह्निक २ ॥

ये ग्यारह अर्थ सुप् के हैं—कर्म, कर्ता, करण, संप्रदान, अपादान,
सम्बन्ध, अधिकरण और हेतु तथा एकत्व, द्वित्व और बहुत्व ।

(प्र०) शब्द के प्रकार के होते हैं ?

(३०) नाम च धातुजमाह निरुक्ते ष्पाकरणे
शकटस्य च तोकम् । नैगमरूढिभवं हि सुसाधु ॥
महा० अ० ३ । पा० ३ । सू० १ । आ० १ ॥

तीन प्रकार के अर्थात् यौगिक, रूढ और यौगरूढ, [होते हैं] परन्तु
यास्कमुनि आदि निरुक्तकार और वैयाकरणों में शाकटायनमुनि सब
शब्दों को धातु से निष्पन्न अर्थात् यौगिक और यौगरूढ ही मानते
[हैं] और पाणिनि आदि रूढ भी मानते हैं । परन्तु सब ऋषि मुनि
वैदिक शब्दों को यौगिक और यौगरूढ तथा [कई] लौकिक शब्दों
में रूढ भी मानते हैं ।

(प्र०) उक्त यौगिक, रूढ और यौगरूढ इन तीन प्रकार के शब्दों
के क्या २ लक्षण हैं ?

(३०) 'यौगिक' उनको कहते हैं कि जो प्रकृति और प्रत्ययार्थ
तथा अवयवार्थ का प्रकाश करते हैं । जैसे—कर्ता, हर्ता, दाता,
अध्येता, अध्यापक, लम्बकर्ण, शास्त्रज्ञान, फालज्ञान इत्यादि । 'रूढ'
उनको कहते हैं कि जिनमें प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ न घटता हो,
किन्तु वे संज्ञापोषक हों । जैसे—रट्वा, माला, शाला इत्यादि ।
'यौगरूढ' उनको कहते हैं कि जो अवयवार्थ का प्रकाश करते हुए अपने
योग से किसी अर्थ में नियत हों । जैसे—दामोदर, सहोदर, पद्मज
इत्यादि ।

उक्त त्रान प्रकार के शब्द नामान्तर से भी प्रसिद्ध हैं अर्थात् जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा शब्द । जातिवाचक उनको कहते हैं कि जिनका योग आकृति और बहुत व्यक्तियों के साथ हो । जाति के दो भेद हैं सामान्यजाति और सामान्यविशेषजाति । 'सामान्यजाति' उसको कहते हैं कि जिसका योग तुल्य आकृति और बहुत समान व्यक्तियों में रहता हो । जैसे—मनुष्य, पशु, पत्नी इत्यादि । 'सामान्यविशेषजाति' उसको कहते हैं कि जो पदाथे किसी में सामान्य और किसी से विशेष हो जैसे मनुष्यादि सामान्यजातियों में स्त्री पुरुष इत्यादि, पशुओं में गौ, हस्ती, अश्व इत्यादि और पक्षियों में हंस, काक इत्यादि । गुणवाची शब्द वे हैं जो द्रव्य के ओश्रित [वर्तमान गुणों के वाचक] हों । जैसे—धर्म, अधर्म, संस्कार, शुक्ल, हरित, नील, पीत, रूप, गन्ध, स्पर्श, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख, ज्ञान इत्यादि । क्रियाशब्द उनको कहते हैं कि जो चेष्टा अर्थात् व्यापार आदि के वाचक हों । जैसे—भवति, करोति, पचति, आस्ते, शेते इत्यादि । और यदृच्छाशब्द उनको कहते हैं कि कोई मनुष्य यथावत् बोलने में असमर्थ होकर जिनका अन्यथा उच्चारण करे । जैसे—'अतक' के बोलने में [असमर्थ] "लृत्क" का उच्चारण करते हैं ।

(प्र०) इन शब्दों के प्रयोग कितने भेदों से होते हैं ?

(उ०) स्त्रीलिङ्ग, पुलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग इन तीनों भेदों से ।

(प्र०) इन भेदों के लक्षण और प्रमाण क्या हैं ?

(उ०) स्तनकेशवती स्त्री स्याद्धोमशः पुरुषः

स्मृतः । उभयोरन्तरं यच्च तदभावे नपुंसकम् ॥

महा० अ० ४ । पा० १ । सू० ३ ॥

जिसके बड़े बड़े लोम हों वह पुरुष, जिसके स्तन और शिर के बाल बड़े २ हों वह स्त्री और जो इन दोनों के मध्यस्थ बिंदु बाला

हो वह नपुंसक कहाता है। पुँल्लिंग के उदाहरण जैसे—पुरुषः, पुरुषो, पुरुषा, इत्यादि। स्त्रीलिङ्ग के—अम्बा, अम्बे, अम्बाः, इत्यादि। नपुंसकलिङ्ग के—नपुंसक, नपुंसके, नपुंसकानि, इत्यादि।

(प्र०) इस प्रमाण और लक्षण से मनुष्य आदि चेतनव्यक्तियों में तो लिंगज्ञान होता है परन्तु जड़ पदार्थों में नहीं, क्योंकि उनमें पुरुष, स्त्री और नपुंसक के चिह्न कुछ भी नहीं देख पड़ते हैं।

(उ०) उनमें भी क्वचित् २ कुछ २ लिंगों के चिह्न देख पड़ते हैं। जैसे—भागः, भागौ, भागा, इत्यादि, यहां पुँल्लिंग का चिह्न 'घञ्' † खट्वा, खट्वे, खट्वा, नदी, नद्यौ, नद्यः, इत्यादि यहां स्त्रीलिंग के चिह्न 'टाप्' और 'डीप्' ‡ ज्ञानं, ज्ञाने, ज्ञानानि, यहां 'लृट्' † प्रत्यय नपुंसक का चिह्न है। जैसे इन शब्दों में व्याकरण की रीति से प्रत्यय लिंग के द्योतक दिखलाई देते हैं वैसे सर्वत्र वेद, निरुक्त और निघण्टु आदि में निर्देश देखकर शब्दों के लिंगों की व्याख्या यथावत् जाननी उचित है, क्योंकि—

लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वास्त्रिङ्गस्य ॥ महा० अ०

२ । पा० १ । सू० १ । आ० १ ॥

लिंगों का [पूर्ण] अनुशासन एक विशेष पुस्तक में नहीं किया जा सकता, अतः लिंगज्ञान के अर्थ वेदादि शास्त्रों [और लोक-व्यवहार] का जानना सबको आवश्यक है।

(प्र०) शब्दविषय कितना है ?

† 'घञ्प्रत्ययः' (लिङ्ग० ३९) इस सूत्र से घञ्प्रत्यय पुँल्लिङ्ग होता है।

‡ 'अजायतटाप्' (स्त्री० २) 'दिङ्गान्' (स्त्री० ३५) इन सूत्रों से स्त्रीलिङ्ग में टाप् और डीप् होते हैं।

† 'मावे ष्युदन्तः' (लिङ्ग० ११९) इस सूत्र से नपुंसक होता है।

(७०) सप्तद्वीपा वसुमती, त्रयो लोकाश्चत्वारो
वेदाः साङ्गाः सप्तहस्या बहुधाभिन्नाः । एकशतमध्व-
र्युशाखाः, सहस्रवर्षा नामवेदः, एकविंशतिधा
षाहवृत्तम्, नवधा अथर्वणो वेदः । वाकोवाक्पमि-
तिहासः पुराणं वैशकमित्येतावाञ्छब्दस्य प्रयोग-
विषयः । एतावन्तं शब्दस्य प्रयोगविषयमनुनिशम्य
सन्त्यप्रयुक्ता इति वचनं केवलं साहसमात्रमेव ।
एतस्मिन्श्चातिमहति शब्दस्य प्रयोगविषये ते ते शब्दा-
स्तत्र तत्र नियतविषया दृश्यन्ते ॥ महा० अ० १ ।
पा० १ । पस्पशाङ्गिनके ॥

जा मनुष्य सातद्वीपयुक्त पृथिवी, तीन लोक अर्थात् नाम जन्म
और स्थान † सांगोपांग वेद अर्थात् एकसौ एक व्याख्यानयुक्त ‡
यजुः, हजार व्याख्यानयुक्त ऋ साम, इक्कीस व्याख्यानयुक्त ऋक्,

† धामानि त्रयाणि भवन्ति । स्थानानि, नामानि, जन्मानि इति ।
निरुक्त ९ । २८ । धाम और लोक शब्द पर्याय हैं ।

‡ (क) यहां एकसौ एक संख्या में शाखाएं और मूल संहिता दोनों
सम्मिलित हैं । इसी प्रकार अगली संख्याओं में भी समझना चाहिये ।

(ख) शाखाएं वेद के व्याख्यान ग्रन्थ हैं । देखो सत्याधर्मकाण्ड
सप्तम समुह्यास, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका वेदसंज्ञाविचारप्रकरण ।

* पं० सत्यप्रत सामधर्मी ने ऐतरेयालोचन पृष्ठ १२७ में इस अर्थ
को अशुद्ध बताया है और सामवेद की केवल १३ शाखाएं लिखी हैं ।
वस्तुतः पं० सत्यप्रत सामधर्मी का ही लेख अशुद्ध है । महाभारत शांति-
पर्व में सामवेद की एक सहस्र शाखाएं लिखी हैं—सहस्रशाखं यस्ताम ।
किनेप देखो, संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास पृ० ८ टि० १ ।

नव व्याख्यानयुक्त अथर्ववेद, वाकोवाक्य अर्थात् दर्शनशास्त्र, इतिहास, पुराणम् = साम गोपथ ब्राह्मण और वैद्यक अर्थात् चरक सुश्रुत आदि इस बहुते बड़े शब्द के विषय को देखे सुने विना कोई कहे कि [पाणिनि ने अप्रयुक्त शब्दों का निर्देश किया [है] उसका यह कहना केवल हठ और अज्ञान का भरा हुआ है, क्योंकि जिनका साधारणता से प्रयोग-विषय देखने में नहीं आता वह विद्वानों के देखने में विस्तीर्ण शब्द-विषय में आता है।

१-अथ शब्दानुशासनम् ॥ अ० १ । १ । १ ॥

यहां 'अथ' शब्द अधिकार के लिए है। शब्दों का अनुशासन अर्थात् उनकी शिक्षा का अधिकार किया जाता है। यहां से आगे क्रम से शब्दों का विषय दिखाया जायगा।

(प्र०) शब्द का लक्षण क्या है ?

(उ०) श्रोत्रोपलब्धिर्बुद्धिर्निर्ग्राह्यः प्रयोगेणाऽ-
भिज्वलित आकाशदेशः शब्दः ॥ २ ॥ महा० अ०
१ । पा० १ । आ० २ ॥

जिसका कानों में सुनकर बोध हो, जो बुद्धि से निरन्तर ग्रहण करने के योग्य, उच्चारण से प्रकाशित और आकाश जिसके रहने का स्थान है, वह शब्द कहाता है।

(प्र०) शब्द के कै भेद हैं ?

(उ०) धार अर्थात् नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, इन चारों में से नाम शब्दों का व्याख्यान इस ग्रन्थ में किया जायगा।

(प्र०) नामयाचक कौन शब्द हैं ?

(उ०) सत्त्वप्रधानानि नामानि ॥

निरु० १ । १ ॥

जो मुख्यता से सत्त्वप्रधान अर्थात् द्रव्य और गुणों के वाचक शब्द हैं, उनको नाम कहते हैं। जैसे—गौः, अश्वः, पुरुषः, इत्यादि।

(प्र०) व्याकरण में कैसे २ शब्दों का विधान किया जाता है ?

२-(७०) समर्थ पदविधिः ॥ अ० २।१।१॥

पदविधि समर्थ के आश्रित होती है। समर्थ अर्थात् जिसके साथ जिसकी योग्यता हो उसी के साथ उसका पदकार्य होता है। जैसे—'भू-तव्यत्' यहां धातु संज्ञा के बिना 'भू' शब्द प्रत्ययविधान में असमर्थ तथा 'तव्यत्' यह कृत् और प्रत्ययसंज्ञा के बिना विधान होने ही में असमर्थ है। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये। तथा जिस पद के साथ जिसकी योग्यता हो उसी से उसका समास होता है। व्याकरण में सब सूत्रों से प्रथम इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है † तत्पश्चात् सुबन्त विषय में प्रातिपदिकसंज्ञा होती है।

[आकारान्त पुल्लिङ्ग पुरुष शब्द]

प्रातिपदिकसंज्ञाविधायक सूत्र।

३-अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् ॥

अ० १।२।४५ ॥

यहां 'अर्थवत्' शब्द में 'मत्तुप्' प्रत्यय नित्ययोग में किया है, क्योंकि शब्द और अर्थ का सनातन संबन्ध है। केवल धातु [प्रत्यय] और प्रत्यय [न्त] से पृथक् [जो] अर्थवान् शब्द [है] वह प्रातिपदिक संज्ञक हो। जैसे—धन, वन इत्यादि।

४-कृत्तद्धितसमासाश्च ॥ अ० १।२।४६ ॥

† सिद्धान्त कीमुदी के पदनेपाले 'समर्थः पदविधिः' सूत्रका सम्यग्ध केवल समासप्रकरण में मानते हैं। यह उनकी मूल है। इसी सूत्र के महाभाष्य में ८८ रा है—पाठान् व्याकरणे पदगन्धो नाम स सर्वः स्मृतीतो भवति। :

कृदन्त, तद्धितान्त और समास भी प्रातिपदिक संज्ञक हों। जैसे कृदन्त में 'अधीङ्—वृच्', तद्धित में—'उपगु—अण्', समास में—'राजन्—ङस्' पुरुष—'सु' इत्यादि। अव्युत्पन्न व्युत्पन्न दोनों पक्ष में उक्त सूत्रों से प्रातिपदिक संज्ञा होती है ‡।

५—ङ्याप्प्रातिपदिकात् ॥ अ० ४। १। १ ॥

यह अधिकारसूत्र है। ङ्यन्त, आबन्त और प्रातिपादिक से स्वादिक, स्त्रीवाचक और तद्धितप्रत्यय होते हैं। उनमें सं (स्वादिक) प्रत्यय यथा—

६—स्वौजसमौट्छष्टाभ्याम्भिस्ङेभ्याम्भस्ङसि-
भ्याम्भस्ङसोसांङयोस्सुप् ॥ अ० ४। १। २ ॥

ङ्यन्त, आबन्त और प्रातिपदिक से 'सु' आदि (१) इक्कीस २१ प्रत्यय हों।

७—सुपः ॥ अ० १। ४। १०२ ॥

सुप् प्रत्ययाहार के जो तीन २ वचन हैं वे क्रमशः एकवचन, द्विवचन और बहुवचन हों।

८—विभक्तिश्च ॥ अ० १। ४। १०३ ॥

तिङ् और सुप् के जो तीन २ वचन हैं, वे विभक्ति संज्ञक हों। अब यथाक्रम से विभक्तियों के रूप लिखते हैं—

१ इन्हीं प्रायशों के भादि 'सु' से लेकर धन्य 'प्' पर्यन्त का नाम 'सुप्' मत्पाहार है।

‡ व्युत्पत्ति पक्ष सूत्र में संख्या १ से भीर अव्युत्पत्तिपक्ष में संख्या ५ से प्रातिपदिक संज्ञा होती है।

विभक्ति	एक- वचन	द्विवचन	बहु- वचन	विभक्ति	एक- वचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथमा	सु	औ	जस्	पञ्चमी	डसि	भ्याम्	भ्यस्
द्वितीया	अम्	औट्	शस्	षष्ठी	डस्	ओस्	आम्
तृतीया	टा	भ्याम्	मिस्	सप्तमी	डि	ओस्	सुप्
चतुर्थी	हे	भ्याम्	भ्यस्				

इस प्रकार सातों विभक्तियों के अलग २ रूप जान लेना चाहिये ॥

६-द्वयेकयोर्द्विवचनेकवचने ॥ अ० २।४।२२ ॥

दो पदार्थों के कहने की इच्छा हो तो द्विवचन और एक पदार्थ के कहने की इच्छा हो तो एकवचन हो। जैसे—पुरुष—सु, पुरुष—म ।

१०-बहुषु बहुवचनम् ॥ अ० १।४।२१ ॥

बहुत पदार्थों के कहने की इच्छा हो तो बहुवचन हो। जैसे—पुरुष-जस् । इनमें से प्रथम 'पुरुष—सु' इसका साधन, जैसे—

११-उपदेशेऽजनुनासिक इत् ॥ अ० १।३।२॥

जो उपदेश में अनुनासिक अच् है वह इत्संज्ञक हो। उपदेश यहां उसको कहते हैं जो धातु, सूत्र और गणों में पाणिन्यादि मुनियों का प्रत्यक्ष फयन है। इस सूत्र में 'सु' इसके उकार की इत्संज्ञा होकर—

१२-तस्य लोपः ॥ अ० १।३।६ ॥

जिसकी इत्संज्ञा हुई हो उसका लोप हो। लोप होकर 'पुरुष—स्' इस अवस्था में—

१३-सुसिद्धन्तं पदम् ॥ अ० १।४।१४ ॥

जिसके अन्त में सुप् वा तिङ् हो उस समुदाय की पदसंज्ञा हो । इससे सु और तिप् आदि प्रत्ययान्त शब्दों की पदसंज्ञा होती है । तिङन्तों की व्याख्या आख्यातिक में लिखी जायगी । 'पुरुष-स्' इसकी पदसंज्ञा होकर पश्चात्—

१४-ससञ्जुषोरः ॥ अ० ८।२।६६ ॥

सकारान्त पद और सञ्जुष शब्द के स् और ष को रु आदेश हो । 'पुरुष-रु' इस अवस्था में रुके उकार की इत्संज्ञा (१) होकर लोप हो गया—'पुरुष-र्' ।

१५-विरामोऽवसानम् ॥ अ० १।४।१०६ ॥

वत्ता की वृत्ति का जो विराम अर्थात् ठहरना है उसकी अवसानसंज्ञा हो । जैसे—'पुरुष-र्' इससे रेफ की अवसानसंज्ञा हुई । अवसानसंज्ञा का फल—

१६-खरवसानयोर्विसर्जनीयः ॥ अ० ८।३।१५ ॥

रेफ से परे खर् प्रत्याहार हो तो [और] अत्रसान में रेफ को विसर्जनीय आदेश हो । इससे रेफ के स्थान में विसर्जनीय हो के—
पुरुषः । अथ प्रथमा विभक्ति का द्विवचन—'पुरुष-औ' । इस अवस्था में † पूर्व पर को वृद्धि एकादेश (-) होकर—पुरुषौ सिद्ध हुआ । प्रथमा विभक्ति का षट्त्वचन—'पुरुष-जस्' इस अवस्था में—

(१) (इत्संज्ञा) उपदेशोऽजनुनासिक इत् [ना० ११] (लोप) तस्य लोपः [ना० १२] ।

(२) (वृद्धयेकादेश) वृद्धिरेचि । सन्धि० १३४ ।

† 'पुरुष-औ' इस अवस्था में 'प्रथमयो पूर्वसवर्ण' [ना० १०] इस व्यवस्था से पूर्वसवर्ण प्राप्त होता है । उसका 'नादिवि' (भटा० १।१।१०२) सूत्र से निषेध होने पर वृद्धि एकादेश होता है ।

१७-चुट् ॥ अ० १ । ३ । ७ ॥

जो प्रत्यय के आदि में चवर्ग और टवर्ग हों तो उनकी इत्संज्ञा हो । इससे जकार की इत्संज्ञा होकर लोप हो गया । 'पुरुप-अस्' इस अवस्था में—

१८-न विभक्तौ तुस्माः ॥ अ० १ । ३ । ४ ॥

जो विभक्तियों के अन्त में तवर्ग, स् और म् हैं उनकी इत्संज्ञा न हो । इससे 'पुरुप-अस्' यहां अन्त के सकार की इत्संज्ञान हुई अब इस अवस्था में ‡—

१९-प्रथमयोः पूर्वसवर्णः ॥ अ० ६।१।१०१॥

जो अक् प्रत्याहार से परे प्रथमा और द्वितीया का अच् हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेश हो । जैसे—पुरुपास् । रुत्व, विसर्जनीय होकर—पुरुपाः । अथ द्वितीया विभक्ति का एक वचन—'पुरुप-अम्' इस अवस्था में—

२०-अभि पूर्वः ॥ अ० ६ । १ । १०६ ॥

अक् प्रत्याहार से अम् का अच् परे हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्वसवर्णरूप एकादेश हो । जैसे—पुरुपम् । द्वितीया का द्विवचन—'पुरुप-औट्' यहां (१) टकार की इत्संज्ञा और लोप तथा अकार और ङकार को वृद्धि एकादेश होकर—पुरुपौ हुआ । द्वितीया का बहुवचन—'पुरुप-शस्' इस अवस्था में—

(१) इस में टकार अनुबन्ध सुट् प्रत्याहार के लिये है ।

‡ यहां 'भतो गुणे' (सन्धि० १५३) अपदान्त आकार से परे गुण परे रहने पर रूप एकादेश हो, इस नियम से गुणरूप एकादेश की मासि होती है । उसको घट्यमाण (ना० १९) सूत्र परत्व के कारण बाध होता है ।

२१-लशक्तद्धिते ॥ अ० १।३।८ ॥

तद्धित से अन्यत्र प्रत्यय के आदि जो लकार शकार और कवर्गे वनकी इत्संज्ञा हो। इत्संज्ञक शकार का लोप हो गया। जैसे— 'पुरुष-अस्' इस अवस्था में पूर्व पर के स्थान में पूर्वसवर्ण दीर्घ हो के—पुरुषास्।

२२-तस्माच्छसो नः पुंसि ॥ अ० ६।१।१०२ ॥

[पुँडिंग विषय में] किये हुए पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेश से परे शस् प्रत्यय के सकार को नकार आदेश हो। जैसे—पुरुषान् †।
*अथ तृतीयाविभक्ति का एकवचन—'पुरुष-टा' इस अवस्था में—

२३-यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम् ॥

अ० १।४।१३ ॥

जिस धातु वा प्रातिपदिक से परे प्रत्यय का विधान करें उस धातु या प्रातिपदिक का आद्यत्तर जिसके आदि में हो उस [समुदाय] की [प्रत्यय परे रहने पर] अंगसंज्ञा होती है †। [इससे] -सु आदि सय प्रत्ययों के परे पूर्व की अंग संज्ञा होती है।

२४-टाञ्छसिडसामिनात्स्याः ॥ अ० ७।१।१२ ॥

‡ यहाँ यद्वयमाण 'अट्कृष्याट्' (मा० २५) सूत्र से जत्व की प्राप्ति होती है उस का 'पदान्तस्य' (भटा० ८।४।१०) 'पदान्त के अकार को लकार नहीं होगा' इस नियम से निवेद्य हो जाता है।

† सूत्र के 'तदादि' पद में टत्तरपदशोरी समास (तस्य आदिः तदादिः, तदादि आदिर्यस्य स तदादिः) है। इमच्छिद् 'वि+भु+नि' इस अक्षरों में 'नि' परे रहने पर 'भु' विकरण की अङ्ग संज्ञा होने से (विनोति) में गुण हो जाता है।

अदन्त अंग से परे 'टा, डसि, डस्' के स्थान में क्रम से 'इन, आत्, स्य' ये तीन आदेश हों। जैसे—पुरुष—इन। अब पूर्व पर को (१) गुण एकादेश होकर—पुरुषेन ।

२५-अट्कुप्वाङ्नुम्व्यवायेऽपि ॥ अ० ८।४।२॥

एक पद में अट् प्रत्याहार, कवर्ग, पवर्ग, आङ् और नुम् इनके व्यवधान में भी जो रेफ और पकार से परे नकार हो तो उसके स्थान में णकारादेश हो। जैसे—पुरुषेण । तृतीया विभक्ति का द्विवचन—'पुरुष—भ्याम्' इस अवस्था में—

२६-सुपि च ॥ अ० ७।३।१०२ ॥

जो यन्वादि सुप् परे हो तो अकारान्त अंग को दीर्घ हो, जैसे—पुरुषाभ्याम् । तृतीया का बहुवचन—'पुरुष-भिस्' इस अवस्था में—

२७-अतो भिस ऐस् ॥ अ० ७।१।६ ॥

जो अकारान्त अंग से परे भिस् हो तो उसको ऐस् आदेश हो। अनेकाल् होने से भिस मात्र के स्थान में ऐस् हुआ। अब (२) वृद्धि, स्त्व और विसर्जनीय होकर—पुरुषैः ।

२८-यद्गुलं छन्दसि ॥ अ० ७।१।१० ॥

परन्तु वैदिक प्रयोगों में भिस् के स्थान में ऐस् आदेश बहुल करके होता है। जैसे—देवेभिः, देवैः । करणेभिः, करणैः इत्यादि । सब अकारान्त शब्दों में दो २ रूप होंगे। चतुर्थी का एकवचन—'पुरुष—हे' इस अवस्था में—

२९-हेर्यः ॥ अ० ७।१।१३ ॥

(१) (गुणः) आद् गुणः । सन्धि० १३३ ॥

(२) (वृद्धिः)—वृद्धिरेचि [सन्धि० १३४] (स्त्व) सप्तश्लो
कः [ना० १४] ।

जो अकारान्त अंग से परे 'हे' हो तो उसके स्थान में 'य' आदेश हो। जैसे—पुरुष-य। यहां भी (१) दीर्घ होकर—पुरुषाय। द्विवचन—'पुरुष-भ्याम्' पुरुषाभ्याम्। बहुवचन—पुरुष-भ्यस्।

३०—बहुवचने भल्येत् ॥ अ० ७।३। १०३ ॥

बहुवचन में कलादि सुप् परे हो तो अकारान्त अंग को एकार आदेश हो। जैसे—पुरुषे-भ्यस्। (२) रुत्व, विसर्जनीय होकर—पुरुषेभ्यः। पञ्चमी का एकवचन—पुरुष-इसि। इसि के स्थान में (३) 'आत्' और उससे (४) सवर्णदीर्घादेश होकर। पुरुषात्।† पञ्चमी का द्विवचन—पुरुष-भ्याम्। पूर्ववत् दीर्घ होके—पुरुषाभ्याम्। बहुवचन—'पुरुष-भ्यस्' = पुरुषेभ्यः। षष्ठी का एकवचन—पुरुष-इस्। इसके स्थान में उक्त सूत्र से 'स्य' आदेश होकर पुरुषस्य। द्विवचन—पुरुष-आस्।

३१—ओसि च ॥ अ० ७।३। १०४ ॥

ओस् विभक्ति परे हो तो अकारान्त अंग को एकार आदेश हो। इससे पुरुष के अन्त्य अकार को एकार होकर—'पुरुषे-ओस्' हुआ। एकार को अय् और सकार को सत्व विसर्जनीय होकर—पुरुषयोः। बहुवचन पुरुष-आम्।

(१) (दीर्घः)—मुपि च [ना० २६]।

(२) (रुत्व) ससठपो इ [ना० १४] (विसर्जनीयः) शरया-
स्तानयोर्विसर्जनीयः [ना० १६]।

(३) (आत्) टाटमिटमामिनाम्नाः [ना० २४]

(४) (सवर्णदीर्घादेशः) अठः सवर्णं दीर्घः। मन्धि० १३०।

† यहाँ 'सप्तमी जनांश्चे' (मन्धि० १९०) सूत्र से जनादेश होकर 'पुरुषाद्' रूप होगा है, पुनः 'वापगापे' (ना० ११०) सूत्र से विकल्प से 'वर्' आदेश होकर 'पुरुषात्, पुरुषाद्' दो रूप होंगे हैं।

३२-ह्रस्वनद्यापो नुट् ॥ अ० ७ । ३ । ५४ ॥

ह्रस्व, स्वर, नदीसंज्ञक ईकारान्त, ऊकारान्त और आकारान्त से परे आम् को नुट् का आगम हो (१) । टित्त्व धर्म से आम् के आदि में नुट् हुआ । जैसे—'पुरुष-नुट्-आम्' इस अवस्था में (२) उकार और टकार की इत्संज्ञा और लोप होकर—'पुरुष-न्-आम्' नकार में आकार मिल के—पुरुषनाम् ।

३३-नामि ॥ अ० ६ । ४ । ३ ॥

नाम् अर्थात् जो पष्ठी का बहुवचन नुट् सहित आम् परे हो तो अजन्त अंग को दीर्घादेश हो । जैसे—पुरुषनाम् । यहाँ नकार को (३) एकार होके—पुरुषाणाम् । सप्तमी का एकवचन—पुरुष—ङि (४) ङ् की इत्संज्ञा और लोप होकर अकार और इकार के स्थान में गुण एकादेश एकार हुआ—पुरुषे । द्विवचन—पुरुष—ओस् । पूर्ववत् एकार (५) अय् और स् को रुत्व, विसर्जनीय हो के—पुरुषयोः । सप्तमी का बहुवचन—पुरुष—सुप् । अन्त्य हल् पकार की इत्संज्ञा और पूर्ववत् एकार होकर—'पुरुषेसु' इस अवस्था में—

३४-आदेशप्रत्यययोः ॥ अ० ८ । ४ । ५६ ॥

इणप्रत्याहार और कवर्ग से परे आदेश और प्रत्यय के सकार को मूर्धन्ये अर्थात् पकार आदेश हो । जैसे—पुरुषेषु ।

३५-सम्बोधने च ॥ अ० २ । ३ । ४७ ॥

(१) (टित् आदि में) आद्यन्ती टकित्ती । सन्धि० ८० इससे हुआ ।

(२) (उकारेत्संज्ञा) उपदेशोऽजनुनासिक इत् । [ना० ११]

(उकारेत्संज्ञा) हलन्त्यम् । सन्धि० १६ ।

(३) (णकार) अट्कुप्वाङ्नुम्व्यवायेऽपि [ना० २५] ।

(४) (ङ् की इत्संज्ञा) लशकतद्धिते [ना० २१] ।

(५) (अय्) पृचोऽयवापावः । सन्धि० १८० ।

सम्बोधन (१) अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति हो। प्रातिपदिकार्थ से संबोधन अर्थ अधिक होने से (२) प्रथमा विभक्ति प्राप्त नहीं, इसलिए यह सूत्र कहा है।

३६-सामन्त्रितम् ॥ अ० २ । ३ । ४८ ॥

सम्बोधन में जो प्रथमा विभक्ति उसकी आमन्त्रित संज्ञा हो।

३७-एकवचनं सम्बुद्धिः ॥ अ० २ । ३ । ४९ ॥

आमन्त्रित प्रथमा विभक्ति के एकवचन की सम्बुद्धि संज्ञा हो। जैसे—पुरुष-सु। उकार की इत्संज्ञा होके—'पुरुष-स्' इस अवस्थामें—

३८-एङ्हस्वात् सम्बुद्धेः ॥ अ० ६ । १ । ६६ ॥

जो एङन्त और ह्रस्वान्त प्रातिपदिक से परे सम्बुद्धि का हल् हो तो उसका लोप हो। संबोधन अर्थ दिखलाने के लिए 'हे, है, अंग, भोस, ओ' इत्यादिक शब्द भी संबोधन प्रथमान्त शब्द के साथ रहते हैं। जैसे—हे पुरुष, हे पुरुषो, हे पुरुषाः अथवा—पुरुषः, पुरुषो, पुरुषाः (३)। इसी प्रकार परमेश्वर, शिव, कृष्ण, घृष्ण, घट, पट, ग्रन्थ, वेद, स्थाय, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, व्यवहार, परमार्थ इत्यादि अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के रूप जानने चाहिये ॥

(१) (सम्बोधन) अत्यन्त चेताने को कहते हैं।

(२) प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा [कार० ४]।

(३) पुरुषः, पुरुषीः, पुरुषाः; पुरुषं, पुरुषी, पुरुषान्; पुरुषेण, पुरुष-
म्याम्, पुरुषैः; पुरुषाय, पुरुषाम्याम्, पुरुषेभ्यः; पुरुषान्, पुरुषाम्याम्,
पुरुषेभ्यः; पुरुषस्य, पुरुषयोः, पुरुषाणाम्, पुरुषे, पुरुषोः, पुरुषेभुः हे
पुरुष, हे पुरुषी, हे पुरुषाः ।

अथ नियतनपुंसकलिङ्ग धनशब्द ॥

धन शब्द को पूर्ववत् प्रातिपदिकसंज्ञा आदि कार्य होकर 'धन-सु' इस अवस्था में—

३६—अतोऽम् ॥ अ० ७ । १ । २४ ॥

अकारान्त अङ्ग से परे सु और अम् विभक्तियों के स्थान में अम् आदेश हो । इस अम् करने का यही प्रयोजन है कि सु(१) और अम् का लुक् पाता है सो न हो । धनम् । धन—औ—

४०—नपुंसकाच्च ॥ अ० ७ । १ । १६ ॥

जो अकारान्त नपुंसकलिङ्ग से परे (२) औङ् हो तो उसके स्थान में शी आदेश हो । जैसे—धन-शी । श् की इत्संज्ञा होके—धन-ई । इस अवस्था में † 'आद्गुणः' इस सूत्र से गुण होके—धने । धन—जस्—

४१—जश्शसोः शिः ॥ अ० ७ । १ । २० ॥

जो नपुंसकलिङ्ग प्रातिपदिक से परे जस् और शस् विभक्ति हो तो उनके स्थान में शि आदेश हो । जैसे—धन—शि ।

(१) 'स्वमोर्नपुंसकात्' [ना० ७०] इस सूत्र से लुक् प्राप्त था ।

(२) 'औङ्' यह प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के द्विवचन की प्राचीन आचार्यों की संज्ञा है ।

† इससे आगे सगति इस प्रकार समझनी चाहिये—नपुंसकलिङ्ग में सुट् की सर्वनामस्थान संज्ञा न होने से 'यच्चि भम्' (ना० ४५) से भसंज्ञा होकर 'यस्येति' (स्त्रै० ८०६) से अकार खोप प्राप्त होता है, उसका 'औङ्ः इमां प्रतिषेधः' (वा० ६।४।१४८) वार्तिकसे निषेध होता है, उसके पश्चात्—

४२-शि सर्वनामस्थानम् ॥ अ० १।१। ५६ ॥

शि सर्वनामस्थान संज्ञक हो। शकार की इत्संज्ञा होके—धन-इ। इस अवस्था में गुण (१) प्राप्त हुआ, उसको बाध के—

४३-नपुंसकस्य झलचः ॥ अ० ७।१। ७२ ॥

जो सर्वनामस्थान परे हो तो झलन्त और अजन्त नपुंसकलिङ्ग को नुम् का आगम हो। धन-नुम्-इ। यहाँ मकार और वकार की इत्संज्ञा होके 'धनन्-इ' ऐसा हुआ, इस अवस्था में—

४४-सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ ॥ अ० ६।४। ८॥

जो संबुद्धिभिन्न सर्वनामस्थान परे हो तो नकारान्त अङ्ग को उपधा को दीर्घ हो। इस धन शब्द के अन्त को दीर्घ हो के—
धनानि। धन-अम्। यहां अम् विभक्ति का लुक् नहीं होता है, किन्तु उसके स्थान में पूर्ववत् अम् आदेश होके प्रथमाविभक्ति के तुल्य—धनम्, धने, धनानि। तृतीयाविभक्ति से लेके सष विभक्तियों में पुरुष शब्द के समान प्रयोग समझना चाहिये। जैसे—
धनेन, धनाभ्याम्, धनेः; धनाय, धनाभ्याम्, धनेभ्यः; धनात्, धनाभ्याम्, धनेभ्यः; धनस्य, धनयोः, धनानाम्; धन, धनयोः, धनेषु। संबोधन चेतन ही में घट सकता है इसलिए इसके संबोधन में प्रयोग नहीं बनते †। यत्न, शत्र, पात्र, यत्न, यत्न, जल, सलिल

(१) (गुणः) भाद्र गुणः । सन्धि० १३३ ॥

† संबोधन का प्रयोगन स्वाभिगुण करना है। अतः संबोधन का प्रयोग चेतन पदार्थों के लिये ही होता है। परन्तु महाभाष्य ३।१।२६ के 'अचेतनेष्वपि चेतनवदुपगारः' अर्थात् अपेक्षित पदार्थों में भी चेतन के सत्ता व्यवहार होता है, इस नियम के अनुसार अपेक्षित पदार्थों के लिये भी संबोधन का गौण प्रयोग होता है। उस अवस्था में धन शब्द के 'हे धन, हे धने, हे धनानि' प्रयोग समझने चाहिये। ग्रन्थकार ने उपर्युक्त महाभाष्य के नियम को मानकर 'अग्नि' शब्द के संबोधन के रूप भागे दर्शाये हैं, अतः स्पष्ट है कि यह गण ग्रन्थकार की भी दृष्टि है।

गृह, इत्यादि, नियत नपुंसकलिङ्गों के भी रूप धन शब्द के समान जानना चाहिये ।

अकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द कोई भी नहीं है । क्योंकि स्त्रीलिङ्ग में, अकारान्त से टाप् वा ङीप् आदि प्रत्यय हो जाते हैं ।

जो अकारान्त धर्म शब्द पुल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग में है । उसके रूप भी पुरुष और धन शब्द के समान जानना चाहिये । जैसे—धर्मः, धर्मा, धर्माः; धर्मम्, धर्मा, धर्मान्; धर्मेण, धर्माभ्याम्, धर्मैः, धर्माय, धर्माभ्याम्, धर्मेभ्यः; धर्मात्, धर्माभ्याम्, धर्मेभ्यः; धर्मस्य, धर्मयोः, धर्माणाम्; धर्मे, धर्मयोः धर्मेषु । नपुंसकलिङ्ग में—धर्मम्, धर्मे, धर्माणि; धर्मम्, धर्मे, धर्माणि इत्यादि ।

॥ इत्यकारान्ताः ॥

अथ आकारान्तः सोमपाशब्दः ।

सोम औषधियों के रस को कहते हैं उसको जो पिये वा उसकी रक्षा करे उसका नाम 'सोमपा' है । यह 'सोमपा' शब्द विशेष्य के अनुसार तीनों लिङ्गों में होता है, जैसे—सोमपाः पण्डितः, सोमपाः स्त्री, सोमपं कुलम् । उनमें से प्रथम पुल्लिङ्ग जैसे—सोमपा—सु । इत्संज्ञा और विसर्जनीय हांके—सोमपाः । सोमपा—औ ङ । वृद्धि एकादेश होके—सोमपौ । सोमपा—जस् । जकार की इत्संज्ञा और लोप तथा सकार को विसर्जनीय और दीर्घ एकादेश होके—सोमपाः । यहां एकवचन और बहुवचन में भेद अभी [प्रतीत] होगा

‡ यहाँ 'प्रथमयोः पूर्वसवर्ण' (ना० १९) से पूर्वसवर्ण दीर्घादेश की प्राप्ति होती है, उसका 'दीर्घाञ्जसि च' (ना० ८३) से निषेध होता है, तत्पश्चात् वृद्धि एकादेश होता है ।

जब कि इसके साथ विशेष्यवाची का निर्देश किया जायगा। जैसे—
सोमपाः पण्डितः, सोमपाः पण्डिताः। सोमपा—अम्। पूर्वसवर्ण
एकादेश होके—सोमपाम्। सोमपौ पूर्ववत्। सोमपा—शस्, इस
अवस्था में—

४५—यच्चि भम् ॥ अ० १। ४। १८ ॥

यकारादि अजादि सर्वनामस्थान भिन्न कप् (१) प्रत्ययावधि
स्वादि प्रत्यय परे हों तो पूर्व की भसजा हो।

४६—आतो धातोः ॥ अ० ६। ४। १४० ॥

भसंज्ञक आकारान्त धातु का लोप हो। जो आदेश सामान्य से
विधान किया जाता है वह 'बलोऽन्त्यस्य'† इस परिभाषाबल
से अन्त्य वर्ण के स्थान में समझना चाहिए। सोमपा शब्द में 'पा'
आकारान्त धातु है, इसके अन्त्य आकार का लोप होके—सोमपः,
सोमपा, सोमपाभ्याम्, सोमपाभिः; सोमपे, सोमपाभ्याम्, सोमपाभ्यः,
सोमपाः, सोमपाभ्याम्, सोमपाभ्यः, सोमपः, सोमपौः, सोमपाम्,
सोमपि, सोमपोः, सोमपासु। सशोधन में कुछ विशेष नहीं। हे
सोमपाः, हे सोमपौ, हे सोमपा।

श्रीलिङ्ग में भी सोमपा शब्द के प्रयोग ऐसे ही होते हैं परन्तु
नपुंसकलिङ्ग में कुछ विशेषता है। सोमपा—सु, इस अवस्था में—

४७—ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य ॥ अ० १। २। ४७ ॥

जो नपुंसकलिङ्ग में वर्तमान अजन्त प्रातिपदिक है उमको
ह्रस्वादेश हो। जैसे—सोमप। अप सष विभक्तियों में धन

१. कप्-प्रत्ययावधि पञ्चमाश्रयाय के 'उरःप्रभृतिभ्यः कप्' [नामा०
२६९] इस सूत्र तक प्रायप लेना चाहिये।

शब्द के समान सब कार्य समझना चाहिये । जैसे—सोमपम, सोमपे, सोमपानि; सोमपम, सोमपे, सोमपानि; सोमपेन, सोमपोभ्याम्, सोमपैः; सोमपाय, सोमपाभ्याम्, सोमपेभ्यः; सोमपात्, सोमपाभ्याम्, सोमपेभ्यः; सोमपस्य, सोमपयोः, सोमपानाम्; सोमपे, सोमपयो, सोमपेषु । इसी प्रकार—गोजा, प्रथमजा, गोपा, कूपखा, दधिक्रा, आञ्जपा, कीलालपा इत्यादि शब्दों के भी प्रयोग तीनों लिङ्गों में समझने चाहिये ।

आकारान्त कन्या शब्द ।

कन्या—सु, इस अवस्था में—

४८—हल्ङ्याब्ध्वो दीर्घात्सुतिस्यपृक्तं हल् ॥

अ० ६ । १ । ६८ ॥

हलन्त और दीर्घ डीप्, डीप्, डीन्, टाप्, डाप्, चाप् ये जिनके अन्त में हों उन से परे सु, ति, सि इनका जो अपृक्त + हल् उसका लोप हो । जैसे—कन्या । कन्या—औ, इस अवस्था में—

४९—औङ आपः ॥ अ० ७ । १ । १८ ॥

जो आबन्त अङ्ग से परे (१) औङ् हो तो उसको शी आदेश हो । शकार की इत्संज्ञा और गुण होके—कन्ये । कन्या—जस । जकार की इत्संज्ञा, पूर्वसवर्ण दीर्घेः एकादेश, हत्व, विसर्जनीय होके—कन्याः । कन्या—अम् । पूर्वसवर्ण दीर्घे एकादेश होके—

१. औङ् यह प्रथमा और द्वितीया के द्विचचन की पूर्वाचार्यों की सज्ञा है ।

+ 'अपृक्त एकाल् प्रत्ययः' (अष्टा० १ । २ । ४१) सूत्र से एकवर्ण प्रत्यय की अपृक्त सज्ञा होती है ।

ः प्रक्रियानुसार यहां 'दीर्घाजसि च' (अष्टा० ६ । १ । १०५) से पूर्व सवर्णदीर्घ का प्रतिषेध होकर 'अङ् सवर्णे दीर्घ' (अष्टा० ६ । १ । १०१) से सवर्णदीर्घादेश होता है ।

कन्याम् । कन्या—औट् । पूर्ववत्—कन्ये । कन्या—शस् । शकार की इत्संज्ञा पूर्वसवर्णेदीर्घ रुत्व और विसर्जनीय होके—कन्या । कन्या—टा, इस अवस्था में—

५०—आडि चाऽऽपः ॥ अ० ७ । ३ । १०५ ॥

आबन्त अङ्ग से परे टा [और ओस्] विभक्ति हो तो उसको एकार हो । जैसे—कन्ये—टा । टकार की इत्संज्ञा होके—‘कन्ये-आ’ इस अवस्था में अय् आदेश होकर—कन्यया । कन्याभ्याम्, कन्याभि । कन्या—हे, इस अवस्था में—

५१—याढापः ॥ अ० ७ । ३ । ११३ ॥

‘आबन्त अङ्ग से परे डित् प्रत्यय को याट् का आगम हो । जैसे—कन्या—याट्—हे । टकार, ङकार की इत्संज्ञा और लोप, तथा वृद्धि एकादेश होके—कन्यायै, कन्याभ्याम्, कन्याभ्य, कन्याया, कन्याभ्याम्, कन्याभ्य, कन्याया’ । कन्या—ओस्, यहा णकार आदेश, अय्, रुत्व और विसर्जनीय होके—कन्ययो’ । कन्या—आम्, (१) कन्यानाम् । कन्या—याट्—डि, इस अवस्था में—

५२—छेराङ्ग्याम्नीभ्यः ॥ अ० ७ । ३ । ११६ ।

आबन्त, नदीसहक और नी इन अङ्गों से परे छि के स्थान : आम् आदेश हो । जैसे—कन्याया—आम् । यहा एकादेश होके—कन्यायाम्, कन्ययो, कन्यासु । संशोधन में इतना विशेष है कि कन्या—सु ।

५३—सम्बुद्धौ च ॥ अ० ७ । ३ । १०६ ॥

१ ‘इत्स्वन्घोपो जुट्’ [ना० ३२] इससे जुट् होगया ।

सन्वुद्धि परे हो तो आवन्त अङ्ग को एकार आदेश हो । जैसे—
[कन्ये—सु] पूर्ववत् सकार का लोप होके † हे कन्ये, हे कन्ये,
हे कन्याः (१) । इसी प्रकार प्रजा, जाया, छाया, माया, मेधा,
अजा इत्यादि आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के प्रयोग जानने चाहिये;
परन्तु जरा शब्द में कुछ विशेष है—

५४-जराया जरसन्यतरस्याम् ॥ अ० ७।२।१०१॥

अजादि विभक्तियों से परे जरा शब्द को जरस् आदेश हो
विकल्प करके जरा, जरसौ, जरे, जरसः जराः इत्यादि ।

॥ इत्याकारान्ताः ॥

इकारान्त नियतपुंलिङ्ग अग्निशब्द ॥

पूर्ववत् सब कार्य हांकर—अग्निः । अग्नि—औ, यहाँ (२)
पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेश ईकार होके—अग्नी । अग्नि—जस्, इस
अवस्था में जकार की इत्संज्ञा होके—

५५-जसि च ॥ अ० ७।३।१०१॥

जो जस् प्रत्यय के परे पूर्व ह्रस्वान्त अङ्ग हो तो उसको गुण हो ।
इससे इकार को एकार गुण और एकार को अय् आदेश होकर—
अग्नयः ।

५६-वा०-जसादिषु छन्दसि वा वचनं प्राङ् णी
चङ्-धुपधायाः ॥ ५८ ॥

१. कन्या, कन्ये, कन्याः; कन्याम्, कन्ये, कन्याः; कन्यया, कन्याम्याम्,
कन्याभिः; कन्याये, कन्याम्याम्, कन्याम्यः; कन्यायाः, कन्ययोः, कन्या-
जाम्, कन्यायाम्, कन्ययोः, कन्यामुः; हे कन्ये, हे कन्ये, हे कन्याः ।

२. (पूर्वसवर्णं) प्रथमयोः पूर्वसवर्णः [ना० १९] ।

† अर्थात् 'पठ्-भ्वात् सम्प्रुद्धेः (ना० ३८) म्य मे ।

- जस् आदि विभक्तियों में इस प्रकरण मे जो कार्य कहे हैं वे वेद में विकल्प करके हों। जैसे—गुण का विकल्प—अग्नयः, (१) अग्न्यः, शतक्रत्व, शतक्रत्वः; पशवे, पशवे। अग्नि—अम्, यहां 'अमि पूर्व।' [ना० २०] इस सूत्र से पूर्वरूप हो के—अग्निम्। अग्नि—औ, पूर्ववत्—अग्नी। अग्नि—शस्। पूर्वसवर्ण दीर्घ और सकार को नकारादेश हो के अग्नीन्। अग्नि—टा।

५७-शेषो घसखि ॥ अ० १। ४। ७ ॥

शेष अर्थात् जिनकी नदी संज्ञा न हो ऐसे जो ह्रस्व इकारान्त उकारान्त शब्द हैं उनको घिसंज्ञा हो। इससे अग्नि शब्द की घिसंज्ञा होके—

५८-आडो नास्त्रियाम् ॥ अ० ७। ३। १२० ॥

जो घिसंज्ञक अङ्ग से परे आड अर्थात् टा विभक्ति हो तो उसके स्थान मे ना आदेश हो, खीलिङ्ग में न हो। अग्निना, अग्निभ्याम्, अग्निभिः। अग्नि—डे।

५९-घेङिति ॥ अ० ७। ३। १११ ॥

ङित्प्रत्यय परे हो तो घ्यन्त अङ्ग को गुणादेश हो। उसको अय् आदेश होके—अप्रये, अग्निभ्याम्, अग्निभ्यः। अग्नि—इसि। इकार की इत्संज्ञा और इकार को गुण होके—'अप्ते-अस्' इस अवस्था में—

६०-इसिडसोश्च ॥ अ० ६। १। १०६ ॥

जो पदान्त एह् से परे [इसि और] इस् सम्बन्धी अकार हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्वरूप एकादेश हो। जैसे—अप्ते, अग्निभ्याम्, अग्निभ्यः, अग्नेः। अग्नि—ओस्। यहां य् आदेश हो

— १. जहाँ गुण नहीं होता है वहाँ "इको यणचि" (सन्धि १०९) इससे यण् आदेश हो जाता है।

गया—अग्न्यो. । अग्नि—आम् । यहाँ (१) जुट् और दीर्घ होकर—
‘अग्नीनाम्’ सिद्ध हुआ । अग्नि—डि, इस अवस्था में—

६१—अच्च घेः ॥ अ० ७ । ३ । ११६ ॥

जो घिसंज्ञक इकारान्त उकारान्त शब्द से परे डि विभक्ति हो तो उसके स्थान में औकार और घिसंज्ञक शब्द के इकार उकार का अकारादेश हो । जैसे—अम्र-औ । वृद्धि एकादेश होके—अम्रौ, अग्न्योः, अग्निपु । संबोधन—अग्नि—सु । यहाँ सबुद्धिसंज्ञा होके—

६२—ह्रस्वस्य गुणः ॥ अ० ७ । ३ । १०८ ॥

संबुद्धि परे हो तो ह्रस्वान्त अङ्ग को गुण हो । इससे गुण हो के “एद्दह्रस्वात् सम्बुद्धेः” [ना० ३८] इस सूत्र से सकार का लोप हुआ—हे अग्ने, हे अग्नी, हे अग्नयः । यहाँ संहिता नहीं होती क्योंकि ‘हेहेप्रयोगे हेहयोः’(२) इस सूत्र से हे की प्लुतसंज्ञा हो के उसको (३) प्रकृतिभाव हो जाता है । इसी प्रकार वद्वि, रवि इत्यादि इकारान्त पुल्लिङ्गशब्दों का साधुत्व जानना चाहिये । परन्तु पति शब्द में इतना विशेष है—

६३—पतिः समास एव ॥ अ० १ । ४ । ८ ॥

पति शब्द समास ही में घिसंज्ञक हो । इससे समास से अन्यत्र पति शब्द को घिसंज्ञा के कार्य नहीं होते । पत्या, पत्ये । पति—कसि, यहाँ ‘पत्यस्’ इस अवस्था में—

६४—ख्यत्यात्परस्य ॥ अ० ६ । १ । १११ ॥

१. (जुट्) ह्रस्वन्घापो जुट् [ना० ३२], (दीर्घ) मामि [ना० ३३] ।
- २ यह सूत्र अष्टमाध्याय [पा० ३, सू० ८५] में प्लुतप्रकरण में कहा है [देखो सन्धि० ३०] ।
- ३ प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम् (सन्धि० १०१)

जो ख्य और त्य इनमें परे [हसि और] हस् सम्बन्धी अकार हो तो उसको उकार आदेश हो। पत्यु । पति—ङि। हि को (१) अकार आदेश हो गया—पत्यौ। पतिशब्द का वेद में कुछ विशेष है।

६५—पठोयुक्तरद्धन्दसि वा ॥ अ० १। ४। ६ ॥

पठोयुक्त जो पति शब्द उसकी घिसझा वद में विकल्प करके हो, जैसे—भूताना पतये नम, भूताना पत्ये नम।

सखि शब्द में यह विशेष है कि—सखि—सु।

६६—अनङ् सौ ॥ अ० ७। १। ६३ ॥

जो सवुद्धिभिन्न सु विभक्ति परे हो तो सखि शब्द को अनङ् आदेश हो। अनङ् आदेश के (अ, ङ्) इनकी इत्संज्ञा और लोप तथा (२) दीर्घ होकर—सखान्—सु। 'हल्ङ्गाभ्यो दीर्घात्' [ना० ४८] इस सूत्र से स् का लोप और—

६७—नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य ॥ अ० ८। २। ७ ॥

प्रातिपदिकान्त पद के नकार का लोप हो इस सूत्र से नकार का लोप होके—सखा। सखि—औ, इस अवस्था में—

६८—सस्युरसंबुद्धौ ॥ अ० ७। १। ६२ ॥

असवुद्धि में जो सखि शब्द, उसमें परे जो सर्वनामस्थान सो णिन् हो। इससे णिन् होकर —

६९—अबोऽङ्गिति ॥ अ० ७। २। ११५ ॥

बिन् और णिन् प्रत्यय परे हों तो अजन्त अङ्ग को वृद्धि हो। जैसे—मरै—औ। अय णकार को आय् आदेश होके—सम्यायौ,

१. (लि को भीकार) 'इदुद्ग्यामीन्' [भटा० ७। १। ११७, ११८] इममें हुआ।

२. (दीर्घ) सर्वनामस्थाने नामगुणी [ना० ४४]।

सखायः, सखायम्, सखायौ । आगे पति शब्द के समान—सखीन्, सख्या, सख्ये, सख्युः, सख्युः, सख्यौ इत्यादि † ।

ह्रस्व इकारान्त नियतनपुंसकलिङ्ग वारि शब्द ।

वारि—सु, इस अवस्था में—

७०—स्वमोर्नपुंसकात् ॥ अ० ७ । १ । २३ ॥

जो नपुंसलिङ्ग से परे सु और अम् हों तो उनका लोप हो । वारि । वारि—औ । यहां “नपुंसकाच्च” [ना० ४०] इस सूत्र से औकार के स्थान में शी आदेश और शकार की इत्संज्ञा होके—‘वारि—ई’ इस अवस्था में—

७१—इकोऽपि विभक्तौ ॥ अ० ७ । १ । ७३ ॥

जो अजादि विभक्ति परे हो तो इगन्त नपुंसक अङ्ग को नुम् का आगम हो । नुम् होके—वारिणी । वारि—जस् । यहां शि (१) आदेश और दीर्घ (२) हो के । वारीणि । फिर भी द्वितीयाविभक्ति में—वारि, वारिणी, वारीणि, वारिणा, वारिभ्याम्, वारिभिः, वारियो ऽ, वारिभ्याम्, वारिभ्यः; वारिणः, वारिभ्याम्, वारिभ्यः; वारिणः, वारिणोः । वारि—आम् । यहां नुद् और नुम् दोनों की

१. (शि आदेश) जज्ञशसोः शिः [ना० ४१] ।

२. (दीर्घ) सर्वनामस्थाने वासञ्चुदौ [ना० ४४] ।

† जब सखी शब्द स्त्रीलिङ्ग में प्रयुक्त होता है तब प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहण भवति’ (पारि० ६२) इस परिभाषा से सर्वनामस्थान को णिद्वात् प्राप्त होता है, परन्तु ‘विभक्ती लिङ्गविशिष्टग्रहणं न’ (पारि० ६३) इस परिभाषा से उसका निषेध होकर—‘सखी, सख्यी, सख्यः, इत्यादि नदी शब्द के समान रूप होते हैं ।

‡ यहां नुम् को बाधकर परावात् ‘धेत्ति’ (ना० ५६) से गुण प्राप्त था, उसे ‘गुणवृद्धपौरुषवृद्धान्वावेभ्यो नुम् पूर्वविभक्तिपेधेन’ [महा० १।१।९५] इस धार्तिक से बाधकर नुम् होता है ।

प्राप्ति में पूर्वविप्रतिषेध से नुट् (१) होता है। यदि नुम् हो तो पूर्वान्त होने से दीर्घ न हो, वारिणाम्। वारिणि, वारिणोः, वारिपु(२) इसके संबोधन में प्रयोग नहीं बनते, क्योंकि वारि शब्द से जल का ग्रहण होता है। उसके जड़ होने से संबोधन नहीं बन सकता। इसी प्रकार और भी सब नियत नपुंसकलिङ्ग इकारान्त अतिरि आदि शब्दों का साधुत्व जानना चाहिये। परन्तु अस्थि, दधि, सक्थि, अक्षि इन चार नपुंसकलिङ्ग इकारान्त शब्दों के प्रयोग कुछ विशेष होते हैं, उनको लिखते हैं—अस्थि, अस्थिनी, अस्थीनि। फिर भी अस्थि, अस्थिनी, अस्थीनि। अस्थि—टा, इस अवस्था में—

७२-अस्थिदधिसक्थ्यक्षणासनकुदात्ताः ॥

अ० ७ । १ । ७५ ॥

तृतीयादि अजादि विभक्तियों के परे अस्थि, दधि, सक्थि, अक्षि शब्दों को अनङ् आदेश हो [और वह उदात्त हो]। जैसे—अस्थनङ्—टा। इस अवस्था में अ, ङ्, ट्, इनकी इत्सङ्गा हो के

१ (नुम्) 'इकोऽधि विभक्तौ' [ना० ७१] इससे प्राप्त हुआ तथा 'ह्रस्वनघापो नुट्' [ना० ३२] इससे नुट् प्राप्त हुआ, इन दोनों की युगपत् प्राप्ति में 'विप्रतिषेधे पर कार्यम्' (सन्धि० ११४) इस परिभाषा से पर कार्यं नुम् ही पाया, उस नुम् को 'नुमचिरतृज्वद्भावेभ्यो नुट् पूर्वविप्रतिषेधेन' [महा००७१११५] इस धातुिक बल से नुम् [को] बाध के पूर्व कार्यं नुट् होता है।

२. वारि, वारिणी, वारीणि, वारि, वारिणी, वारीणि, वारिणा, वारिण्याम्, वारिभिः, वारिणे, वारिण्याम्, वारिभ्यः, वारिण, वारिण्याम्, वारिभ्यः, वारिणः वारिणी, वारीणाम्, वारिणि, वारिणोः, वारिपु।

लोप होगया । उक्त (१) अजादि विभक्तियों में "अस्थन्" इसकी भसंज्ञा होके—

७३-अल्लोपोऽनः ॥ अ० ६ । ४ । १३४ ॥

अजादि विभक्तियों के परे अन्नन्त भसंज्ञक अङ्ग क अकार का लोप हो । इस से थकारोत्तर अकार का लोप हो गया । जैसे—
अस्थन्—आ । स्थ, न्, टा के आकार में मिल के—अस्थना ।
अस्थने, अस्थनः, अस्थनः, अस्थनोः, अस्थनाम् । अस्थन्—ङि—

७४-विभाषा ङिरयोः ॥ अ० ६ । ४ । १३६ ॥

ङि और शी विभक्ति के परे भसंज्ञक अन्नन्त अङ्ग के अकार का लोप विकल्प करके हो—अस्थिन, अस्थिनि, अस्थिनोः । इत्यादि विभक्तियों के परे वारि शब्द के समान जानना चाहिये । अस्थि आदि शब्दों की व्यवस्था कुछ वेद में विशेष है—

७५-छन्दस्यपि दृश्यते ॥ अ० ७ । १ । ७६ ॥

वेद में भी अस्थि आदि शब्दों में उदात्त अनङ् आदेश देखने में आता है । यहाँ प्रयोजन यह है कि अनङ् आदेश [जिम] नियम से कहा है । उससे अन्यत्र भी देखने में आता है । जैसे—इन्द्रो दधीचो अस्थभिः, भद्र पर्येमात्तभिः, अस्थान्युत्कृत्य जुहोति इत्यादि ।

७६-ई च द्विवचने ॥ अ० ७ । १ । ७७ ॥

द्विवचन विभक्ति के परे अस्थि आदि शब्दों को उदात्त ईकार आदेश वेद में होता है । अक्षी ते इन्द्र पिङ्गले, अस्थीभ्याम्, दधीभ्याम्, सक्थीभ्याम्, अक्षीभ्याम् ते नासिकाभ्याम् (२) इत्यादि ।

१. अजादि विभक्ति टा, ङे, हासि, हस्, भोस्, भाम्, ङि, भोस् ।

२. अस्थि, अस्थिनी, अस्थिनि, अस्थि, अस्थिनी, अस्थिनि, अस्थ्या, अस्थिम्याम्, अस्थिभिः, अस्थने, अस्थिम्याम्, अस्थिम्यः, अस्थनः, अस्थि-
न्याम्, अस्थिन्यः, अस्थन्, अस्थनोः, अस्थनाम्, अस्थिन अस्थनि, अस्थनोः,
अस्थिषु । वेदे—अस्थी, अस्थानि, अस्थीभ्याम्, अस्थानिः, ईदृशान्यपि ॥

इकारान्त संख्यावाची नियत बहुवचनान्त त्रिशब्द ।

त्रि—जस् । बहुवचन मे 'जसि च' इससे गुण होके—त्रयः ।
[शस् में—त्रीन्] नपुंसकलिङ्ग में जस् और शस् विभक्ति को
शि आदेश, नुम का आगम और दीर्घ होके—त्रीणि, त्रीणि । त्रिभिः
त्रिभ्यः, त्रिभ्यः । त्रि—आम् । आम् विभक्ति के परे नुट् का आगम
होके—त्रि—नाम्, यहाँ—

७७—त्रेस्त्रयः ॥ अ० ७ । १ । ५३ ॥

नुट् सहित आम् विभक्ति परे हो तो त्रि शब्द को त्रय आदेश
हो । त्रयाणाम् । त्रिपु ।

इकारान्त नियतस्त्रीलिङ्ग वेदिशब्द ।

वेदिः, वेदी, वेदयः, वेदिम्, वेदी, वेदीः, वेद्या, वेदिभ्याम्,
वेदिभिः । 'वेदि—हे' इस अवस्था में—

७८—डिति ह्रस्वश्च ॥ अ० १ । ४ । ६ ॥

स्त्रीलिङ्ग के वाचक ह्रस्व इकारान्त उकारान्त शब्द और जिनके
स्थान में इयङ् उवङ् होते हैं ऐसे जो [स्त्री शब्द भिन्न] दीर्घ
इकारान्त उकारान्त शब्द हैं उनकी नदी संज्ञा विकल्प करके हो ।
दूसरे पक्ष में ह्रस्व इकारान्त उकारान्त शब्दों की घिसझा भी हांती
है । इस कारण वेदिशब्द की नदी और घि दोनों संज्ञाएँ होती हैं ।
प्रथम नदी संज्ञा होकर—

७९—आयनद्याः ॥ अ० ७ । ३ । ११२ ॥

नघन्त अङ्ग से परे डित् विभक्ति को आट् का आगम हो ।
वेदि—आट्—हे । यण् और वृद्धि एकादेश होके—वेद्यै । जिस
पक्ष में नदी संज्ञा न हुई वहाँ घि संज्ञा होके—वेदि—हे, यहाँ अग्नि
शब्द के समान गुण और अय् आदेश होके—वेदये, वेदिभ्याम्,
वेदिभ्यः । वेदि—आट् रुसि, 'ट्, ड्, इ' इनकी इत्संज्ञा हो के—

वेद्याः । घि संज्ञा पक्ष में—वेदेः, वेदिभ्याम्, वेदिभ्यः । वेदि—आट्-
डस्, पूर्ववत् वेद्याः, वेदे; वेद्योः । वेदि—आम्, यहां (१) जुड़ हो
के—वेदीनाम् । वेदि—ङि—नदी संज्ञा में—वेदि—आट्—आम् ।
वेद्याम् । घिसंज्ञा में, वेदौ । वेद्योः, वेदिषु (२) । इसी प्रकार श्रुति,
स्मृति, बुद्धि, धृति, कृति, वापि, हानि, रुचि, भूमि और धूलि
आदि शब्दों का साधुत्व जानना चाहिये ।

॥ इति इकारान्ताः ॥

ईकारान्त पुल्लिङ्ग सेनानी शब्द ।

सेनानी—सु । उकार का लोप, रुत्व और विसर्जनीय होके—
सेनानीः । सेनानी—औ—

८०—एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य ॥ अ० ६।४।८२॥

जिससे घालु का अवयव संयोग पूर्व न हो ऐसा जो इवर्ण है
तदन्त अनेकाच् अङ्ग को अच् परे हो तो यणादेश हो । सेनान्यौ,
सेनान्यः; सेनान्यम्, सेनान्यौ, सेनान्यः; सेनान्या, सेनानीभ्याम्,
सेनानीभिः; सेनान्ये, सेनानीभ्याम्, सेनानीभ्यः; सेनान्याः सेनानी-
भ्याम्, सेनानीभ्यः, सेनान्यः, सेनान्योः, सेनान्याम् । सेनानी—ङि,

१. नदीसंज्ञा मान के 'ह्रस्वन्वापो जुट्' [ना० ३५] इससे
जुट् हुआ ॥

२. वेदिः, वेदी, वेद्यः; वेदिम्, वेदी, वेदीः; वेद्या, वेदिभ्याम्,
वेदिभिः; वेद्यै वेद्ये, वेदिभ्याम्, वेदिभ्यः; वेद्याः वेदेः, वेदिभ्याम्,
वेदिभ्यः; वेद्याः वेदेः, वेद्योः, वेदीनाम्, वेद्याम्, वेदी, वेद्योः, वेदिषु ।

† यहाँ 'इदुद्भ्याम्' (अष्टा० ७।३।११०) से नदीसंज्ञक
इकारान्त उकारान्त शब्द में परे टि को आम् होता है, इस नियम से
आम् आदेश समझना चाहिये ।

यहाँ नी से परे ङि को आम् (१) आदेश होके—सेनान्याम् । सेनान्योः, सेनानीषु । संबोधन में यहाँ, कुछ विशेष नहीं है । हे सेनानीः, हे सेनान्यौ, हे सेनान्यः । इसी प्रकार ग्रामणी, अग्रणी यज्ञनी, सधी इत्यादि शब्दों के रूप भी जानना, परन्तु ग्रामणी शब्द में यह विशेष है कि—

८१—श्रीग्रामण्योरङ्गन्दि ॥ अ० ७। १। ५६ ॥

वेद में श्री और ग्रामणी शब्द से परे आम् हो तो उसको नुट् आगम होता है । जैसे—(२) श्रीणाम्, ग्रामणीनाम् । और सुधी शब्द में यह विशेष है कि—सुधी—सु—सुधीः । (३) सुधी—औ—

८२—न भूसुधियोः ॥ अ० ६। ४। ८५ ॥

अजादि विभक्ति के परे भू और सुधी शब्द को यणदेश न हो । यणदेश के निषेध होने से इयह् उवह् आदेश होते हैं । सुधियौ, सुधियः; सुधियम्, सुधियौ, सुधियः; सुधिया, सुधिये, सुधियः, सुधियः, सुधियाम्, सुधियि, सुधियोः, सुधीषु । संबोधन में यहाँ भी कुछ विशेष नहीं । भू शब्द का साधुत्व आगे आवेगा । सुधी और भू शब्द का वेद में यह विशेष है कि—

८३—ङ्गन्दिष्पुभपथा ॥ अ० । ६। ४। ८६ ॥

१. (आम्) हेराञ्जघाम्नीभ्यः [ना० ५२] ।

२. श्रीणामुदारो धरुणो रयीणाम् । भप्यत्र स्तुग्रामणीनाम् । ग्रामणीः, ग्रामण्यौ, ग्रामण्यः, ग्रामण्यम्, ग्रामण्यौ, ग्रामण्यः; ग्रामण्या, ग्रामणीण्याम्, ग्रामणीभिः; ग्रामण्ये, ग्रामणीण्याम्, ग्रामणीभ्यः, ग्रामण्यः, ग्रामणीण्याम्, ग्रामणीभ्यः; ग्रामण्यः, ग्रामण्योः, ग्रामण्याम्, ग्रामण्याम्, ग्रामण्योः, ग्रामणीषु, हे ग्रामणीः, हे ग्रामण्यौ, हे ग्रामण्यः ।

३. नुष्टृ प्यायतीति शुधीः पण्डितः । नुष्टृ प्यायति वा, नुष्टृ प्या-
पीपस्या वेति विप्रदे धीषम् ।

वैदिकप्रयोग विषय में अजादि विभक्तियों के परे भू और सुधी शब्द को यणादेश विकल्प करके हो। सुभ्यौ, सुधियौ; सुभ्यः, सुधिय इत्यादि। सेनानी आदि शब्द यदि स्त्रीलिङ्ग के विशेषण हो तो इनके प्रयोगों में कुछ विशेषता नहीं है, और नपुंसकलिङ्ग हों तो इनके प्रयोग वारि शब्द के समान होत हैं, क्योंकि नपुंसकलिङ्ग में उक्त ह्रस्व ईकारान्त हो जाते हैं।

अब जो शब्द नियतस्त्रीलिङ्ग ईकारान्त हैं उनके विषय में लिखते हैं—

अथ नियत ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग कुमारी शब्द।

कुमारी—सु, यदौ चकार का इत्सज्ञा और लोप तथा डीवन्त से अपृक्त हल् सु का (१) लोप होकर—कुमारी। कुमारी—औ—

८४—दीर्घाजसि च ॥ अ० ६ । १ । १०४ ॥

दीर्घ से परे जस् वा इजादि विभक्ति हों तो पूर्व पर के स्थान में पूर्वसवर्णदीर्घ एकादेश न हो। यहाँ कुमारी दीर्घ ईकारान्त शब्द है, इससे पूर्वसवर्ण दीर्घ का निषेध होकर यणादेश होता है। जैसे—कुमार्यौ, कुमार्यः। दीर्घ ईकारान्त तथा उकारान्त शब्दों का जस् विभक्ति के परे वेद में यह विशेष है—

८५—वा-छन्दसि ॥ अ० ६ । १ । १०५ ॥

जो दीर्घ से परे जस् हो तां उसको पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेश विकल्प करके हो। जैसे—कुमारी, कुमार्यः, वधूः, वध्वः इत्यादि। कुमारीम्, कुमार्यौ, कुमारी; कुमार्या, कुमारीभ्याम्, कुमारीभिः। कुमारी—हे, यहाँ—

८६—यू स्थाख्यो नदी ॥ अ० १ । ४ । ३ ॥

जो [नियत] स्त्रीलिङ्ग के वाचक इकारान्त [उकारान्त] शब्द हैं उनको नदी सज्ञा हो । (१) कुमार्ये, कुमारीभ्याम्, कुमारीभ्यः, कुमायाः, कुमारीभ्याम्, कुमारीभ्यः, कुमाया, कुमार्योः, कुमारी—आम् । (२) नुट् होके—कुमारीणाम्, कुमार्याम्, कुमार्योः, कुमारीषु । संशोधन में अपृक्त हल सु का लोप होकर—

८७—अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः ॥ अ० ७ । ३ । १०७ ॥

सम्बुद्धि परे हो तो अम्बार्थ और नदीसंज्ञकों को ह्रस्वाऽऽदेश हो । हे. (३) कुमारि, हे कुमार्यो, हे कुमार्यः । जो ईकारान्त डीप्, डीप्, डीन्, प्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द हैं उनको कुमारी शब्द के तुल्य समझना चाहिये । जैसे—नदी, सरस्वती, ग्राहणी, आसुरी, किशोरी, घघूटी, चिरण्टी, कर्त्री इत्यादि । परन्तु ईकारान्त स्त्री शब्द के प्रयोग कुछ विशेष होते हैं । जैसे—स्त्री—सु । पूर्ववत् काये होकर—स्त्री । स्त्री—ओ, इस अवस्था में—

८८—स्त्रियाः ॥ अ० ६ । ४ । ७६ ॥

—जो अजादि प्रत्यय परे हो तो स्त्री शब्द को इयङ् आदेश हो । स्त्रियौ, स्त्रियः । स्त्री—अम्, इस अवस्था में—

८९—वाऽम्शसोः ॥ अ० ६ । ४ । ८० ॥

अम् और शसु प्रत्यय परे हो तो स्त्री शब्द को इयङ् आदेश विकल्प करके हो । स्त्रियम् । जिस पद में इयङ् न हुआ वहाँ पूर्वरूप एकादेश होकर—स्त्रीम्, स्त्रियौ, स्त्रियः, स्त्रीः, स्त्रिया । स्त्री—हे—

(१) नद्यन्त मानकर 'भाण्णद्याः' [ना० ७९] इससे [आट् का] आगम हो गया ।

(२) 'ह्रस्वनद्यापो नुट्' [ना० ३५] इससे नुट् होगया ॥

(३) 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्' सन्धि ९४ । इस परिभाषा से प्रत्ययलक्षण मानकर ह्रस्व हुआ ।

६० — नैयडुवडंस्थानावेस्त्री ॥ अटो १।४।४० ॥

जिन स्त्रीलिङ्ग ईकारान्त ऊकारान्त शब्दों के स्थान में इयड्, ववड् आदेश होते हैं वे नदीसंज्ञक न हैं, परन्तु स्त्री शब्द तो नदीसंज्ञक हैं। स्त्री—आट्—डे—स्त्रियै । स्त्रियाः, स्त्रियाः, स्त्रियोः, स्त्रीणाम्, स्त्रियाम्, स्त्रियोः, स्त्रीषु । समोधन में नदीसंज्ञा के होने से ह्रस्व (१) होगया—हे स्त्रि, हे स्त्रियो, हे स्त्रियः । और जो ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग दूसरे प्रकार के हैं—“अधी, तरी, स्तरी, तन्त्री, ययी, ययी, लक्ष्मी, श्री” ये भी कुमारी शब्द के समान हैं परन्तु इनसे परे सु अपृक्त हल् लोप नहीं होता क्योंकि थे ङीप्, ङीष् वा ङीन् प्रत्ययान्त शब्द नहीं हैं । और इन दूसरे प्रकार के शब्दों में एक श्री शब्द में कुछ विशेष है । जैसे—श्री—सु—श्रीः । श्री—श्री—

६१ अचि श्नुघातुभ्रुवां र्वोरियडुवडौ ॥ अ० ६।४।७७ ॥

जो अजादि प्रत्यय परे हों तो श्नुप्रत्ययान्त घातु और भ्रू शब्द इनके इवर्ण उवर्णको इयड् और उकार को ववड् आदेश हों । जैसे—(२) श्रियौ, श्रियः, श्रियम्; श्रियौ, श्रियः, श्रिया । श्री—डे—(३) श्रियै; श्रिये; श्रियाः श्रियः; श्रिया, श्रियः; श्रियोः । श्री—आम्, इस अवस्था में—

- (१) (ह्रस्व) अन्वार्थनघोर्ह्रस्वः [ना० ८०] ।
- (२) क्तिप्-प्रत्ययान्त शब्द प्रातिपदिकसंज्ञक होके भी घातुसंज्ञा का त्याग नहीं करते हैं ।
- (३) 'दिति ह्रस्व' [ना० ७७] इस सूत्र से विकल्प करके नदीसंज्ञा होगई ।

६२ वाऽऽमि ॥ अ० १ । ४ । ५ ॥

[स्त्री शब्द को छोड़कर] इयङ् उवङ् स्थानी स्त्रीवाचक ईकारान्त ऊकारान्त शब्द आम् विभक्ति के परे विकल्प करके नदीसङ्गक हों । नदी संज्ञापक्ष में—श्रीणाम् । अन्यत्र—श्रियाम् । वेद मे (१) 'श्रीणाम्' यह एक ही प्रयोग [विशेष] होता है । श्री—ङि । नदी-संज्ञापक्ष में—श्रियाम् । अन्यत्र—श्रियि । श्रियोः, श्रीपु । हे श्रीः, हे श्रियौ, हे श्रियः ।

॥ इति ईकारान्ताः ॥

अथ उकारान्त पुल्लिङ्ग वायु शब्द ॥

वायुः । वायु—ओ, पूर्वसवर्णदीर्घ होकर—वायू । वायु—जस, घिसंज्ञा होने से गुण और "एचोऽयवायाव" † इस सूत्र से अवादेश होके—वायव । वायु—अम्, (२) पूर्वरूप एकादेश—वायुम् । वायू । वायु—शस्, पूर्वसवर्ण दीर्घ (३) और सकार कां नकार आदेश होकर—वायून् । वायुना, वायुभ्याम्, वायुभिः, वायवे, वायुभ्याम्, वायुभ्य । वायु—ङसि, गुण और पूर्व (४) रूप एकादेश हांके—वायो । वायुभ्याम्, वायुभ्यः, वायोः । वायु—ओस, यणादेश होके—वाय्वोः । वायूनाम् । वायु—ङि, ङि को (५) औकार तथा उकार को अकार होकर वृद्धि एकादेश हुआ—वायौ । वाय्वोः, वायुपु । सम्बोधन में—वायु—स्, गुण और

(१) 'श्रीप्रामण्योदछन्दसि' [ना० ८१] इससे नित्य नुट् होगया ।

(२) अमि पूर्वाः [ना० २०] ।

(३) (सकार को नकारादेश) तस्माच्छसो नःपुसि [ना० २३] ।

(४) 'टसिटसोश्' [ना० ६०] इससे पूर्वरूप हुआ ।

(५) (ङि—औ, उ—अ) अद्य ये [ना० ६१] ।

† सन्धि० १८० ।

अट्टक हल् लोप होकर (१) हे वायो, हे वायू, हे वायवः । इसी प्रकार "विभु, प्रभु, भानु, गुरु, शत्रु" इत्यादि उकारान्त, पुँलिङ्ग शब्दों का साधुत्व समझना । परन्तु उकारान्त, क्रोष्टु शब्द में कुछ विशेष है—

६३—तृज्वत्क्रोष्टुः ॥ अ० ७ । १ । ६५ ॥

जो संबुद्धिभिन्न सर्वनामस्थान परे हो तो क्रोष्टु शब्द तृच् प्रत्ययान्तवत् (२) हो । क्रोष्टु उकारान्त क्रोष्टु शब्द के समान हो जाता है । क्रोष्टा, † क्रोष्टारौ, क्रोष्टारः, क्रोष्टारम्, क्रोष्टारौ । यहां संबुद्धिभिन्न इसलिये है कि—हे क्रोष्टो । सर्वनामस्थान इसलिए है कि—क्रोष्टून्, यहां तृज्वद्भाव न हुआ ।

६४—विभाषा तृतीयादिष्वचि ॥ अ० ७ । १ । ६७ ॥

तृतीयादि अजादि विभक्तियों के परे क्रोष्टु शब्द को तृज्वद्भाव विकल्प करके हो । क्रोष्ट्रा, क्रोष्टुना । क्रोष्टु—आम् । यहाँ (३) नुट् और तृज्वद्भाव दोनों प्राप्त हुए ता नुट् हुआ ।

अथ उकारान्त नपुंसकलिङ्ग वस्तु शब्द ॥

वस्तु—सु, सु का लुक् होके—वस्तु । द्विवचन में शी आदेश, शकार की इत्सज्ञा और "नपुंसकस्य भलच." ‡ इससे तुमागम

(१) (गुण) ह्रस्वस्य गुण [ना० ६२] (सलोप) एङ् ह्रस्वात् संबुद्धे [ना० ३८] ।

(२) यह तृज्वत् अतिदेश रूपातिदेश है अर्थात् तृच् प्रत्ययान्त नुन् भानु का जो रूप है उसका अतिदेश किया है ।

(३) तृज्वद्भाव परस्व से प्राप्त था, उसको बाध के पूर्व विप्रतिषेध अर्थात् "नुमचिर०" इस चार्तिक [पृष्ठ १८, टि० ३] बल से नुट् हुआ ।

† इनकी साधनिका ऋकारान्त प्रकरण में लिखी जायगी ।

‡ ना० ४३ ।

होके—वस्तुनी । वस्तु—जस, [जस] के स्थान में शि आदेश और पूर्व का नुमागम—वस्तु—नुम—इ = वस्तुनि । ऐसे ही द्वितीया में—वस्तु—टा, घिसंज्ञा (१) और उससे परे टा के स्थान में ना आदेश होकर—वस्तुना । वस्तुभ्याम्, वस्तुभिः; वस्तुने, वस्तुभ्याम्, वस्तुभ्यः; वस्तुनः, वस्तुभ्याम्, वस्तुभ्यः; वस्तुनः, वस्तुनोः, वस्तुनाम्; वस्तुनि; वस्तुनोः, वस्तुपु । जड़भाव से संबोधन नहीं होता । इसी प्रकार 'शमथ्रु, जानु, स्वादु, अथ्रु, जतु, त्रपु, तालु' इत्यादि नियत नपुंसकलिङ्ग शब्दों के प्रयोग भी जानना ।

अथ लकारान्त नियतस्त्रीलिङ्ग धेनुशब्दः ॥

धेनुः, धेनू, धेनवः; धेनुम्, धेनू, धेनूः, धेनु—टा, टकार की इत्संज्ञा और यण् होके—धेन्वा, धेनुभ्याम्, धेनुभिः, धेनु—डे—यहाँ विकल्प करके (२) नदी संज्ञा और द्वितीया पक्ष में; घिसंज्ञा होने से दो दो प्रयोग होते हैं, अर्थात् धेन्वै (३) धेनवे, धेनुभ्याम्, धेनुभ्यः, धेन्वाः, धेनोः, धेनुभ्याम्, धेनुभ्यः, धेन्वाः । धेनोः, धेन्वाः, धेनूनाम्; धेन्वाम्, धेनौ, धेन्वोः, धेनुपु । संबोधन में गुण होके—हे धेनो, हे धेनू, हे धेनवः । इसी प्रकार—'रज्जु, सरयु, कुहु, तनु, रेणु' इत्यादि शब्दों के प्रयोग भी जानने चाहिये ।

॥ इत्युकारान्ताः ॥

दीर्घ उकारान्त शब्द तीन प्रकार के होते हैं—धात्वन्त, उणादि-प्रत्ययान्त और नियत स्त्रीवाचक [ऊङ्] प्रत्ययान्त । जैसे—धात्वन्त परिभूः, उणादि प्रत्ययान्त—कर्पूः, नियत स्त्रीवाचक [ऊङ्]

(१) घिसंज्ञा, टा—ना—शेषोप्यसरिन् [ना० ५७], आहोना-स्त्रियाम् [ना० ५८] ।

(२) (नदीसंज्ञा विकल्प) टिति इत्स्वश्च [ना० ७९]

(३) 'घेडिति' [ना० ६२] इससे गुणादेश होजाता है ।

प्रत्ययान्त—ब्रह्मवन्धुः इत्यादि । चतुर्मे से घात्वन्त 'परिभू' शब्द के प्रयोग पुँल्लिङ्ग में दिखलाते हैं । परिभू—सु—परिभूः । परिभू—औ, यहां (३) उवङ् आदेश होके—परिभुवौ । परिभुवः, परिभुवम्, परिभुवौ, परिभवः, परिभुवा, परिभूभ्याम्, परिभूभिः, परिभुवे, परिभूभ्याम्, परिभूभ्यः, परिभुवः, परिभुभ्याम्, परिभूभ्यः, परिभुवः, परिभुवोः, परिभुवाम्, परिभुवि, परिभुवोः, परिभूषु । यहाँ संबोधन में कुछ विशेष नहीं । वर्षाभू, दृन्भू, कारभू, पुनभू, इन चार शब्दों के प्रयोग कुछ विशेष होते हैं । वर्षाभूः । वर्षाभू—औ—
१६५—वर्षाभ्वश्च ॥ अ० ६ । ४ । ८४ ॥

अजादि सुप् विभक्तियों के परे वर्षाभू शब्द के उकार को यणादेश हो । वर्षाभ्वौ, वर्षाभ्व, वर्षाभवम्, वर्षाभवौ, वर्षाभव ; वर्षाभ्वा, वर्षाभूभ्याम्, वर्षाभूभिः, वर्षाभ्वे, वर्षाभूभ्याम्, वर्षाभ्यः, 'वर्षाभव, वर्षाभूभ्याम्, वर्षाभूभ्यः, वर्षाभवः, वर्षाभवो, वर्षाभवाम्, वर्षाभ्वि, वर्षाभवोः, वर्षाभुषु, हे वर्षाभू †, हे वर्षाभवौ, हे वर्षाभव । दृन्भू । दृन्भू—औ, इस अवस्था में—

६६—वा०—दृन्कारपुनःपूर्वस्य भुवो यण् वक्तव्यः ॥६।४॥

अजादि सुप् विभक्तियों के परे दृन्, कार, पुनर् ये हैं पूर्व जिसके ऐसे भूशब्द के उकार का यणादेश हो । जैसे—दृन्भवौ,

(३) (उवङ्) अचि इनधातुभ्रवा श्वोरियङ्वडौ [ना० ९२] ।

† वर्षाभू शब्द मेंदक जाति और पुनर्नधा (गदारनी, इटसिट) अर्थ में स्त्रीलिङ्ग होना है तथा मेंदक व्यक्ति अर्थ में पुँल्लिङ्ग । मेंदक जाति अर्थ में नियत स्त्रीलिङ्ग होने से सयुद्धि में 'हे वर्षाभू' प्रयोग होता है, और अन्यत्र 'हे वर्षाभू' ।

‡ कई वैयाकरण वार्तिक में 'कार' के स्थान में 'कर' पढ़ते हैं । उन के मत में 'करभू' शब्द में उक्त कार्य समझना चाहिये ।

दन्वः । कारभूः, कारभ्वौ, कारभवः । पुनर्भूः, पुनर्भ्वौ, पुनर्भवः
इत्यादि । वेद में पुनर्भू आदि शब्दों के प्रयोगों में उवङ् और यण्
(१) दोनों आदेश होते हैं, जैसे—पुनर्भुवौ, पुनर्भ्वौ; पुनर्भुव,
पुनर्भवः; पुनर्भुवम्, पुनर्भवम् इत्यादि । उक्त उकारान्त शब्द विशेष्य
लिङ्ग के आश्रय से तीनों लिङ्गों में हो सकते हैं । उकारान्त अनियत
स्त्रीवाचकों को स्त्रीलिङ्ग में कुछ विशेष कार्य नहीं होते हैं । यदि वे
नपुंसकलिङ्ग में आवें तो उनको (२) ह्रस्वादेश होकर वे प्रयोग
विषय में वस्तु शब्द के समान हो जाते हैं । और उणादिप्रत्ययान्त
कर्पू, इत्यादिकों में यदि कोई पुँल्लिङ्ग (३) समझा जावे तो उसके
प्रयोग 'परिभू' शब्द के समान समझने चाहिये ।

और नियत स्त्रीलिङ्ग ऊङ्—प्रत्ययान्त-ब्रह्मबन्धू । ब्रह्मबन्धू—
औ, यहाँ यण् होके—ब्रह्मबन्ध्वौ, ब्रह्मबन्धवः । ब्रह्मबन्धू—अम्,
यहाँ (४) पूर्वरूप एकादेश हाँके—ब्रह्मबन्धूम् । ब्रह्मबन्ध्वौ, ब्रह्म-
बन्धू; ब्रह्मबन्ध्वा, ब्रह्मबन्धूभ्याम्, ब्रह्मबन्धूमि । हित् वचनों में
नदी संज्ञादि (५) कार्य होकर—ब्रह्मबन्ध्वै, ब्रह्मबन्धूभ्याम्, ब्रह्म-
बन्धूभ्यः; ब्रह्मबन्ध्वाः, ब्रह्मबन्धूभ्याम्, ब्रह्मबन्धूभ्यः, ब्रह्मबन्ध्वाः,
ब्रह्मबन्ध्वोः, ब्रह्मबन्धूनाम्, ब्रह्मबन्ध्वाम्, ब्रह्मबन्ध्वोः, ब्रह्मबन्धूपु ।
सम्युद्धि में (६) ह्रस्व होकर—हे ब्रह्मबन्धु, हे ब्रह्मबन्ध्वौ, हे ब्रह्म-

(१) (यण्, उवङ्) छन्दस्युपपत्त्या [ना० ८३] ।

(२) (ह्रस्व) ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य [ना० ४७] ।

(३) (कर्पू) यह करीपामि में पुँल्लिङ्ग और नदी अर्थ में स्त्रीलिङ्ग है ।

(४) (पूर्वरूप) अग्नि पूर्वः [ना० २०] ।

(५) (नदीसंज्ञा) यू रुयात्क्षी नदी [ना० ८६] तथा नद्यन्त
को मान कर भाट्ट इत्यादि कार्य होते हैं ।

(६) (ह्रस्व) अग्न्यायनद्योर्ह्रस्वः [ना० ८७] ।

यन्ध्वः । इसी प्रकार—चधू, चमू, दमधू, संहितोरू, घामोरू, कमण्डलू, गुग्गुलू, दर्दू' इत्यादि ऊकारान्त खोलिङ्ग शब्दों के प्रयोग समझने चाहिये ।

॥ इत्युकारान्ताः ॥

ऋकारान्त नियतपुल्लिङ्ग पितृशब्द ॥

ऋकारान्त शब्द दो (१) प्रकार के होते हैं । अर्थात् एक वे र्जिनको सर्वनामस्थान में दीर्घ होता है, और दूसरे [वे जिन] को नहीं होता । ये दोनों प्रकार के शब्द लिङ्गभेद से तीनों लिङ्गों में आते हैं । पितृ आदि शब्दों को सर्वनामस्थान के परे दीर्घोदेश नहीं होता । जैसे—पिता = पितृ-सु—

६७—ऋदुशनस्पुरुदंशोऽनेहसां च ॥ अ० ७।१।६४॥

ऋकारान्त, ऊशनस्, पुरुदंशस् और अनेहस् शब्दों को संबुद्धि-भिन्न सु विभक्ति के परे अनङ् आदेश हो । अनङ् होके—पिता†—अनङ्—सु । [नकारस्थ] अकार तथा डकार की इत्संज्ञा और तकार अकार में मिल के—पितन्—सु । यहाँ नान्त (२) अङ्ग को दीर्घ

(१) दीर्घादेशप्रकरण के—अप्-तृन्-तृच्-स्वस्-नप्-नेष्टृ-स्वष्टृ-क्षृत्-होत्-पोत्-मशास्त्रणाम् ॥ अ० ६।४।११ ॥

इस सूत्र में नप् आदि शब्दों का ग्रहण अव्युत्पत्तिपक्ष में दीर्घादेश विधान के लिये [है] और व्युत्पत्ति पक्ष में नियम के लिये है । जो उणादि तुन्तुन्त शब्दों को दीर्घादेश हो सो नप्त्राविकों को ही हो । इससे पितृ, भ्रातृ, जामातृ इत्यादि शब्दों को सर्वनामस्थान के परे दीर्घादेश नहीं होता † और [अष्टाध्यायीस्य] कर्त्तृ, स्तोतृ आदि शब्दों को होता है । जैसे—कर्त्तारो, कर्त्तारी; स्तोता, स्तोतारी इत्यादि ।

(२) (नान्त अङ्ग को दीर्घ) सर्वनामस्थाने चरसंबुद्धौ [ना० ४४] (नलोप) नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य [ना० ६६] ।

† डित् होने से अनङ् अन्य ऋ के स्थान में होता है ।

और तकार का लोप होके—पिता । पितृ-औ—^{२११}

६८—ऋतो ङिसर्वनामस्थानयोः ॥ अ० ७।३।११०॥

ङि और सर्वनामस्थान परे हो तो ऋकारान्त अङ्ग को गुणादेश हो । ऋकार के स्थान में 'अर्' गुण होके—पितरौ, पितरः, पितरम्, पितरौ । पितृ—शस् । यहा शकार की इत्सङ्गा, पूर्व सवर्ण (१) दीर्घ एकादेश, और सकार को नकारादेश हांके—पितृन् । पितृ—टा । टकार की इत्सङ्गा ऋ के स्थान में (२) र् आदेश होके—पित्रा । पितृभ्याम्, पितृभिः, पित्रे, पितृभ्याम्, पितृभ्यः । पितृ-ङसि, यहाँ—

६९—ऋत उत् ॥ अ० ६।१।११०॥

जो ऋकारान्त से परे ङसि, ङस् सम्बन्धी अकार हो तो पूर्व पर के स्थान में उकार एकादेश हो । फिर उकार (३) रपर हुआ जैसे—पितुस्—

१००—रात्सस्य ॥ अ० ८।२।२४॥

रेफ से परे सयोगान्त सकार का ही लोप हो । सकार का लोप और रेफ को विसर्जनीय होके—पितुः । पितृभ्याम्, पितृभ्यः, पितुः, पित्रोः । पितृ—आम् । यहाँ (४) नुट् और दीर्घ होके—

(१) (पूर्वसवर्णदीर्घ) प्रथमयो पूर्वसवर्णं [ना० १९] ।

(२) (२) इको षणचि । सन्धि० १०९ ।

(३) (रपर) उरण् रपरः । सन्धि० ८५ ।

(४) (नुट्) इत्स्वन्धापो नुट् [ना० ३२] (दीर्घ) नामि [ना० ३३] ।

† इस नियम से 'उद्गातृ' नाम को भी दीर्घादेश प्राप्त नहीं होता, परन्तु 'रामयं पदविधि' (अष्टा० २।१।१) के महाभाष्य में 'उद्गातार' प्रयोग दीर्घादेश का ज्ञापक है ।

१०१—वा०—रपाभ्यां एत्वे ऋकारग्रहणम् ॥

॥ ११ । १ । १ । १ ० १ ॥ ऋकारग्रहणम् ॥ १ । ४ । १ ॥

इस रूप से परे एत्व विधान में ऋकार ग्रहण करना चाहिये, अर्थात् एकपद में ऋकार से परे भी ऋकार के स्थान में एकारादेश हो। जैसे—पितृणाम् ॥ पितृ—डि॥ गुण (१) और रपर होके—पितरि। पित्रोः, पितृषु। संबोधन में—संबुद्धि (२)। गुण होके—हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। इसी (३) प्रकार 'भ्रातृ, जामातृ' इत्यादि संज्ञा शब्दों के प्रयोग समझने चाहिये। परन्तु 'नृ' शब्द को 'आम् विभक्ति के परे जो कुछ विशेष होता है सो लिखते हैं—

१०२—नृ च ॥ अ० ६ । ४ । ६ ॥

नृसहित आम् विभक्ति के परे नृ शब्द के ऋकार को विकल्प करके दीर्घ हो। जैसे—नृणाम्, नृणाम्। संबोधन में—हे नः, हे नरौ, हे नरः। दूसरे (४) प्रकार के ऋकारान्त शब्दों में—ऋकारान्तपुंलिङ्ग 'होतृ' शब्द। होतृ—सु, पूर्ववत् प्रातिपदिकसंज्ञादि तथा अनङ्गदेशादि कार्य्य होकर—होता। होतृ—औ, यहाँ गुण होके—होतर्—औ।

(१) (गुण) क्तो ङिसर्वनामस्थानयोः [ना० ९८] ।

(२) (संबुद्धिगुण) ह्रस्वस्य गुणः [ना० ५९] ।

(३) पिता, पितरौ, पितरः, पितरम्, पितरी, पितन्; पित्रा, पितृभ्याम्, पितृभिः; पित्रे, पितृभ्याम्, पितृभ्यः; पितुः, पितृभ्याम्, पितृभ्यः; पितुः, पित्रोः, पितृणाम्; पितरि, पित्रोः, पितृषु; हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः ।

(४) दूसरे अर्थात् जिनको सर्वनामस्थान परके दीर्घादेश होता है ।

१०३—अप्तृनृच्स्वसृनप्तृनष्टृस्वष्टृत्तृहोत्-
पोत्प्रशास्तृणाम् ॥ अ० ६।४।११ ॥

जो संबुद्धिभिन्न सर्वनामस्थान परे हो तो अप् शब्द, तृन्, तृच्-
प्रत्ययान्त और स्वसृ, नप्तृ, नेष्टृ, त्वष्टृ, त्तृ, होत्, पोत् [और]
प्रशास्तृ इन शब्दों को दीर्घादेश हो। जैसे—हातारौ, होतारः,
होतारम्, होतारौ। शेष प्रयोग पितृशब्द के समान समझना। इसी
प्रकार—'कर्त्तृ, कर्त्तृ' आदि तथा 'नप्तृ, नेष्टृ, त्वष्टृ, त्तृ, पोत्,
प्रशास्तृ' शब्दों के प्रयोग भी समझने चाहिये।

ऋकारान्त नपुंसकखिङ्ग कर्त्तृशब्द।

कर्त्तृ—सु, यहाँ सु विभक्ति का (१) लुक् होके—कर्त्तृ।
वर्त्तृ—औ। औकार के स्थान में (२) शी आदेश और पूर्व को
नुम् होके—कर्त्तृणी। कर्त्तृ—जस्। यहाँ शि (३) आदेश नुम्
और दीर्घ होके—कर्त्तृणि। द्वितीया विभक्ति में भी—कर्त्तृ, कर्त्तृणी,
वर्त्तृणि। कर्त्तृ—टा, यहाँ से लेकर अजादि (४) विभक्तियों में
नुम् होवेगा। कर्त्तृणा, कर्त्तृभ्याम्, कर्त्तृभिः; कर्त्तृणे, कर्त्तृभ्याम्, कर्त्तृभ्यः;
कर्त्तृणः, कर्त्तृभ्याम्, कर्त्तृभ्यः; कर्त्तृणः, कर्त्तृणाः, कर्त्तृणाम्, । कर्त्तृ—
डि। यहाँ गुण (५) होके—कर्त्तृदि, कर्त्तृणोः, कर्त्तृषु। संबोधन

(१) (सु—लुक्) स्वमोर्नपुंसकान् [६०]।

(२) (औ—शी) नपुंसकार्ष [ना० ४०]। (पूर्व—नुम्)
नपुंसकस्य शल्लघः [ना० ४३]।

(३) (जस्—शि) जट्तासो शिः [ना० ४१]। (पूर्व—दीर्घ)
सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ [ना० ४४]।

(४) (अत्रादि विभक्ति—नुम्) इकोधि विभक्ती [ना० ७१]।

(५) (गुण) क्तो टि सर्वनामस्थानयोः [ना० ९८]।

में—हे (१) कर्तः, हे कर्तृ, हे कर्तृणी, हे कर्तृणि । इसी प्रकार और भी ऋकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्द के प्रयोग समझने चाहियें । परन्तु ऋकारान्तस्त्रीलिङ्ग में केवल 'स्वस्व, दुहितृ, ननान्द, यात्, मानृ, तिसृ, चतसृ' ये सात शब्द हैं इनके रूप कुछ भिन्न होते हैं † । नियत ऋकारान्त स्त्रीलिङ्ग दुहितृ शब्द—दुहितृ—सु—दुहिता, दुहितरौ, दुहितरः; दुहितरम्, दुहितरौ, दुहितृ । यहाँ पुल्लिङ्ग के न होने से शस् के सकार को नकार न हुआ । दुहित्रा, दुहितृभ्याम्, दुहितृभिः । आगे पितृ शब्द के समान समझना चाहिये । तिसृ, चतसृ शब्द में विरोध यह है कि—

१०४—त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसृ ॥ अ० ७।२।६६॥

जो स्त्रीलिङ्ग में वर्तमान त्रि और चतुर् शब्द हों तो इनको तिसृ और चतसृ आदेश हो ।

१०५—अचि र ऋतः ॥ अ० ७ । २ । १० ॥'

जो अजादि विभक्ति परे हों तो तिसृ और चतसृ शब्द के ऋकार को रेफ आदेश हो । तिसृ—जस्—तिस्र, [चतसृ—जस्—चतस्रः] । शस् में भी ऐसा ही होता है ।

१०६—न तिसृचतसृ ॥ अ० ६ । ४ । ४ ॥

(१) यहाँ 'नलुमताङ्गस्य' [सन्धि ९८] इस परिभाषा के अनित्य पक्ष में 'ह्रस्वस्य गुणः' [ना० ६२] इससे गुण हो जाता है । उक्त परिभाषा का अनित्य पक्ष 'इकोऽचि विभक्तौ' [ना० ७१] इसकी व्याख्या में महामध्याकार [अ० ७ । १ । ७३] ने कहा है ।

† अन्य ऋकारान्त 'कर्तृ' भादि शब्दों में स्त्रीलिङ्ग में 'ऋत्तेभ्योऽपीप्' (स्त्री० २२) से ङीप् होकर 'कर्त्री', इसप्रकार ङकारान्त बन जाते हैं । 'स्वस्व' आदि में 'न पट्स्वस्त्रादिभ्यः' [स्त्री० ३०] से ङीप् का निषेध हो जाता है ।

तिसृ और चतसृ शब्दों को नुट् सहित आम् विभक्ति परे हो तो दीर्घ न हो। तिसृणाम्, चतसृणाम्।

१०७—छन्दस्युभयथा ॥ अ० ६।४।५ ॥

वैदिक प्रयोग में नुट् सहित आम् विभक्ति के परे तिसृ, चतसृ शब्दों का विकल्प करके दीर्घ होवे। तिसृणाम्, तिसृणाम्, चतसृणाम्, चतसृणाम्। इसी प्रकार इन छ-शब्दों के अन्य प्रयोग, ऋकारान्तवत् समझने चाहिये परन्तु 'स्वसृ' शब्द का सर्वनामस्थान में होत शब्द के समान दीर्घ होता है। स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः, स्वसारम्, स्वसारौ।

॥३३००८॥ ॥ इत्युकारान्ताः ॥

ऐकारान्त पुल्लिङ्ग रैशब्द।

रै-सु-

॥१०८—रायो हेलि ॥ अ० ७।२।८५ ॥

हलादि विभक्तियों के परे रै शब्द को आकारादेश हो। जैसे—रा-सु, एकार को इत्सहा और लांप तथा सकार को रुत्व विसर्जनीय होके—रा, रै-औ, अजादि विभक्तियों के परे सवत्र और ऐकार के स्थान में (१) आय् आदेश हो जाता है। रायौ, राय; रायम्, रायौ, राय, राया। रै-भ्याम्, इत्यादि में भी हलादि विभक्तियों के होने से आकारादेश हो जाता है। राभ्याम्, राभिः, राये, राभ्याम्, राभ्य; राय राभ्याम्, राभ्य, रायः रायोः, रायाम्; रायि, रायोः, रासु। यहाँ रै शब्द घन का वाचक है इसलिए सवोपन नहीं होता, जो अन्य कोई ऐकारान्त शब्द आवे तो उसके भी प्रयोग इसी प्रकार समझने चाहिये।

॥ इत्यैकारान्तः ॥

ओकारान्त पुल्लिङ्ग वा स्त्रीलिङ्ग गोशब्द ।

परन्तु इसके दोनों लिङ्गों में एक से ही प्रयोग होता है । गो—सु—

१०६—गोतो णित् ॥ अ० ७ । १ । ६० ॥

गो शब्द से परे जो सर्वनामस्थान विभक्ति हो वे णित् के समान हो जावे । सर्वनामस्थान को णिट्बत् होने से वृद्धि हो जाती है । यहाँ भी गो शब्द को वृद्धि (१) होके—गौः, गावोः, ग्वावः ॥

गो—अम्— ११०—ओतोऽम्शसोः ॥ अ० ६ । १ । ६३ ॥

जो अम् और शस् विभक्ति परे हों तो ओकारान्त शब्द के ओकार को आकारादेश हो । जैसे—गा—अम् । पूर्वरूप एकादेश होकर—गाम्, गावो, गा । टा विभक्ति के परे अवादेश होके—ग्वा । गोभ्याम्, गोभिः; गवे, गोभ्याम्, गोभ्यः । गो—असि, यहाँ पूर्वरूप (२) एकादेश होके—गोः । गोभ्याम्, गोभ्यः; गोः, गवोः, गवाम्, गवि, गवो, गोपु । जो किसी अर्थ में इस शब्द का संबोधन आवे तो कुछ विशेष न होगा ॥

॥ इत्योकारान्ताः ॥

ओकारान्त स्त्रीलिङ्ग नौ-शब्द ।

नौ—सु = नौः, नौ—ओ = नावो, नावः; नावम्, नावो, नावः, नावा, नौभ्याम्, नौभिः; नावे, नौभ्याम्, नौभ्यः; नावः; नौभ्याम्, नौभ्यः; नाव, नावोः, नावाम्; नावि, नावोः, नौपु । इसी प्रकार ओकारान्त पुल्लिङ्ग ग्लौः शब्द समझना । ग्लौः, ग्लावो, ग्लावः इत्यादि ।

॥ इत्योकारान्ता ॥

अब जो जो प्रसिद्ध हलन्त शब्द वेदादि ग्रंथों में आते हैं उनकी प्रयोगव्यवस्था दिखाई जाती है—

(१) संबोद्धित [ना० ९९] ।

(२) (पूर्वरूप) कसिहसोश्च [ना० ६०] ।

● ओकारान्त घो शब्द के रूप भी गो के समान होते हैं ।

चकारान्त स्त्रीलिङ्ग वाच् (१) शब्द ।

वाच्—सु । यहाँ चकार के स्थान में (२) ककार [और (३) गकार] होके—

१११—वावसाने ॥ अ० ८ । ४ । ५५ ॥

जो अवसान में वर्तमान मल्ल हों ता उनको विकल्प करके चर् हो । जैसे—वाक्, वाग्, वाचौ, वाच; वाचम्, वाचौ, वाच; वाचा, वाच्—भ्याम्—यहाँ भी चकार को ककारादेश होके—'वाक्—भ्याम्' इस अवस्था (३) में; जश् आदेश होकर—वाग्भ्याम् । वाग्भिः; वाचे, वाग्भ्याम्, वाग्भ्यः; वाचः, वाग्भ्याम्, वाग्भ्यः; वाचः, वाचोः, वाचाम्; वाचि, वाचोः । वाक्—सु, यहा ककार से परे सु के सकार को आदेश होके—वाक्—पु । संकेत † में कह चुके हैं कि 'वाच्' शब्द वाणी का वाची है इसलिए जड़भाव होने से यह संबोधन में नहीं आता । इसी प्रकार 'शुच्, त्वच्, च्युच्' इत्यादि शब्दों के रूप भी समझने चाहिये । जो चकारान्त शब्दों में निम्नलिखित चकारान्त शब्द हैं जैसे—प्राच् †, प्रत्यच्, उदच्, अर्वाच्, दध्यच्, मध्वच्, क्रुञ्च् इत्यादि किन् प्रत्ययान्त शब्दों को पदान्त में सर्वत्र कुत्र हो जाता है । प्राच्—सु, यहाँ—

(१) यह वाणी का नाम है ।

(२) (च-क्) घो. कुः [सन्धि० १८९] ।

(३) यहाँ 'शलां जशोऽन्ते' [सन्धि० १९०] इस सूत्र से जश् आदेश होता है ।

† देखो इसी पृष्ठ पर टि० न० १ । तथा पृष्ठ १८ टि० ।

‡ जब पूजा अर्थ में 'माझे पूजायाम्' [अष्टा० ६ । ४ । ३०] सूत्र से उपधा के नकार का लोप नहीं होता तब 'प्राच्' शब्द के रूप आगे निर्दिश्यमान 'क्रुञ्च्' शब्द के समान समझने चाहिये ।

११२—उगिदर्चा सवनामस्थानेऽधातोः ॥

अ० ७ । १ । ७० ॥

जो मर्दानामस्थान परे हो तो धातुरहित उगित् प्रतिपादिक और अञ्चु को तुम् का आगम हो । प्रान्च्—सु । इस अवस्था में 'हल्ङ्घा०' [ना० ४८] इससे लोप होकर—

११३—संयोगान्तस्य लोपः ॥ अ० ८।२।२३॥

संयोगान्त पद के अन्त्य वर्ण का लोप हो । इससे चकार का लोप होके—

११४—किन्प्रत्ययस्य कुः ॥ अ० ८।२।६२॥

किन् प्रत्यय जिससे कहा हो उसको पदान्त म कवर्गादेश (१) हो । इससे नकार को अनुनासिक 'ङ' आदेश हो जाता है । जैसे—प्राङ्, प्रत्यङ् इत्यादि । प्रान्च्—औ । यहा नकार (२) को अनुस्वार और अनुस्वार को परसवर्ण होके । प्राश्चौ, प्राश्च, प्राश्चम्, प्राश्चौ । प्र—अच्—शस् इत्यादि सवनामस्थान भिन्न विभक्तियों के परे मसज्ञा होकर—

११५—अचः ॥ अ० ६ । ४ । १३८ ॥

भसज्ञक अञ्चु धातु के अकार का लोप हा । जैसे—प्र—च—शस्, यहा—

(१) किन् कुरिति सिध्यत प्रत्ययग्रहण कृतम् । किन्प्रत्ययस्य सर्वत्र पदान्ते कुत्वमिष्यत । महाभाष्य ८ । २ । ६२ ॥ इसी सूत्र पर है । यहा प्रत्यय ग्रहण का यही प्रयोजन है कि जिस जिस धातु से किन् प्रत्यय का विधान किया हो उस-उस को पदान्त में कवर्गादेश हो जाय ।

(२) (न—अनुस्वार) नश्चापदान्तस्य शक्ति । सन्धि १५२ । (अनुस्वार—परसवर्ण) अनुस्वारस्य यदि परसवर्णः [सन्धि १९०] ।

११६—चौ ॥ अ० ६ । ३ । १३८ ॥

चु शब्दमात्र अञ्चु (१) धातु परे हो तो पूर्व को दीर्घ हो । इससे प्र शब्द को दीर्घ हो के—प्राचः । प्राचा, प्राच्—भ्याम्, यहाँ (२) चकार को क् और ककार को ग् होके—प्राग्भ्याम्, प्राग्भिः; प्राचे, प्राग्भ्याम्, प्राग्भ्यः; प्राचः, प्राग्भ्याम्, प्राग्भ्यः; प्राचः, प्राचोः, प्राचाम्; प्राचि, प्राचोः, प्राक्पु । इसी प्रकार—प्रत्यङ्, प्रत्यञ्चौ, प्रत्यञ्चः; प्रत्यञ्चम्, प्रत्यञ्चौ, प्रतीचः । यहाँ 'चौ' इससे दीर्घादेश होता है । इत्यादि सब चकारान्त शब्दों के प्रयोग समझने चाहिये । परन्तु उक्त शब्दों में 'उदच्' और 'कुञ्च्' (३) के रूप सर्वनामस्थान भिन्न अजादि विभक्तियों में कुछ विशेष होते हैं—

११७—उद इत् ॥ अ० ६ । ४ । १३९ ॥

उद् उपसर्ग से परे भसंज्ञक अञ्चु धातु के आकार को ईकार आदेश हो । उदीचः, उदीचा, उदीचे, उदीचः, उदीचः, उदीचोः, उदीचां, उदीचि, उदीचोः, उदक्षु ।

“ऋत्विग्दृक्” इस सूत्र में निपातन होने से कुञ्च् शब्द की उपधा के नकार का लोप नहीं होता । सर्वनामस्थान में कुञ्च् शब्द प्राच् शब्द के तुल्य है—ऋद् कुञ्चौ, कुञ्चः; कुञ्चम्, कुञ्चौ । कुञ्च्—शस्, यहाँ भी कुछ विशेष नहीं—कुञ्चः; कुञ्चा ।

(१) (चु) इससे उस अञ्चु धातु का ग्रहण है कि जिसके अकार [और] नकार का लोप हो जाता है ।

(२) (च्—क्) चोः कुः । सन्धि० १८९ । (क—ग्) क्तौ अन् सति । सन्धि० २१४ ।

(३) (कुञ्च्) यहाँ धात्वयय अपदान्त नकार के अनुस्वार को परमबल हो जाता है ।

क्रञ्च्—भ्याम्, यहाँ च् को क् और अनुस्वार को परसवर्ण हकार होके ककार का लोप (१) हो जाता है । क्रुङ्भ्याम्, क्रुङ्भिः; क्रुञ्चे क्रुङ्भ्याम्, क्रुङ्भ्यः; क्रुञ्च, क्रुङ्भ्याम्, क्रुङ्भ्यः; क्रुञ्चः, क्रुञ्चोः, क्रुञ्चाम्, क्रुञ्चि, क्रुञ्चोः, क्रुङ्त् ।

॥ इति चकारान्ताः ॥

छकारान्त स्त्रीलिङ्ग वा पुंलिङ्ग प्राङ् (२) शब्द ।

- प्राङ्—सु, यहाँ—

११८-ब्रश्च-भ्रस्ज सृज-मृज-यज-राज-भ्राजच्छशा
पः ॥ अ० ८ । २ । ३६ ॥

मल् परे वा पदान्त में ब्रश्च, भ्रस्ज, सृज, मृज, यज, राज, भ्राज इन को तथा छकारान्त और शकारान्त शब्दों को पकारादेश हो । जैसे—प्राप्—सु । यहाँ (३) प् के स्थान में ङ् होके प्राङ्—सु । सु का लोप और ङ् के स्थान में विकल्प से च् होके 'प्राङ्, प्राङ्' दो प्रयोग होते हैं । प्राङ्—श्री, यहा दीर्घ से परे (४) छकार को तुगागम होकर तकार को चकार हो जाता है—प्राञ्छौ, प्राञ्छः; प्राञ्छम्, प्राञ्छौ, प्राञ्छ; प्राञ्छा । प्राङ्—भ्याम्, यहाँ पूर्ववत् छकार को 'प्' और 'प्' के स्थान में 'ङ्' होके—प्राङ्भ्याम्, प्राङ्भि, प्राञ्छे, प्राङ्भ्याम्, प्राङ्भ्यः; प्राञ्छ, प्राङ्भ्याम्, प्राङ्भ्यः,

१ (१) (क्—लोप) संयोगान्तस्य लोप [ना० ११३] ।

(३) यह पङ्चने वाली वा वाले का नाम है ।

- (३) (प्—ङ्) श्लश जशोऽन्ते [सन्धि० १९०] (ङ् को विकल्प च्) पापसाने [ना० १११] ।

(१, ४) (तुक्) दीर्घाद् । सन्धि० ३१० । (ङ्—च्) स्तोः वचुना वचुः । सन्धि० २१३ ॥

प्राच्छः, प्राच्छोः, प्राच्छाम्; प्राच्छ, प्राच्छोः । प्राङ्—सु । डकार से परे सकार को धुट् (१) का विकल्प करके आगम और डकार को (२) टकार भी होता है । जैसे—प्राट्सु, प्राट्सु । संबोधन में कुछ विशेष नहीं है ।

॥ इति छकारान्तः ॥

जकारान्त पुंलिङ्ग ऋत्विज् (३) शब्द ।

ऋत्विज्—सु । यह शब्द किन् प्रत्ययान्त है । इस कारण इसको पदान्त में (४) कवगादेश हो जाता है । इस -कवर्ग को विकल्प करके चर् और दूमरे पक्ष में जश् होके—ऋत्विक्, ऋत्विग्, ऋत्विजौ, ऋत्विज, ऋत्विजम्, ऋत्विजौ, ऋत्विजः, ऋत्विजा, ऋत्विग्भ्याम्, ऋत्विग्भि, ऋत्विजे, ऋत्विग्भ्याम्, ऋत्विग्भ्य; ऋत्विजः, ऋत्विग्भ्याम्, ऋत्विग्भ्य, ऋत्विजः, ऋत्विजोः, ऋत्विजाम्; ऋत्विजि, ऋत्विजो, ऋत्विज्—सु, यहा कृत्व होने से जकार को 'ग' आदेश होकर 'ग' (५) को 'क्' और सु के 'स्' को 'प्' आदेश हो जाता है । जैसे—ऋत्विक्पु । संबोधन में यहाँ कुछ विशेष नहीं है । इसी प्रकार—उष्णिज्, भुरिज्, (६) उशिज्,

(१) (धुट्) ड. सि धुट् । सन्धि० २०१ ।

(२) (ट्—ट्) छरि च । सन्धि० २३५ ।

(३) (ऋत्विज्) इसको कहते हैं जो ऋत्त ऋत्त में यश् करे वा करावे ।

(४) (पदान्त—कृत्व) किन्प्रत्यय कृ [ना० ११४] ।

(५) (ग्—क्) छरि च । सन्धि० २३५ । (स्—प्) आदेश-प्रत्यययो [ना० १४] ।

(६) भुरिज् इत्यादि शब्दों को 'चो' कु' (सन्धि० १८९) [से कृत्व] ।

चणिञ् इत्यादि शब्दों के प्रयोग भी समझने चाहिये। परन्तु किन्हीं किन्हीं जकारान्त शब्दों के प्रयोगों में कुछ विशेष कार्य भी होता है। जैसे—परिव्राज्। इस शब्द के पदान्त में सवेत्र जकार को † पकारादेश होता है। पकार के स्थान में 'ट्, ड्, पूर्ववत् हो के—परिव्राट्, परिव्राड्। परिव्राड्भ्याम्, परिव्राड्भिः; परिव्राजे, परिव्राड्भ्याम्, परिव्राड्भ्यः इत्यादि पूर्ववत् जानो। परिव्राट्सु, परिव्राट्सु। यहां भी सम्बोधन में कुछ विशेष नहीं। इसी प्रकार—विश्वभ्राज्, सम्राज्, विश्वराज, विराज्, यवभ्रत् इत्यादि शब्दों के प्रयोग भी जानने चाहिये, परन्तु युज् (१) और अवयाज् इन दो शब्दों में कुछ विशेष है। युज्—सु—

११६—युजेरसमासे ॥ अ० ७ । १ । ७१ ॥

सर्वनामस्थान विभक्तियों से परे युज् शब्द को तुम् का आगम हो। जैसे—युन्—ज्—सु। यहाँ अन्य काये प्राच शब्द के तुल्य समझने चाहिये। युङ्, युञ्जौ, युञ्ज; युञ्जम्, युञ्जौ, युजः; युजा, युग्भ्याम्, युग्भिः; युजे, युग्भ्याम्, युग्भ्य, युज्., युग्भ्याम्, युग्भ्य; युजः, युजो, युजाम्, युजि, युजाः, युक्षु। इन उक्त शब्दों में जहाँ कहीं सम्बोधन की योग्यता हो वहाँ प्रथमो विभक्ति क तुल्य ही सम्बोधन में भी प्रयोग समझने चाहिये। अवयाज्—सु (२)। इसकी जहाँ पदसंज्ञा होती है वहाँ—

(१) (युज्) यह युक्त होनेवाले का नाम है।

(२) यहां अवपूर्वक यज धातु से 'अवे यज्.' [भा० ११०८] इस सूत्र से किन् प्रत्यय होता है।

† यहां जकार को पकार 'परौ व्रजे पश्च पदान्ते' इस उणादि (२ । ५९) सूत्र से होता है।

१२०-वा०-श्वेतवाहादीनाम् ङस् पदस्य ॥

अ० ३।२।७१ ॥

श्वेतवाहादि प्रातिपदिकों को पदान्त में ङस् आदेश हो ठः श्वेतवाहादिकों में अवयाज् शब्द भी है। प्रथमा विभक्ति के एक-वचन में इस के 'आज्' मात्र को 'ङस्' होकर—अवयस्, यहाँ—

१२१—अत्वसन्तस्य चाघातो ॥ अ० ६।४।१४।

जो सम्बुद्धिभिन्न सु विभक्ति परे हो तो धातुरहित अत्वन्त और असन्त शब्द की उपधा को दीर्घादेश हो। अवयाः, अवयाजौ, अवयाजः; अवयाजम्, अवयाजौ, अवयाजः; अवयाजा। अवयाज्, आदि शब्दों को हलादि विभक्तियों में ङस् हो के—अवयस्—भ्याम् यहाँ "ससजुपोरु ङ" इस सूत्र से पदान्त सकार को रु हो के—अवय—रु—भ्याम्। यहाँ रुकार के उकार की इत्सजा, लोप, रेफ को (१) उकार और पूर्व पर को गुण एकादेश ओकार होके—अवयोभ्याम्, अवयोभि; अवयाजे, अवयोभ्याम्, अवयोभ्य; अवयाजः, अवयोभ्याम्, अवयोभ्य, अवयाज, अवयाजोः, अवयाजाम्, अवयाजि, अवयाजोः, अवयस्सु अवयःसु। संबोधन में—

१२२-अवघाः (२) श्वेतवाः पुरोडाश्च ॥

अ० ८।२।६७ ॥

(१) (२-उ) इति च। सन्धि २५४।

(२) हे (अवयस्) यहाँ उफ सूत्र से दीर्घ नहीं पाता है। इस कारण दीर्घ सिद्ध करने के लिए यह सूत्र है।

† अन्य व्याख्याकार इस धार्तिक की व्याख्या इस प्रकार करते हैं— श्वेतवाहादिकों की जहाँ भावी पदसज्ञा हा वहाँ ण्विन् के स्थान में ङस् प्रत्यय होता है। परन्तु उपर्युक्त व्याख्या अधिक युक्त है।

‡ ना० १४।

अवयाः, श्वेतवा, पुरोडाः ये निपातन हैं । हे अवयाः, हे अवयाजौ, हे अवयाज ।

॥ इति तकारान्ताः ॥

अथ टकारान्त स्त्रीलिङ्ग वा पुंलिङ्ग सरट् शब्द ।

सरट्—सु, यहाँ "हल्ङ्या० †" इस सूत्र से लोप और विकल्प से चर् होके—सरट, सरड्, सरटौ, सरट ; सरटम्, सरटौ, सरटः, सरटा, सरट्—भ्याम् । यहाँ जश् (१) होके—सरड्भ्याम्, सरड्भिः; सरटे, सरड्भ्याम्, सरड्भ्य, सरट, सरड्भ्याम्, सरड्भ्य ; सरटः, सरटौ, सरटाम्, सरटि, सरटौ, सरट्सु सरट्सु । स बोधन में कुछ विशेष नहीं । इसी प्रकार अन्य भी लघद् आदि टकारान्त शब्दों के रूप समझने चाहिये ।

॥ इति टकारान्ताः ॥

तकारान्त नियतपुंलिङ्ग मरुत् शब्द ।

मरुत्—सु । पूर्ववत् । मरुत्, मरुद्, मरुतौ, मरुत, मरुतम्, मरुतौ, मरुत, मरुता, मरुद्भ्याम्, मरुद्भिः, मरुते, मरुद्भ्याम्, मरुद्भ्य ; मरुत, मरुद्भ्याम्, मरुद्भ्य, मरुत, मरुतौ, मरुताम्, मरुति, मरुतोः, मरुत्सु । स बोधन में कुछ विशेष नहीं । इसी प्रकार—हरित्, रोहित्, संश्रित्, तृपत्, वेदत् इत्यादि तकारान्त स्त्रीलिङ्ग और पुलिङ्ग शब्दों के प्रयोग के समान ही जानने चाहिये ।

अब उन तकारान्तों को दिखलाते हैं कि जिनमें कुछ विशेष कार्य होते हैं—

(१) (जश्) हर्लां जशन्ते । सन्धि० १९० ।

† ना० ४८ ।

तकारान्त पठत् शब्द पुंलिङ्ग ।

(१) पठत्—सु । यहाँ सर्वनामस्थान में (२) नुम् और सयोगान्तलाप हा के—पठन्, पठन्तौ, पठन्त, पठन्तम्, पठन्तौ, पठत । आगे मरुत् शब्द के समान प्रयाग जानन चाहिये । इसी प्रकार—पचत्, कुर्वत्, गच्छत्, पृषत्, बृहत् इत्यादि शब्दों के प्रयोग भी समझने चाहिये । महत् शब्द म कुछ विशेष है । जैसे—महत्—सु । यहाँ पूर्ववत् नुम् का आगम होकर—महन्त्—सु, इस अवस्था में—

१२३--सान्तमरुतः संयोस्य ॥ अ० ६।४।१०॥

जो सबुद्धिभिन्न सर्वनामस्थान परे हो तो सकारान्तसयागी और महत् शब्द क नकार की उपधा को दीर्घ हो । यहाँ दीर्घ और पूर्ववत् तकार का लोप होके—महान्, महान्तौ, महान्त, महान्तम्, महान्तौ । आगे के प्रयोग मरुत् शब्द के समान समझने चाहिये । [गामत्, यवमत्, धनवत्, अश्वत्, विद्यावत् इत्यादि] मतुप् प्रत्ययान्त तकारान्त शब्दों को असन्त शब्दों के समान सबुद्धिभिन्न सु विभक्ति परे (३) दीर्घ हाता है । गोमान्, यवमान्, धनवान्, अश्ववान्, विद्यावान् इत्यादि । आगे सब विभक्तियों में रूप पठत् शब्द के समान समझना चाहिये । गोमता, गामद्ग्रथाम् इत्यादि । सधोधन में—हे गामन्, हे यवमन्, हे धनवन् इत्यादि ।

॥ इति तकारान्ता ॥

(१) (पठत्) पढ़ने वाले को कहते हैं । पठत् भादि शब्द स्त्रीलिङ्ग में पठन्त [पठन्ती] होकर प्रयोगविषय में कुमारी शब्द के समान हो जाते हैं ।

(२) (नुम्) ढगिदधां सर्वनामस्थानेऽधातो [ना० ११२] ।

(३) (दीर्घ) अत्यसन्तस्य धाधातो [ना० १२१] ।

दकारान्त स्त्रीलिङ्ग सम्पद् (१) शब्द ।

सम्पद्—सु । यहाँ भी "हल्ङ्गान्" इस सूत्र से लोप और विकल्प से चर् होकर दो प्रयोग होते हैं—सम्पद्, सम्पत्, सम्पदौ, सम्पदः इत्यादि । इसी प्रकार—शरद्, भसद्, दृपद्, धिपद्, आपद्, प्रतिपद्—स्त्रीलिङ्ग और विद्विद्, काणभिद्, नगच्छिद् इत्यादि दकारान्त शब्दों के रूप तीनों लिङ्गों में समान समझने चाहिये । जैसे—शग्त्, शरद्, शरदौ, शरदः इत्यादि । और वेदवित् वेदविद्, वेदविदौ, वेदावदः इत्यादिवत् ॥ इति दकारान्ताः ॥

नकारान्त पुल्लिङ्ग राजन् शब्द ।

राजन्—सु । यहाँ (२) दीर्घ और (३) न लोप होकर—राजा, राजानौ, राजान्; राजानम्, राजानौ, राजन्—शस्, यहाँ (४) अलोप होकर—राजन्—अस् । नकार को (५) अकारादेश होकर—राज्ञः । राज्ञा, राजन्--भ्याम् । यहाँ भी नकार का लोप होकर—राज--भ्याम् । अब यहाँ नलोप के पश्चात् "सुपि चर्" इस सूत्र से दीघादेश प्राप्त है सो यह नलोप के असिद्ध (६) होने से नहीं होता । राजभिः, राज्ञः, राजभ्याम्, राजभ्यः; राज्ञः, राज्ञो, राज्ञाम् । राजन्—ङि, यहाँ "विभाषा ङिश्चो" * इससे आकार का लोप विकल्प से होकर

(१) (सम्पद्) यह धनादि पेश्य का शतक हे ।

(२) (दीर्घ) सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ [ना० ४४] ।

(३) (न—लोप) नलोप. प्रातिपदिकान्तस्य [ना० ६७] ।

(४) (अलोप) अलोपोऽन. [ना० ७३] ।

(५) (न—अ) स्तोः दत्तुना दत्तुः । सन्धि० २१३ ।

(६) (नलोप असिद्ध) नलोपः शुभ्रधरसंज्ञात्तुर्गिधिषु कृति ।

सन्धि० ११९ । [† ना० ४८ । ‡ ना० २६ । * ना० ७४ ।]

दो प्रयोग बन जाते हैं—राज्ञि, राजनि । संबोधन में—हे राजन्, हे राजानौ, हे राजानः । इसी प्रकार—वृषन्, तक्षन्, प्लिहन्, फलेदन्, स्नेहन्, मूर्धन्, मज्जन्, विश्वत्सन्, स्थामन्, सुत्रामन्, धरिमन्, शरिमन्, जानिमन्, प्रथिमन्, अदिमन्, महिमन्, सुदामन्, सुधीवन्, घृतपाषन्, भूरिदावन् इत्यादि शब्दों के रूप भी समझने चाहिये । और जिन नकारान्त शब्दों में कुछ विशेष कार्य होता है, उनको यहाँ लिखते हैं—

पुंलिङ्ग नकारान्त आत्मन् शब्द ।

आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः; आत्मानम्, आत्मानौ । इस शब्द में इतना विशेष है कि 'शस्, टा, डे, डसि, डस, ओस्, आम्, डि, ओस्' इन विभक्तियों में भसंज्ञा के होने से [अकार लोप की प्राप्ति होती है, उसका] ।

१२४—न संयोगाद्धमन्तात् ॥ अ० ६।४।१३७।

जो वकारान्त और मकारान्त संयोग से परे अन् हो तो तदन्त भसंज्ञक आकर का लोप न हों । जैसे—आत्मनः, आत्मना, आत्मने, आत्मनः, आत्मनः, आत्मनोः आत्मनाम्, आत्मनि, आत्मनोः । इसी प्रकार—सुशर्मन्, सुधर्मन्, अशमन्, शकमन्, परिजमन्, यज्वन्, सुपर्षन्, अथर्वन्, मातारिश्यन् इत्यादि शब्दों के रूप भी जानने चाहिये । परन्तु नकारान्त पुंलिङ्ग अर्थमन् और पूषन् शब्दों के रूप में इतना विशेष है कि जहाँ कहीं समास होकर ये दोनों नपुंसकलिङ्ग हो जावें, [जैसे—बहुपूषन्, बह्वर्थमन् ब्राह्मणकुलम्] वहाँ प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में—

१२५—इनहनूप्यार्यम्णां शौ ॥ अ० ६।४।१२।

इन्, हन्, पूषन्, और अर्थमन् ये जिनके अन्त में हों उन अर्णों की उपधा को 'शि' विभक्ति के परे दीर्घ हो जावे । यह सूत्र

नियमार्थ है। अर्थात् जो सर्वत्र सर्वनामस्थान में नकारान्त की उपधा को दीर्घादेश प्राप्त था सो न हो, किन्तु 'शि' के परे ही हो। जैसे—
बहुपूपाणि, बहुर्यमाणि।

१२६—सौ च ॥ अ० ६।४।१३ ॥

और पुँल्लिङ्ग में भी सु विभक्ति के परे इन्, हन्, पूपन् और अर्यमन् इनकी उपधा को दीर्घ हो। जैसे—धनी, शत्रुहा, पूपा, अर्यमा। इनको अन्य विभक्तियों में नियम के होने से दीर्घ नहीं होता। जैसे—पूपणौ, अर्यमणौ, पूपण्, अर्यमणः, पृयणम्, अर्यमणम्, पूपणौ, अर्यमणौ। आगे इनके रूप राजन् शब्द के समान समझने चाहिये। वेद में [तन्नन्, ऋभुश्चन् इत्यादि] पपूर्वे नान्त की उपधा में कुछ विशेष है। जैसे—

१२७—चा पपूर्वस्य निगमे ॥ अ० ६।४।६ ॥

जो वेद में सबुद्धिभिन्न सर्वनामस्थान परे हो तो पकार पूर्व वाले नान्त की उपधा के अच् को विकल्प करके दीर्घ हो। स तक्षणं तिष्ठन्तमब्रवीत्, स तक्षणं तिष्ठन्तमब्रवीत्, ऋभुक्षणमिन्द्रम्, ऋभुक्षणमिन्द्रम् इत्यादि। श्वन्, युवन् और मघवन् शब्दों के प्रयोग सर्वनामस्थान में राजन् शब्द के समान होते हैं, परन्तु सर्वनामस्थान भिन्न अजादि विभक्तियों में कुछ विशेष है। जैसे—श्वा, श्वानौ, श्वान् ; श्वानम्, [श्वानौ,] श्वान—शस्—

१२८—श्वयुवमघोनामतद्धिते ॥ अ० ६।४।१३३ ॥

जो भसङ्गक श्वन्, युवन् और मघवन् अङ्ग हैं उनको सप्रसारण हो। इससे वकार को उकार हुआ। जैसे—श्व अन्—शस्।

१२९—सम्प्रसारणाच्च ॥ अ० ६।१।११७ ॥

जो सम्प्रसारण सङ्गक वर्ण से परे अच् हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्वरूप एकादेश हो। इससे उकार अकार को मिल के उकार

हुआ । जैसे—शुनः, शुना, श्वभ्याम्, श्वभिः; शुने, श्वभ्याम्, श्वभ्यः; शुतः, श्वभ्याम्, श्वभ्यः; शुनः, शुना, शुनाम्; शुनि, शुनोः, श्वसु । युवा, युवानौ, युवानः; युवानम्, युवानौ, यूनः (१); यूना, युवभ्याम्, युवभिः; यूने, युवभ्याम्, युवभ्यः; यूनः, युवभ्याम्, युवभ्यः; यूनः, यूनो, यूनाम्; यूनि, यूनाः, युवसु । मघवा, मघवानौ, मघवानः; मघवानम्, मघवानौ, मघान, मघोना, मघवभ्याम्, मघवभिः; मघोने, मघवभ्याम्, मघवभ्यः, मघोन, मघवभ्याम्, मघवभ्यः; मघानः, मघानोः, मघानाम्; मघानि, मघानोः, मघवसु । सवोधन में—हे मघवन्, हे मघवानौ, मघवानः ।

१३०—मघवा बहुलम् ॥ अ० ६। ४ । १२८ ॥

मघवन् इस अङ्ग को वृ आदेश बहुल करके हो । जैसे—मघववृ—स् यहाँ ऋकार की इत्सङ्गा, लोप, जुम् (२) और वपधादीर्घ काय होकर—मघवान्, मघवन्तो, मघवन्तः, मघवन्तम्, मघवन्तौ, मघवन्तः; (३) मघवता । मघवत्—भ्याम्, यहाँ जश् होके—मघवद्भ्याम्, मघवद्भिः इत्यादि ।

(१) (यून) यहाँ संप्रसारण होकर 'यु—उ—न्' इस अवस्था में सवर्णदीर्घ एकादेश हो जाता है ।

(२) (जुम्) उगिदवा सर्वनामस्थानेऽध्यातो [भा० ११२] ।
(दीर्घ) सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ [भा० ४४] ।

(३) 'श्वयुषमघोनामत्रद्विते' इस सूत्र में मघवन् शब्द के नकारान्त निर्देश से इसके वृभाव अर्थात् मघववृ शब्द को संप्रसारण नहीं होता । अथवा 'श्वयुष०' इस सूत्र में 'अलोपोऽन' इस उत्तरसूत्र से 'अनः' इस पद का आरूपण करके, श्व, युष, मघव इत्यादि [अघन्त अर्थात्] नकारान्त शब्दों को ही संप्रसारण होता है ।

नकारान्त नपुंसकलिङ्ग सामन् शब्द ।

सामन्—सु । यहाँ सुलोप (१) और नलोप होकर—साम ।
 सामन्—औ । औकार के स्थान में शी (२) आदेश [और] विकल्प
 करके आकार का लोप होकर—साम्नी, सामनी । सामन्—जस् ।
 (३) शि आदेश औरान्त की उपधा को दीर्घ होके—सामानि ।
 फिर भी—स म, साम्नी, सामनी, सामानि । आगे राजन् शब्द के
 समान इसके प्रयोग जानने चाहिये । संवोधन में इतता विशेष है कि—

१३१—वा०—वा नपुंसकानाम् ॥ अ० ८। २। ८ ॥

संबुद्धि में नपुंसकलिङ्ग शब्दों के नकार का लोप विकल्प करके
 होवे । हे साम, हे सामन् । इसी प्रकार—सीमन्, नामन्, व्योमन्
 रोमन्, लोमन्, पामन् इत्यादि शब्दों के रूप भी जानने चाहिये ।
 और जो—कर्मन्, चर्मन्, भस्मन्, जन्मन्, शर्मन् इत्यादि
 मकारान्त सयोग वाले नकारान्त नपुंसक शब्द हैं उनके प्रयोग
 सर्वनामस्थान में सामन् शब्द के समान और अन्य विभक्तियों में
 आत्मन् शब्द के समान समझने चाहिये । जैसे—कमेणा इत्यादि ।

नकारान्त पुंलिङ्ग वृत्रहन् शब्द ।

वृत्रहन्—सु । यहाँ “सौ च” [ना० १२५] इस सूत्र से
 दीर्घ होके—वृत्रहा । वृत्रहन—औ ।

(१) (सु—लोप) स्वमोर्नपुंसकात् [ना० ७०] । (न—लोप)
 न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य [ना० ६७] ।

(२) (शी—आदेश) नपुंसकाच्च [ना० ४०] (अ—लोप विकल्प)
 विभाषा लिङ्गयोः [ना० ७४] ।

(३) (शि—आदेश) जरशसो शि [ना० ४१] (नान्तोपधा
 दीर्घ) सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ [ना० ४४] ।

१३२—एकाजुत्तरपदे णः ॥ अ० ८ । ४ । १२ ॥

जिस समास में एकाच् शब्द उत्तर पद हो, उसमें पूर्वपदस्थ रेफ प्रकार से परे प्रातिपदिकान्त, और विभक्तिस्थ नकार को एकारादेश हो। जैसे—वृत्रहणौ, वृत्रहणः; वृत्रहणम्, वृत्रहणौ। वृत्रहन्—शस्, यहाँ हन् के (१) अकार का लोप होकर—

१३३—हो हन्तेर्णित्रेषु ॥ अ० ७ । ३ । ५४ ॥

नित् णित् प्रत्यय वा नकार परे हो तो हन् धातु के हकार को घकारादेश हो। वृत्रघ्नः (२)। वृत्रघ्ना, वृत्रहभ्याम्, वृत्रहभिः; वृत्रघ्ने, वृत्रहभ्याम्, वृत्रहभ्यः; वृत्रघ्नः, वृत्रहभ्याम्, वृत्रहभ्यः; वृत्रघ्नः, वृत्रघ्नोः, वृत्रघ्नान्; वृत्रघ्नि, वृत्रहणि, वृत्रघ्नोः, वृत्रहसु। हे वृत्रहन्, हे वृत्रहणौ, हे वृत्रहणः। इसी प्रकार—ब्रह्मन्, भ्रूणहन् इत्यादि शब्दों के प्रयोग समझने चाहिये।

नकारान्त नपुंसकलिङ्ग अहन् शब्द ।

अहन्—सु ।

१३४—अहन् ॥ अ० ८ । २ । ६८ ॥

पदान्त में अहन् शब्द को ठ आदेश हो। विसर्जनीय होके—अहः। अहन्—औ, सामन् शब्द के समान—अह्नी अहनीं, अहानि फिर भी—अहः, अह्नी अहनीं, अहानि; अह्ना। अहन्—भ्याम्,

(१) (अ—लोप) अलोपोऽनः [ना० ७३] ।

(२) (वृत्रहन्) इस अवस्था में 'अघः परस्मिन् पूर्वविधौ (सन्धि० ९१) इस परिभाषा से अलोप स्यानिवृत्त हो तो नकार के परे 'ह' न मिले। [अघः] हकार के कुम्भविधानसामर्थ्य से यहाँ अलोप स्यानिवृत्त नहीं होता।

यहाँ भी नकार को ह, उसके रेफ को उकार और अकार उकार को गुण एकादेश हो के—अहोभ्याम्, अहोभिः; अहो, अहोभ्याम्, अहोभ्यः; अहः, अहोभ्याम्, अहोभ्यः; अह, अहोः, अहाम्; अह्नि अहनि, अहोः, अहसु अह सु । यद्यपि णिनि तथा इनि प्रत्ययान्त अनेक नकारान्त शब्दों में कुछ विशेष नहीं, तथापि उनमें से एक के प्रयोग लिखते हैं ।

इन्त पुंसिङ्ग दण्डिन् शब्द ।

दण्डिन्—यहाँ “सौ ख” [ना० १२५] इस सूत्र से दीर्घ होके—दण्डी, दण्डिनौ, दण्डिनः; दण्डनम्, दण्डिनौ, दण्डिनः; दण्डना, दण्डभ्याम्, दण्डभिः, दण्डिने, दण्डभ्याम्, दण्डभ्यः; दण्डन, दण्डभ्याम्, दण्डभ्यः; दण्डिनः, दण्डिनोः, दण्डिनाम्; दण्डिनि, दण्डिनोः, दण्डिणु । सबोधन में—हे दण्डिन्, हे दण्डिनौ, हे दण्डिनः । इसी प्रकार—घनिन्, कुमारघातिन्, शीर्षघातिन्, उष्णभोजिन्, साधुकारिन्, ब्रह्मघादिन्, भृगाङ्गराविन्, स्थण्डिलशाविन्, पण्डितमानिन्, सोमयाजिन् इत्यादि शब्दों के प्रयोग जानने चाहिये । दण्डिन् आदि शब्द यदि किसी प्रकार नपुंसकलिङ्ग में भी आवें तो उनके प्रयोग प्रायः वारि शब्द के समान समझने चाहिये । परन्तु पष्ठीविभक्ति के बहुवचन में दण्डिन् आदि नकारान्त शब्दों को दीर्घ नहीं होगा ।

नकारान्त पञ्चन्, सप्तन् और अष्टन् इत्यादि बहुवचनान्त संख्यावाची शब्द तीनों लिङ्गों में समान ही होते हैं । अष्टन्—जस्—

१३५—अष्टन आ विभक्तौ ॥ अ० ७।२।८४॥

विभक्तिमात्र के परे अष्टन् शब्द को आकारादेश हो । यद्यपि सूत्र में विकल्प ग्रहण नहीं है, तथापि “अष्टाभ्य औशू” इस [वक्ष्यमाण] सूत्र में आकारान्त अष्टन् शब्द के ग्रहण से सूचित

होता है कि अष्टन् शब्द को आकारादेश विकल्प करके होता है [अन्यथा लाघन के लिए 'अष्टन औश्' सूत्र बनाता युक्त था] जैसे—'अष्टा—जस्, अष्टन्—जस्' इस अवस्था में—

१३६—अष्टाभ्य औश् ॥ अ० ७ । १ । २१ ॥

जिसको आकारादेश किया हो ऐसे अष्टन् शब्द से परे जस् और शस् विभक्ति को औकारादेश हो। वृद्धि एकादेश होकर—अष्टौ, अष्टौ। द्वितीय पक्ष में—

१३७—एणान्ता षट् ॥ अ० १ । १ । २४ ॥

पकारान्त और नकारान्त संख्यावाची शब्द षट्संज्ञक हों षट्संज्ञा होकर—

१३८—षड्भ्यो लुक् ॥ अ० ७ । १ । २२ ॥

षट्संज्ञक अर्थान् पकारान्त और नकारान्त संख्यावाची शब्दों से परे जस् और शस् विभक्ति का लुक् हो। अष्ट तिष्ठन्ति, अष्ट पश्य, अष्टभि अष्टाभिः, अष्टभ्य अष्टाभ्य, अष्टभ्यः अष्टाभ्यः। अष्टन्—आम्, इस अवस्था में—

१३९—षट्चतुर्भ्यश्च ॥ अ० ७ । १ । ५५ ॥

षट्संज्ञक और चतुर् शब्द से परे आम् विभक्ति को षट् का आगम हो। षट् होकर—'अष्टन्—न्—आम्' इस अवस्था में—

१४०—नोपधायाः ॥ अ० ६ । ४ । ७ ॥

षट्सहित आम् विभक्ति परे हो तो नान्त अङ्ग की उपधा को दीर्घ हो। जैसे—अष्टन्—न्—आम्। नलोप होकर—अष्टानाम्। अष्टसु, अष्टासु। पथ्य, पथ्य, पथ्यभिः, पथ्यभ्यः, पथ्यभ्यः, पथ्यनाम्, पथ्यसु। इसी प्रकार—नयन्, नयन्, दशन् इत्यादि षट्संज्ञक शब्दों के प्रयोग समझने चाहिये। तथा नकारान्तों में प्रतिदिपन्

शब्द में कुछ विशेष है । प्रतिदिवा, प्रतिदिवानौ, प्रतिदिवान्; प्रति-
दिवानम्, प्रतिदिवानौ । प्रतिदिवन्—शस् । यहाँ “अल्लोपोऽनः”
[ना० ७३] इससे भ्रमंज्ञा में आकार का लोप होके—

१४१—हृस्ति च ॥ अ० ८ । २ । ७७ ॥

हल् परे हो तो रेफान्त वकारान्त धातु की उपधा के इक् को दीर्घ हो । इस भ्रमंज्ञा में सर्वत्र ही दीर्घ होके—प्रतिदीवन्ः, प्रति-
दीव्ना; प्रतिदीवन्ते, प्रतिदीवन्ः, प्रतिदीवन्ः, प्रतिदीवन्तोः; प्रतिदीव्नाम्,
प्रतिदीवन्ति (१) प्रतिदीवन्ति, प्रतिदीवन्ः । इन्नन्त शब्दों के प्रयोगों
में—पथिन्, मथिन् और ऋभुक्षिन् । इन तीन शब्दों के प्रयोग
कुछ विशेष होते हैं । पथिन्—सु—

१४२—पथिमर्थ्यृभुक्षामात् ॥ अ० ७ । १ । ८५ ॥

सु विभक्ति के परे—पथिन्, मथिन्, ऋभुक्षिन् इन शब्दों को
आकागदेश हो । यहाँ नकार के स्थान में आकारादेश होके—
‘पथि—आ—सु’ इस अवस्था में—

१४३—इतोऽत्सर्वनामस्थाने ॥ अ० ७ । १ । ८३ ॥

सर्वनामस्थान विभक्तियों के परे पथिन् आदि शब्दों के इकार
को आकागदेश हो । पथि—अ—आ—सु, इस अवस्था में—

१४४—थो न्यः ॥ अ० ७ । १ । ८७ ॥

पथिन् और मथिन् शब्द के थकार को सर्वनामस्थान विभक्तियों
के परे न्य आदेश हो इससे न्य आदेश होकर—पन्थि—अ—आ—
सु । यहाँ अकार और आकार को दीर्घ एकादेश होके—पन्थाः ।

(१) यहाँ ‘विभाषा द्विष्योः’ [ना० ७४] इस सूत्र से विकल्प
करके अलोप होकर ही प्रयोग हो जाते हैं ।

पथिन्—औ, यहाँ इकार को आकार होकर—पन्थानौ, पन्थान',
पन्थानम् । पथिन्—शस्—

१४५—भस्य देर्लोपः ॥ अ० ७ । १ । ८८ ॥

भसज्ञक पथिन् आदि शब्द की टि अर्थात् इन्मात्र का लोप हो । जैसे—पथ—शस् । पथ, पथा, पथिभ्याम्, पथिभि, पथे, पथिभ्याम्, पथिभ्य, पथ, पथिभ्याम्, पथिभ्य, पथ, पथो, पथाम्, पथि, पथो, पथिपु । इसी प्रकार मथिन् और ऋमुत्तिन् शब्द के रूप भी समझने चाहिये ।

॥ इति नकारान्ता ॥

अथ पकारान्त अनियतलिङ्ग सुप् शब्द ।

सुप्—सु । यहाँ “हल्ङ्याघ्” [ना० ४८] इस सूत्र से सकार का लोप हाके—सुप्, सुब् । सुप्—औ = सुपौ, सुप, सुपम्, सुपौ, सुप, सुपा । भ्याम् आदि कलादि विभक्तियों में पकार को (१) षकार हो जाता है—सुब्भ्याम्, सुब्भि, सुपे, सुवभ्याम्, सुवभ्य; सुप, सुपो, सुपाम्, सुपि, सुपा, सुप्सु । इसी प्रकार—तिप्, मिप्, कप्, शप् आदि शब्दों के प्रयोग भी समझन चाहिये । परन्तु अप् शब्द में कुछ विशेष है—

पकारान्त नियतस्त्रीलिङ्ग बहुवचनान्त अप् शब्द ।

अप् शब्द से सातों विभक्तियों के बहुवचन ही आते हैं । अप्—जस् । यहाँ (२) दीर्घ होके—आव । अप्—शस् । यहाँ कुछ विशेष नहीं—अप । अप्—भिस्, यहाँ—

(१) (प्—य्) इति मत्तोऽन्ते । सन्धि० १८९ ॥

(२) (भीष्) अपतृन्तृष्वस्वमृन्पृन्नेष्टवष्टकृ० [ना० १०१] ।

१४६—अपो भिः ॥ अ० ७ । ४ । ४८ ॥

भकारादि प्रत्यय के परे अप् शब्द के अन्त को तकारादेश हो । तकार के स्थान में दकार होकर—अद्भिः, अद्भ्यः, अदभ्यः, अपाम्, अप्सु ।

॥ इति पकारान्ताः ॥

भकारान्त नियतस्त्रीलिङ्ग ककुभ् (१) शब्द ।

ककुभ्—सु । यहाँ सु के सकार का लोप होके भकार [को अकार और वस] के स्थान में विकल्प करके मलों को चर् होते हैं । जैसे—ककुब् ककुप्, ककुभौ, ककुभः; ककुभम्, ककुभौ, ककुभः; ककुभा, ककुब्भ्याम्, ककुब्भिः; ककुभे, ककुब्भ्याम्, ककुब्भ्यः; ककुभः, ककुब्भ्याम्, ककुब्भ्यः; ककुभः, ककुभोः, ककुभाम्; ककुभि, ककुभोः, ककुप्सु । इसी प्रकार—त्रिष्टम्, अनुष्टम् आदि शब्दों के अयोग समझने चाहिये—

॥ इति भकारान्तः ॥

रेफान्त नियतस्त्रीलिङ्ग गिर् शब्द ।

गिर्—सु । यहाँ सकार का लोप होकर ।

१४७—वीरुपधाया दीर्घ इकः ॥ अ० ८ । २ । ७६ ॥

जो पदान्त में रेफवकारान्त धातु की वपधा इक वसको दीर्घ हो । गीः, गिरौ, गिरः; गिरम्, गिरौ, गिर ; गिरा, गीर्भ्याम्, गीर्भिः; गिरे, गीर्भ्याम्, गीर्भ्यः; गिरः, गीर्भ्याम्, गीर्भ्यः; गिरः, गिरौ,

(१) (ककुभ्) यह दिशा का नाम है । (स्—लोप) हल्-वाच्यो दीर्घोऽसुतिस्वपूर्कं हल् [ना० ३८] । [भ—य, सत्यं नशान्ते सन्धि० १९०] (चर्-विकल्प) वाचसाने [ना० १११] ।

गिराम्; गिरि, गिरोः । गिर्—सु । यहाँ खर् प्रत्याहार के परे र् के स्थान में (१) विसर्जनीय पाते हैं इस लिए उच्चार सूत्र नियमार्थ है—

१४८—रोः सुपि ॥ अ० ८ । ३ । १६ ॥

सुप अर्थात् सप्तमी बहुवचन के परे रेफ के स्थान में विसर्जनीय हों तो रु के रेफ ही को हों । इससे 'गिर्' इसके रेफ को विसर्जनीय न हुए । नपधा को दीर्घ और (२) सकार को मूर्द्धन्यादेश होके—गीर्षु । इसी प्रकार—धुर्, पुर, तुर्, भुर्, जूर्, तूर् इत्यादि शब्दों के प्रयोग समझने चाहिये । परन्तु रेफान्त शब्दों में चतुर् शब्द के प्रयोग विशेष होते हैं । इस शब्द से बहुवचन विभक्ति ही आती है । और तीनों लिङ्गों में इसका प्रयोग किया जाता है । चतुर्—जस्—

१४९—चतुरनडुहोरामुदात्तः ॥ अ० ७ । १ । १६ ॥

जां सर्वनामस्थान विभक्ति परे हो तां चतुर् और अनडुह शब्द को आम् का आगम [हो] और वह उदात्त भी हो । आम् आगम 'तु' से परे होकर—चतु—आ—र्—जस् । यणादेश, विसर्जनीय और इत्सङ्गादि कार्य होकर—चत्वारः । चतुर्—शस् = चतुरः । पुँलिङ्ग में ऐसे प्रयोग होते हैं । नपुंसकलिङ्ग में—जस् और शस् विभक्ति के स्थान में शि आदेश हो जाता है चत्वारि, चत्वारि । स्त्रीलिङ्ग में त्रि—चतुर् शब्द को तिसृ और चतसृ आदेश होजाते हैं । यह सब व्यवस्था ऋकारान्त विषय में कह चुके हैं । चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः । चतुर्—आम् । यहाँ आम् विभक्ति को तुट् (३) का आगम होकर—

(१) (विसर्जनीय) खरषावसानयोर्विसर्जनीयः [ना० १६] ।

(२) (स—प्) भादेशप्रत्ययो [ना० ३४] ।

(३) (आम्—तुट्) षट्चतुर्भ्यश्च [ना० १३९] ।

† देखो पूर्वं पृष्ठ ४५, ४६ ।

१५०—रषाभ्यां नो एः समानपदे ॥ अ० ८।४।१॥

एरूपद मे रेफ और पकार से परे नकार को एकारादेश हो ।
इससे एकार और उसका [विकल्प करके] द्वित्व (१) होजाता
है । [चतुर्णाम्] चतुर्णाम्, चतुर्षु । उक्त त्रि और चतुर शब्द
किसी शब्द के साथ बहुव्रीहि समास में हों तो [उनके प्रयोग] सष
वचनों में होते हैं जैसे—प्रियचत्वाः, प्रियचत्वारौ, प्रियचत्वारः,
प्रियचत्वारम्, प्रियचत्वारौ, प्रियचतुरः; प्रियचतुरा, प्रियचतुर्भ्याम्,
प्रियचतुर्भिः; प्रियचतुरे, प्रियचतुर्भ्याम्, प्रियचतुर्भ्यः; प्रियचतुरः,
प्रियचतुर्भ्याम्, प्रियचतुर्भ्यः; प्रियचतुरः, प्रियचतुरो, प्रियचतुराम्,
प्रियचतुरि, प्रियचतुरोः, प्रियचतुर्षु । संबुद्धि के परे 'अम् संबुद्धौ' ‡
[अ० ७।१।९९] इस सूत्र से अम् का आगम होकर—हे प्रिय-
चत्वः, हे, प्रियचत्वारौ हे प्रियचत्वारः ।

॥ इति रेफान्तः ॥

वकारान्त नियतस्त्रीलिङ्ग (२) दिव् शब्द ॥

दिव—सु । यद्वाँ—

१५१—दिव औत् ॥ अ० ७।१।८४ ॥

सु विभक्ति के परे दिव् शब्द को औकारादेश हो । इससे वकार
के स्थान मे औ होकर—दि—औ—सु । यणादेश होके—द्यौः
दिवौ, दिवः; दिवम, दिवौ, दिवः; दिवा । दिव्—भ्याम्—

१ (१) (द्वित्व) अचो रहाभ्यां द्वे । सन्धि० २२१ ।

(२) यह प्रकाशमान पदार्थ का नाम है ।

‡ संबुद्धि परे रहने पर चतुर और अनुदुह् शब्दको 'अम्' का
आगम होता है ।

१५२—दिव उत् ॥ अ० ६॥ १०१-१३० ॥ १

। पदान्त में दिव् शब्द के वक को उत् आदेश हो। वकार को चकार और पूर्व को यणादेश होकर—द्युभ्याम्, द्युभिः, दिवे, द्युभ्याम्, द्युभ्यः; दिवः, द्युभ्याम्, द्युभ्यः; दिव, दिवोः, दिवाम्; दिवि, दिवोः, द्युषु।

शकारान्त स्त्रीलिङ्ग (१) दिश् शब्द।

दिश्—सु। पदान्त में (२) कुत्व होकर—दिक्, दिग्, दिशौ, दिशः; दिशम्, दिशौ, दिशः; दिशा, दिग्भ्याम्, दिग्भिः; दिशे, दिग्भ्याम्, दिग्भ्यः; दिशः, दिग्भ्याम्; दिग्भ्यः; दिशे, दिशोः, दिशाम्; दिशि, दिशोः। दिक्—सु, यहाँ भी प्रत्यय सकार को मूर्धन्य पकार होकर—दिक्षु। इसी प्रकार—विश्, लिश्, घृतस्पृश् दृश्, कीदृश्, ईदृश्, सदृश्, तादृश्, यादृश्, एतादृश्, न्यादृश्, इत्यादि शब्दों के प्रयोग समझने चाहिये। वेद में विशेष यह है कि—

१५३—दृक्स्ववस्स्वतवसां छन्दसि ॥ अ० ७। १। ८३॥

वेद में दृगन्त, स्ववस् और स्वतवस् शब्दों को सु विभक्ति के परे नुम् का आगम हो। जैसे—ईदृङ्, कीदृङ्, यादृङ्, तादृङ्, सदृङ् इत्यादि। स्ववस् और स्वतवस् इन दोनों के प्रयोग संकागन्तों में देना। परन्तु इन तालव्यान्त शब्दों में यदि कोई शब्द नपुंस-लिङ्ग में भी आवे तो उसके प्रयोग इस प्रकार होंगे—

शकारान्त नपुंसकलिङ्ग सदृश् शब्द।

सदृक्, सदृग्, सदृशी, सदृशि। फिर भी—सदृक्, सदृग्, सदृशी, सदृशि; सदृशा इत्यादि, पृथक्वत्।

(१) (दिन्) यह शब्द क्तिन्प्रात्ययान्त है।

(२) (दृक्) 'क्तिन् प्रात्ययस्य कः [ना० ११७] इस सूत्र से—

पकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रावृष् शब्द ।

प्रावृष्—सु । यहाँ (१) पकार को डकार और विकल्प से चर् होकर—प्रावृट्, प्रावृड्, प्रावृषौ, प्रावृषः; प्रावृषम्, प्रावृषौ, प्रावृषः; प्रावृषा, प्रावृड्भ्याम्, प्रावृड्भिः; प्रावृषे, प्रावृड्भ्याम्, प्रावृड्भ्यः; प्रावृषः, प्रावृड्भ्याम्, प्रावृड्भ्यः, 'प्रावृषः, प्रावृषोः, प्रावृषाम् ; प्रावृषि, प्रावृषो, प्रावृदत्सु, प्रावृदत्सु । इसी प्रकार विषुष—त्विष्, रुष् इत्यादि शब्दों के प्रयोग जानने, और ब्रह्मद्विष् आदि पुंलिङ्ग शब्दों के प्रयोग भी प्रावृष् शब्द के समान समझने चाहियें । परन्तु आशिष् शब्द में कुछ विशेष है । आशिष् सु, यहाँ धातु की सपधा के इक को दीर्घ होकर—आशी. आशिषौ, आशिषः; आशिषम्, आशिषौ, आशिषि ; आशिषा (२) आशीर्भ्याम्, आशीर्भिः, आशिषे, आशीर्भ्याम्, आशीर्भ्य, आशिषः आशीर्भ्याम् [इत्यादि] ।

संख्यावाची बहुवचनान्त पष् शब्द ।

इससे बहुवचन विभक्ति ही आती है । पष्—जस्, पष्—शस् । यहाँ (३) जस् और शस् का लुक् [तथा पूर्ववत् पकार को डकार और विकल्प से चर्] होकर—पट्, [पड्], पट [पड्], पड्भिः, पड्भ्यः, पड्भ्यः, । पष्—आम्, यहाँ (४) लुट् का आगम होकर—पष्—नाम्, । पकार को ड् हो के—पड्नाम् । यहाँ (५) 'अनाम्'

(१) (प्—ड) श्लो जशोन्ते [सन्धि० १९१] (विकल्प—चर्) वावसाने [ना० १११] ।

(२) यद्वा 'हलि च' [ना० १४१] इससे दीर्घ होता है ।

(३) (जस् शस् का लुक्) पड्भ्यो लुक् [ना० १३०] ।

(४) (लुट् आगम) पट्चतुर्भ्यश्च [ना० १३९] ।

(५) (अनाम्) यद् प्रतिषेध 'न पदान्तादोरनाम्' सन्धि० २१५

इस सूत्र के विषय से ।

इस प्रतिषेध से ष्ट्वनिषेध न हुआ, किन्तु टवर्ग डकार से परे तवर्ग नकार को णकार और डकार को परसवर्ण होकर—परणाम्। पट्सु, पट्सु।

॥ इति षान्ताः ॥

सकारान्त नियतपुलिङ्ग चन्द्रमस् शब्द।

चन्द्रमस्—सु, यहाँ (१) दीर्घे होकर—चन्द्रमाः, चन्द्रमसौ, चन्द्रमस ; चन्द्रमसम्, चन्द्रमसौ, चन्द्रमस ; चन्द्रमसा । चन्द्रमस्-भ्याम्, यहाँ (२) सकार को रु और रु को उन् आदेश होकर—चन्द्रमाभ्याम्, चन्द्रमोभि ; चन्द्रमसे, चन्द्रमोभ्याम्, चन्द्रमोभ्यः; चन्द्रमस, चन्द्रमोभ्याम्, चन्द्रमोभ्यः, चन्द्रमसः, चन्द्रमसोः, चन्द्रमसाम्; चन्द्रमसि, चन्द्रमसोः, चन्द्रमस्सु, चन्द्रम.सु । इसी प्रकार—जातधेदस्, विश्वयशस्, द्रविणोदस्, विश्वभेदस्, विश्वभोजस्, अङ्गिरस्, नोधस्, पुरोधस्, वयोधस्, धेधस्, नृचक्षस् इत्यादि पुलिङ्ग शब्दों के प्रयोग समझने चाहियें। पूर्व जितने शब्द लिखे हैं वे सब अमुन् प्रत्ययान्त हैं। अमुन् प्रत्ययान्त पुलिङ्ग शब्दों में विशेष यह है कि—

सकारान्त पुलिङ्ग उशनस् शब्द।

उशनस्—सु । यहाँ अन्त्य को (३) अनह् आदेश, अह्मात्र की इत्सज्ञा और एकादेश होकर—उशनन्—सु । यहाँ (४) नान्त अङ्ग की उषधा का दीर्घ और विभक्ति का लोप होके—उशना ।

(१) (दीर्घ) अत्यसन्तस्य षाधातोः [ना० १२१] ।

(२) (स्—द) सप्ततपो द. [ना० १४] । (द—उन्)

इति च [मन्वि० २५४] ।

(३) (अनह्) ऋगुगनस्युपदेशोऽनेदसौ च [ना० १९] ।

(४) (नान्त दीर्घ) सप्तनामस्यामे षासपुत्री [ना० ४४] ।

और संबुद्धि में—हे उशनन् (१), हे उशन, हे उशनः, हे उशनसौ, हे उशनसः । अन्य सव प्रयोग चन्द्रमस् शब्द के समान जानो । इसी के समान—अनेहस्, पुरुदशस् इन दोनों के भी प्रयोग जानने चाहिये । परन्तु संबुद्धि में जो उशनस शब्द के तीन प्रयोग लिखे हैं, वैसे इन दोनों के नहीं होंगे । क्योंकि उशनस् शब्द को संबुद्धि में भी विकल्प करके अनडादेश और नलोप कहा है, इन दोनों को नहीं । सकारान्त शब्द बहुत प्रकार के होते हैं । उनमें से असुन् प्रत्ययान्त पुल्लिङ्ग शब्दों को उक्त रीति से जानना चाहिये ।

अथ सकारान्त पुल्लिङ्ग विद्वस् शब्द ।

विद्वस्—सु, यहाँ (२) नुम् का आगम होके 'विद्वन्—स्—सु' इस अवस्था में (३) दीर्घ, सुलोप और सयोगान्त लोप होकर—विद्वान्, विद्वंसौ विद्वंसः, विद्वंसम्, विद्वंसौ । विद्वस्—शस् यहाँ—

१५४—वसोः संप्रसारणम् ॥ अ० ६।४।१३१॥

भसंज्ञक वसुप्रत्ययान्त शब्दों को संप्रसारण हो । वकार को 'व' संप्रसारण और पूर्वरूप होकर—'विदुस—शस्' इस अवस्था में वसु के सकार को मूर्धन्य आदेश हो जाता है । विदुष, विदुषा । विद्वस्—भ्याम्—

(१) 'उशनसः संबुद्धावपि पक्षेऽनडिभ्यते [न लोपश्च वा]' इस वार्तिक से विकल्प होकर तीन प्रयोग बन जाते हैं ।

(२) (नुम्) उदगिघां सर्वनामस्थानेऽधातोः [ना० ११२] ।

(३) (दीर्घ) 'सान्तमहतः सयोगस्य' [ना० १२३] (स्—लोप) 'हृहयावभ्यो दीर्घात् सुति०' [ना० ४८] इस सूत्र से (सयोगान्त-लोप) सयोगान्तस्य लोपः' [ना० ११३] इससे विद्वस् शब्द के सकार का लोप होता है ।

१५५—वसुसंसुध्वंस्वनडुर्हा दः ॥ अ० ८।२।७२॥

वसुप्रत्ययान्त, ससु, ध्वंसु और अनडुह्, इन शब्दों के पदान्त सकार [तथा] हकार को दकारादेश हो । विद्वद्भ्याम्, विद्वद्भिः; विदुपे, विद्वद्भ्याम्, विद्वद्भ्यः; विदुपः, विद्वद्भ्याम्, विद्वद्भ्यः; विदुयः, विदुपोः, विदुपाम्; विदुपि, विदुपोः, विद्वत्सु । संबोधन में—हे विद्वन्, हे विद्वांसौ, हे विद्वांसः। अथ—पर्णध्वस् । यह शब्द ध्वंसु धातु से बना है इसको भी पदान्त में वक्तमूत्र से दकारादेश होजाता है । जैसे—पर्णध्वत्, पर्णध्वद्, पर्णध्वसौ, पर्णध्वसः; पर्णध्वसम्, पर्णध्वसौ, पर्णध्वसः; पर्णध्वसा, पर्णध्वद्भ्याम्, पर्णध्वद्भिः; पर्णध्वसे, पर्णध्वद्भ्याम्, पर्णध्वद्भ्यः; पर्णध्वसः, पर्णध्वद्भ्याम्, पर्णध्वद्भ्यः; पर्णध्वसः, पर्णध्वसोः, पर्णध्वसाम्; पर्णध्वसि, पर्णध्वसोः, पर्णध्वत्सु । इसी प्रकार—उखाम्स् आदि शब्दों के प्रयोग समझने चाहिये । ऊपिध्वस् यह कसु प्रत्ययान्त सकारान्त शब्द है । ऊपिवान्, ऊपिवांसौ, ऊपिवांसः; ऊपिवासम्, 'ऊपिवांसौ, ऊपुप; ऊपुपा, ऊपिवद्भ्याम्, ऊपिवद्भिः; ऊपुपे, ऊपिवद्भ्याम्, ऊपिवद्भ्यः; ऊपुपः, ऊपिवद्भ्याम्, ऊपिवद्भ्यः; ऊपुपः, ऊपुपोः, ऊपुपाम्; ऊपुपि, ऊपुपो, ऊपिवत्सु; हे ऊपिवन्, हे ऊपिवांसौ, हे ऊपिवांसः इसके प्रयोगों में सब कार्य विद्वत् शब्द के समान होते हैं । इसी प्रकार—तस्थिवस्, पपिध्वस्, सेदिध्वस्, शुश्रुध्वस्, उपयिध्वस् इत्यादि कसुप्रत्ययान्त शब्दों के प्रयोग समझने चाहिये । एक प्रकार के सकारान्त शब्द ईयसुन् प्रत्ययान्त होते हैं । जैसे—श्रेयस्, अल्पीयस्, पापीयस्, कनीयस्, यत्रीयस् इत्यादि । इन शब्दों के प्रयोग प्रथमा के एवञ्चन से लेकर पाँच वचनों में विद्वत् शब्द के समान होते हैं । यत्रीयत्—सु=यवीयान्, यत्रीयांसौ, यत्रीयांसः; यत्रीयांसम्, यत्रीयांसौ, यत्रीयसः; यत्रीयसा, यत्रीयोभ्याम्, यत्रीयोभिः; यत्रवसे, यत्रीयोभ्याम्, यत्रीयोभ्यः; यत्रीयस,

यवीयोभ्याम्, यवीयोभ्यः; यवीयसे, यवीयसोः, यवीयसाम्; यवीयसि,
यवीयसोः, यवीयस्सु, यवीयःसु; हे यवीयन्, हे यवीयसौ, हे यवीयसः ।
इसी प्रकार ईयसुन् प्रत्ययान्त सब शब्दों के प्रयोग जानने उचित हैं ।
ईयसुन् और कसुप्रत्ययान्त शब्द जब स्त्रीलिङ्ग में आते हैं तब ईका-
रान्त होजाते हैं । जैसे विदुषी इत्यादि । और असुन् प्रत्ययान्त अर्थात्-
अप्सरस्, उपस्, सुमनस् इत्यादि स्त्रीलिङ्ग शब्दों के प्रयोग चन्द्र-
मस् शब्द के तुल्य होते हैं । असुन् प्रत्ययान्त [पयस् आदि] दो
स्वर वाले शब्द प्रायः नपुसकलिङ्ग में आते हैं† । इनमें इतना भेद है
कि—पयस्—सु । सु का लोप होकर—पयः । पयस्—औ, यहाँ
औ के स्थान में (१) शी होकर—पयसी । पयस्—जस्, यहाँ भी
जस् के स्थान में (२) शि और नुम् का आगम [और दीर्घ] होकर—
पयांसि । फिर भी—पयः, पयसी पयांसि । अन्य प्रयोग चन्द्रमस् शब्द
के समान समझने चाहियें । इसी प्रकार—मनस्, भूयस्, पाथस्,
घचस्, अम्भस् एनस् इत्यादि शब्दों के प्रयोग भी समझने योग्य
हैं । स्ववस, स्वतवस् इन दा सकारान्त शब्दों को वेद विषय में
सु विभक्ति के परे नुम् (३) का आगम हो जाता है । जैसे—स्ववान् ।
स्वतवान् ।

१५६—वा—स्ववःस्वतवसोर्मास उपसरच त

इष्यते ॥ अ० ७ । ४ । ४८ ॥

(१) (औ—सी) नपुसकाच्च [ना ४०] ।

(२) (जस्—शि) जश्शसो शि [ना० ४१] (नुम्) उगिद्वा
सर्वनामस्थाने० [न० ११२] ।

(३) (नुम्) इक्स्ववस्स्वतवसा छन्दसि [ना० १५४] ।

† असन्तो इष्यन् । लिङ्गानु० १५१ ।

भकारादि प्रत्यय परे हों तो वैदिक प्रयोग विषय में स्ववस्, स्वतवस्, मास्, उपस् इन शब्दों को तकारादेश हो। जैसे—स्ववद्भि, स्वेवद्भ्य, स्वतवद्भि, स्वतवद्भ्य, माद्भि; उपद्भि इत्यादि। एक प्रकार के सकारान्त शब्द इस्, उस् प्रत्ययान्त होते हैं। जैसे—वपुस्, यजुस्, अरुस्, घनुस्, वायुस्, ज्योतिस्, अर्चिस्, शोचिस्, वह्निस्, हविस्, सर्पिस् इत्यादि सकारान्त शब्दों में कोई विशेष सूत्र नहीं घटते। और इन शब्दों के अन्त्य औपदेशिक सकार (१) को पीछे मूर्धन्यादेश हो जाता है। ये शब्द केवल नपुंसकलिङ्ग में ही आते हैं, परन्तु लिङ्गानुशासन की रीति से अर्चिस् और छदिस् इन शब्दों के प्रयोग स्त्रीलिङ्ग में भी होते हैं।

सकारान्त नपुंसकलिङ्ग यजुस् शब्द।

यजुप्—सु। यहाँ पयस् शब्द क समान सब कार्य होकर—यजु, यजुपी, यजूपि। फिर भी—यजु, यजुपी, यजूपि, यजुपा। यजुस्—भ्याम्, यहाँ (२) सकार का रु होके अन्य कार्यों की प्राप्ति न होने से रेफ ऊपर चढ़ जाता है—यजुर्भ्याम्, यजुर्भि, यजुपे, यजुर्भ्याम्, यजुर्भ्य, यजुप, यजुर्भ्याम्, यजुर्भ्य, यजुप, यजुपा, यजुपाम्; यजुपि, यजुपा, यजुप्पु, यजुपु। तथा इसन्त—ज्योति, ज्योतिपी, ज्योतीपि। फिर भी—ज्याति, ज्योतिपी, ज्योतीपि, ज्योतिपा, ज्योतिर्भ्याम्, ज्योतिर्भि; ज्योतिपे, ज्योतिर्भ्याम्,

(१) (स्—मूर्धन्य प्) भादनाप्रत्यययो. [मा० ३४]।

(२) (स्—रु) सप्तम्या ४ [मा० १४]।

‡ अर्चि छिपी च, छदि स्त्रियामप । लिङ्गानु० १३५, १३६।
लिङ्गानुशासन के नियम से 'छदिस्' स्त्रीलिङ्ग में ही प्रयुक्त होता है। परन्तु "पठस् छदि" की व्याख्या में अमरवाक्य के व्याख्याता मयुक्लिङ्ग में भी मानते हैं।

ज्योतिर्भ्यः; ज्योतिपः, ज्योतिर्भ्याम्, ज्योतिर्भ्यः; ज्योतिपः, ज्योतिपौः,
ज्योतिपाम्; ज्योतिपि, ज्योतिपौः, ज्योतिष्णु ज्योतिःपु । स्त्रीलिङ्ग में
इतना भेद है कि—छदिः, छदिपौ, छदिपः । फिर भी—छदिः,
छदिपौ, छदिपः । आगे यजुस् और ज्योतिस् के समान जानो ।

॥ इति सकारान्ताः ॥

अथ हकारान्त पुल्लिङ्ग वा स्त्रीलिङ्ग गोदुह् शब्द ।

गोदुह—सु—

१५७—दादेर्धातोर्घः ॥ अ० ८ । २ । ३२ ॥

ऋल् परे हो वा पदान्त में दकारादि धातु के हकार को घकारा-
देश हो । यहाँ पदान्त में घकार होकर—

१५८—एकाचो वशो भष् ऋषन्तस्य र्ध्वोः ॥

अ० ८ । २ । ३७ ॥

स, ध्व, परे हो वा पदान्त में एकाच् धातु का अवयव जो
ऋषन्त रस [के अवयव] वश् को भष् आदेश हो । यहाँ पदान्त
में दकार को घकार होकर—गोधुघ्—सु (२) घकार को जस 'ग्'
और उसको विकल्प चर् होकर—गोधुक्, गोधुग्, गोधुहौ, गोदुहः;
गोदुहम्, गोदुहौ, गोदुहः; गोदुहा, गोधुग्भ्याम्, गोधुग्भिः; गोदुहे,
गोधुग्भ्याम्, गोधुग्भ्यः; गोदुहः, गोधुग्भ्याम्, गोधुग्भ्यः; गोदुहः,
गोदुहोः, गोदुहाम्, गोदुहि, गोदुहोः; गोधुक्षु । सवोधन में कुछ
विशेष नहीं होता । गुडलिह । इस शब्द के प्रयोग में इतना विशेष
है कि हकार को * ढकार होता है । गुडलिद्, गुडलिड्, गुड-
लिड्भ्याम्, गुडलिट्सु, गुडलिट्सु । मित्रदुह, उन्मुह, घृतस्निह
उत्स्नुह इन चार शब्दों में विशेष है कि—

(२) (घ जश्—ग्) सली जशोऽन्ते [सन्धि० १९०] (विकल्प
चर्) वावसाने [ना० १११] । * हो ढः (अ० ८ । २ । ३१) ।

१५६-वा-द्रुहमुहणुहण्णिहाम् ॥ अ० ८।२।३३॥

जो मल्ल परे वा पदान्त में हो तो द्रुह्, मुह्, स्तुह्, स्निह्, इनके ह को विकल्प करके घकारादेश हा । जिस पक्ष में घकार होता है वहाँ गोदुह् शब्द के समान प्रयोग बनते हैं । और जहाँ पर ढकार होता है वहाँ गुडलिह् शब्द के समान प्रयोग समझने चाहिये ।

नियत स्त्रीलिङ्ग उपानह् शब्द ॥

उपानह्—सु, यहाँ—

१६०—नहो घः ॥ अ० ८ । २ । ३४ ॥

जो मल्ल परे वा पदान्त में हो तो नह धातु के हकार को घकारादेश हो । घकार को दकार और विकल्प चर् होकर—उपानत् उपानद्, उपानहौ, उपानहः; उपानहम्, उपानहौ, उपानहः; उपानहा, उपानद्भ्याम्, उपानद्भिः; उपानहे, उपानद्भ्याम्, उपानद्भ्यः; उपानहः, उपानद्भ्याम्, उपानद्भ्यः, उपानह्, उपानहोः, उपानहाम्; उपानहि, उपानहोः, उपानत्सु । इसी प्रकार—परीणह् आदि शब्दों के प्रयोग समझने चाहिये ।

हकारान्त नियतपुंलिङ्ग अनडुह् शब्द ।

अनडुह्—सु—

१६१—सावनडुहः ॥ अ० ७ । १ । ८२ ॥

जो सु विभक्ति परे हो तो अनडुह् शब्द को तुम् का आगम हो । इससे तुम् और संयोगान्त लोप होकर—अनडुन् । यहाँ (१) आम् का आगम सर्वनामस्थान विभक्तियों में अन्त्य अच् से परे होता है—अनडु—आन् । यणादेश होकर—अनड्ववान्, अनड्ववाहौ,

अनड्वाहः; अनड्वाहम्, अनड्वाही, अनडुहः; अनडुहा । अनडुह्—
भ्याम्, यहाँ हकार को (१) दकारादेश होकर—अनडुद्भ्याम्,
अनडुद्भिः; अनडुहे, अनडुद्भ्याम्, अनडुद्भ्यः; अनडुहः, अनडुद्-
भ्याम्, अनडुद्भ्यः; अनडुहः; अनडुहोः, अनडुहाम्; अनडुहि,
अनडुहोः, अनडुहसु ।

॥ इति हकारान्ताः ॥

१६२—पद्मोमासहृत्त्रिशसन्यूषन्दोषन्यकञ्छ-

कद्मुदन्नासञ्छस्प्रभृतिषु ॥ अ० ६ । १ । ६३ ॥

इस सूत्र के यहाँ लिखने का प्रयोजन यह है कि इस सूत्र में
जितने शब्द हैं वे आकारान्तादि क्रमानुसार जहाँ जहाँ लिखे जाते
हैं वहाँ वहाँ यह सूत्र कई बार जानना पड़ता, इसलिये यहाँ
लिखा । इसमें—पाद, दन्त, मास, हृदय उदक, आस्य इतने
शब्द अकारान्त, नासिका, निशा ये दो आकारान्त; असृज्, यह
जकारान्त; यूष्, दोष् ये दो पकारान्त, यकृत्, शकृत् ये दो तका-
रान्त हैं । सर्वनामस्थान को छोड़ के अन्य विभक्तियों में पाद आदि
शब्दों के स्थान में निम्नलिखित आदेश विकल्प करके जानने चाहिये ।
जैसे पाद शब्द को पद् । पद्—शस् = पदः, पदा, पद्भ्याम्, पद्भिः,
पदे, पदभ्याम्, पद्भ्य, पदः, पदभ्याम्, पद्भ्यः, पदः, पदो, पदाम्;
पदि, पदोः, पत्सु । दन्त को दत्—दत् दता, दद्भ्याम्, दद्भिः; दते
दद्भ्याम्, दद्भ्यः, दत्, दद्भ्याम्, दद्भ्य, दत्, दतो, दताम्;
दति, दतो, दत्सु । नासिका शब्द को नस—नस; नसा, नोभ्याम्,
नोभि; नसे, नोभ्याम्, नोभ्य; नसः, नोभ्याम्, नोभ्यः, नसः,
नसो, नसाम्; नसि, नसो, नत्सु, न सु । मास शब्द को मास-
हलन्त आदेश—मासः, मासा । मास्—भ्याम्, यहाँ भोमगोमघो

(१) (हकार को द्) धसुजसुभ्वस्वनडुहो दः [ना० १५५] ।

(१) अपूर्वस्य योऽशि, इस सूत्र से अवर्णपूर्व रु को यकारादेश होकर "हलि सर्वेषाम्" इस सूत्र से यकार का लोप हांगया, जैसे—माभ्याम्, माभिः; मासे, माभ्याम्, माभ्यः; मासः, माभ्याम्, माभ्यः; मासः, मासोः, मासाम्; मासि, मासोः, मास्तु माःसु । और वेद में भकारादि विभक्तियों के परे इस हलन्त मास् शब्द के सकार (२) को तकारादेश हो जाता है, जैसे—माद्भ्याम्, माद्भिः, माद्भ्याम्, माद्भ्यः इत्यादि । हृदय शब्द को हृद्—हृदः; हृदा, हृद्भ्याम्, हृद्भिः, हृदे, हृद्भ्याम्, हृद्भ्यः, हृदः, हृद्भ्याम्, हृद्भ्यः; हृदः, हृदोः, हृदाम्; हृदि, हृदोः, हृत्सु । निशा शब्द को निश्—निशः; निशा । निश्—भ्याम्, यहाँ (३) शकार को प् और उसको डकारादेश होकर—निड्भ्याम्, निड्भिः; निशे, निड्भ्याम्, निड्भ्यः, निशः, निड्भ्याम्, निड्भ्यः, निशः, निशोः, निशाम्, निशि, निशोः, निट्सु निट्सु । असृज् शब्द को असन् आदेश—असन्, अस्ना, असभ्याम्, असभिः; अस्ने, असभ्याम्, असभ्यः; अस्नः, असभ्याम्, असभ्यः; अस्न, अस्नोः, अस्नाम्; अस्नि, असनि, (४) अस्नोः अससु । यूप् शब्द को यूपन्, दोप् शब्द को दोपन्, यकृत् शब्द को यकन्, शकृत्, शब्द को शकत्, उदक् शब्द का उदन्, आस्य शब्द

(१) भोमग० (सन्धि० २४९) हलि० (सन्धि० २५५) ।

(२) (सू—त्) 'स्ववःस्वतवसोर्मास उपसश्च छन्दसि त इत्यते' यह धार्तिक प्रथम स्ववस् शब्द पर लिख लुके हैं [पृष्ठ ७५] ।

(३) (श्—प्) मश—अस्—सृज—मृज—यन—राज—भ्राज—च्छ—शां प [ना० ११७] । (प—ङ्) सृषीं नशोऽन्ते [सन्धि० १९०] ।

(४) यहाँ 'यिमापा द्विदयो.' [ना० ७४] इस सूत्र से विभक्त्य करके भकार का लोप हो जाता है ।

को आसन् । यूपन् आदि सब शब्दों के प्रयोग असन् शब्द के समान जाना । पाद, दन्त, मास, इन तीन शब्दों के प्रयोग दूसरे पक्ष में अकारान्त पुल्लिङ्ग पुल्लिङ्ग शब्द के समान; हृदय, उदक, आस्य इन तीनों के अकारान्त पुल्लिङ्ग धन शब्द के समान, नासिका और निशा शब्द के प्रयोग कन्या शब्द के समान; असृज् शब्द के प्रयोग ऋत्विज् शब्द के समान; यूप् शब्द के प्रयोग प्रात्रप शब्द के समान; दोष् शब्द के प्रयोग 'आशिप् शब्द के समान और यकृत्, शकृत् शब्दों के प्रयोग 'उदशिवत्' शब्द के समान समझ लेना चाहिये ।

[सर्वनाम संज्ञक शब्द]

अब इसके आगे सर्वनामवाची शब्द लिखेंगे । सर्वोदि शब्द तीनों लिङ्गों में आत हैं, प्रथम [सर्व शब्द] पुल्लिङ्ग में—सर्व—सु=सर्व, सर्वो । सर्व—जस—

१६३—जसः शी ॥ अ० ७ । १ । १७ ॥

जो अकारान्त सर्वनाम से परे जस् होवे तो उसको शी आदेश हो जावे । शकार की इत्सज्ञा और पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश हाकर—सर्वे; सर्वम्, सर्वो, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्याम्, सर्वैः, सर्व—डे—

१६४—सर्वनाम्नः स्मै ॥ अ० ७ । १ । १४ ॥

जो अदन्त सर्वनाम से परे डे विभक्ति होवे तो उसको स्मै आदेश हो जावे, जैसे—सर्वस्मै, सर्वाभ्याम्, सर्वेभ्य । सर्व—डसि—

१६५—डसिड्योः स्मात्स्मिनौ ॥ अ० ७ । १ । १५ ॥

जो अकारान्त सर्वनाम से परे डसि और डि विभक्ति हो तो इनको क्रम से स्मात् और स्मिन् आदेश हों । सर्वस्मात्, सर्व—डस्य, यहाँ (१) स्य आदेश होकर—सर्वस्य, सर्वयोः । सर्व—आम्—

(१) (स्य) 'डसिड्योः स्मात्स्मिनात्स्या' [ना० २४] इससे यह आदेश हुआ है ।

१६६—आमि सर्वनाम्नः सुट् ॥ अ० ७।१।५२॥

जो अव्ययान्त सर्वनाम से परे आम् विभक्ति हो तो उसको सुट् आगम हो। सर्व—साम्। यहाँ अङ्ग को (१) एकारादेश और सुट् के सकार को मूर्धन्यादेश होकर—सर्वेपाम्। सर्वे—छि, उक्त सूत्र से छि को स्मिन् आदेश होकर—सर्वस्मिन्। सर्वयोः, सर्वेषु। नपुंसकलिङ्ग में—सर्वम्, सर्वे, सर्वाणि। फिर भी—सर्वम्, सर्व, सर्वाणि। आगे सब विभक्तियों में पुँलिङ्ग के समान जानना। स्त्रीलिङ्ग में टापु होकर अकारान्त सर्वादि सब शब्द आकारान्त होकर प्रयोग-विषय में कन्या शब्द के तुल्य होते हैं, जैसे—सवा, सर्वे, सवाः; सर्वाम्, सर्वे, सर्वाः; सर्वेया, सर्वाभ्याम्, सर्वोभिः; सर्वा—हे—

१६७—सर्वनाम्नः स्याद्दृस्वश्च ॥ अ० ७।३।११४॥

जो सप्तोदि आद्यन्त अङ्ग से परे हित् विभक्ति हो तो उसको स्याट् का आगम हो और सर्वनाम को ह्रस्व भी हो जावे। सर्वस्या—ए। पूर्वपर के स्थान में वृद्धि एकारादेश होकर—सर्वेस्यै, [सर्वाभ्याम्, सर्वोभ्यः]; सर्वस्याः, सर्वाभ्याम्, सर्वोभ्यः; सर्वेस्याः, सर्वयोः, सवासाम्। सर्वस्या—छि, यहाँ आद्यन्त से परे छि विभक्ति को (२) आम् आदेश होकर सवर्णदीर्घ एकारादेश हो जाता है—सर्वस्याम्, सर्वेयोः, सर्वेषु। इसी प्रकार लीनों लिङ्ग में विश्व आदि गणपठित शब्दों के भी प्रयोग समझने चाहिये। उक्त शब्द नियत द्विवचन में आता है। इसकी सर्वनामसंज्ञा का प्रयोजन अकच् प्रत्यय होना है।

(१) (भ—ए) बहुवचने कृत्येण् [भा० ३०]। (स्—प्)
आदेशमात्यययोः [भा० ३४]।

(२) (छि विभक्ति को आम्) 'देराङ्गघाङ्गिभ्या' यह सूत्र प्रथम
[भा० ५२] लिख चुके हैं।

जैसे—उभकौ। उभौ, उभौ, उभाभ्याम्, उभाभ्याम्, उभाभ्याम्, उभयोः, उभयोः। उभय शब्द सर्व शब्द के समान है। जैसे—उभयः, उभयौ, उभये इत्यादि। कतर, कतम, इतर, अन्य, अन्यतर इन पाँच शब्दों के प्रयोग नपुंसकलिङ्ग में कुछ विशेष होते हैं—

१६८—अद्दुडुडतरादिभ्यः पञ्चभ्यः ॥ अ० ७।१।२५॥

जो डतर अर्थात् कतर आदि पाँच नपुंसकलिङ्ग में वर्तमान शब्दों से परे सु और अम् विभक्ति हो तो इनके स्थान में अद्दुड् आदेश हो। जैसे—कतर—सु, कतर—अम्=कतरत्, कतरद्। इसी प्रकार—कतमत्, इतरत्, अन्यत्, अन्यतरत्। इतर शब्द का वेद में कुछ विशेष है—

१६९—नेतराच्छन्दसि ॥ अ० ७।१।२६॥

वैदिक प्रयोगों में जो नपुंसकलिङ्ग में वर्तमान इतर शब्दों से परे सु और अम् विभक्ति होवे तो उसको अद्दुड् आदेश न हों। जैसे इतरम्, इतरम्।

१७०—चा०—एकतरात् सर्वत्र ॥ १७२ ॥

सर्वत्र अर्थात् वेद और लोक में जो नपुंसकलिङ्गस्थ एकतर शब्द से परे सु और अम् विभक्ति हो तो उनको अद्दुड् न हों। जैसे—एकतरं तिष्ठति, एकतरं पश्य। त्व शब्द अन्य का पर्यायवाची है। इसमें कुछ विशेष नहीं। नेम शब्द में विशेष यह है कि—

अपूर्व विकल्प विधान है। इसलिये जिस पक्ष में सर्वनामसंज्ञा होती है, वहाँ सबे शब्द के समान जस विभक्ति के स्थान में ही आदेश हो जाता [है] और जहाँ सर्वनाम संज्ञा नहीं होती वहाँ पुरुष शब्द के तुल्य प्रयोग जस विभक्ति में होते हैं। जैसे—प्रथमे, प्रथमाः; चरमे, चरमाः; तयप् प्रत्ययान्त—द्वितये, द्वितयाः; त्रितये, त्रितया; अल्पे, अल्पा; अर्धे, अर्धाः; कतिपये, कतिपयाः; नेमे, नेमाः। आगे प्रथमादि शब्दों के प्रयोग पुरुष शब्द के समान और नेम शब्द के सबे शब्द के समान समझने चाहिये। सम और निम शब्दों के कुछ विशेष प्रयोग नहीं, किन्तु सर्व शब्द के समान ही हैं।

१७२—पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम् ॥ अ० १।१।३४॥

जस विभक्ति के परे संज्ञाभिन्न व्यवस्था में 'पूर्व, पर, अधर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर' ये शब्द हों तो इनकी सर्वनामसंज्ञा विकल्प करके हो। और अन्यत्र तो नित्य ही हो जावे। जैसे—पूर्वपाम्। प्रथमादि शब्द के समान इन के भी रूप होते हैं, जैसे—पूर्वे, पूर्वाः; परे, परा; अधरे, अधराः; दक्षिणे, दक्षिणाः; उत्तरे, उत्तराः; अपरे, अपराः; अधरे, अधराः; और जहाँ संज्ञा और व्यवस्था अर्थ होगा वहाँ तो पूर्वोदिकों की सर्वनामसंज्ञा ही न होगी और पुरुष शब्द के समान प्रयोग होंगे।

१७३—स्वमज्ञातिघनाख्यायाम् ॥ अ० १।१।३५॥

जस विभक्ति परे हो तो ज्ञाति अर्थान् पन्धु और घन के पर्यायवाची स्व शब्द को छोड़ के अन्य अर्थों में इसकी सर्वनामसंज्ञा विकल्प करके हो। स्वे पुत्राः, स्याः पुत्राः। स्वे पितरः, स्याः पितरः। इसके अन्य मप प्रयोग मपे शब्द के समान जानो। और जहाँ ज्ञाति और घन के वाची स्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती वहाँ पुरुष शब्द के समान प्रयोग हो जाते हैं।

१७४—अन्तरं, वहिर्योगोपसंव्याप्तयोः ॥ ३६ ॥

अ० १।१।३६ ॥

वहिर्योग जो कुछ अलग हो और उपसंव्यान जो मिला हो। वहिर्योग और उपसंव्यान अर्थ में जस विभक्ति परे हो ता अन्तर शब्द की सर्वनामसंज्ञा विकल्प करके हो। अन्तरे, अन्तरा वा गृहाः; अन्तरे, अन्तरा वा शाटकाः।

सर्वनामवाची पूर्वोदि नव शब्दों में जो विशेष है, सो लिखते हैं—

१७५—पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा ॥ अ० ७।१।१६ ॥

पूर्वादि नव शब्दों से परे जो डसि और डि विभक्ति हों तो उनके स्थान में स्मात् और स्मिन् आदेश विकल्प करके हो। जिस पक्ष में उक्त आदेश नहीं होते वहाँ पुरुष शब्द के समान रूप हो जाते हैं। जैसे—पूर्वस्मात्, पूर्वात्; पूर्वस्मिन्, पूर्वे; परस्मात्, परात्; परस्मिन्, परे; अवरस्मात्, अवरात्; अवरस्मिन्, अवरे; दक्षिणस्मात्, दक्षिणात्; दक्षिणस्मिन्, दक्षिणे; उत्तरस्मात्, उत्तरात्; उत्तरस्मिन्, उत्तरे; अपरस्मात्, अपरात्; अपरस्मिन्, अपरे; अधरस्मात्, अधरात्, अधरस्मिन्, अधरे; स्वस्मात्, स्वात्; स्वस्मिन्, स्वे; अन्तरस्मात्, अन्तरात्; अन्तरस्मिन्, अन्तरे।

अब इसके आगे सर्वोच्चनर्गत त्यदादि शब्दों के भी प्रयोग तीनों लिङ्गों में दिखलाते हैं। पुँलिङ्ग त्यद् शब्द। त्यद्—सु—

१७६—त्यदादीनामः ॥ अ० ७।२।१०२ ॥

जो सु आदि विभक्ति परे हों तो त्यदादि शब्दों के अन्त को अकारादेश हो। यहाँ दकार को अकार और दोनों अकारों को [पररूप] एकादेश † होकर—'त्य—सु' इस अवस्था में—

† मघो गुणे [सन्धि० १५३] एव से।

१७७—तदोः सः सावनन्त्ययोः ॥ अ० ७।२।१०२॥

सु विभक्ति परे हो तो त्यदादि शब्दों के आदि वा मध्य में जो तकार दकार हैं उनको सकारादेश हो । जैसे—स्यः, त्यौ, त्ये; त्यम्, त्यौ, त्यान्; त्येन्, त्याभ्याम्, त्यैः; त्यस्मै, त्याभ्याम्, त्येभ्यः; त्यस्मात्, त्याभ्याम्, त्येभ्यः; त्यस्य, त्ययोः, त्येषाम्; त्यस्मिन्, त्ययोः, त्येषु । नपुंसकलिङ्ग त्यद् शब्द—त्यद्—सु । यहाँ सु और अम् का लुक् (१) होने से अनन्त्य तकार को सकारादेश नहीं होता । त्यत्, त्यद्, त्ये, त्यानि । फिर भी—त्यत्, त्यद्, त्ये, त्यानि । आगे सर्व शब्द के समान जानो । स्त्रीलिङ्ग त्यद् शब्द—त्यद्—सु । यहाँ विभक्ति-विषय मानकर अकारादेश होके (२) अकारान्त से टाप् (३) हो जाता है—त्या—सु । पीछे अनन्त्य तकार को सकार होकर—स्या, त्ये, त्या ; त्याम्, त्ये, त्या; त्यया, त्याभ्याम्, त्याभिः; त्यस्यै (४), त्याभ्याम्, त्याभ्य ; त्यस्याः, त्याभ्याम्, त्याभ्यः; त्यस्याः, त्ययोः, त्यासाम्; त्यस्याम्, त्ययोः, त्यासु । पुँलिङ्ग तद् शब्द—सः, तौ, ते; तम्, तौ, तान्; तेन, ताभ्याम्, तैः; तस्मै, ताभ्याम्, तेभ्यः; तस्मात्, ताभ्याम्, तेभ्य ; तस्य, तयोः, तेषाम्; तस्मिन्, तयोः, तेषु । नपुंसकलिङ्ग तद् शब्द—तत्, तद्, ते तानि; फिर भी—तत्, तद्, ते, तानि । आगे पुलिङ्ग के समान । स्त्रीलिङ्ग तद् शब्द—सा, वे, ता; ताम्, वे, ताः; तया, ताभ्याम्, ताभिः; तस्यै, ताभ्याम्, ताभ्य ; तस्याः; ताभ्याम्, ताभ्य; तस्याः, तयोः, तासाम्; तस्याम्, तयोः, तामु । यहाँ भीनों लिङ्ग में त्यद् शब्द के समान सूत्र लागते हैं, तथा

(१) (सु—अम्—लुक्) स्वमोर्नुंसकार [भा० ७०] ।

(२) (अकारादेश) त्यदादिनामः [भा० १७६] ।

(३) (अकारान्त से टाप्) अनाद्यन्तटाप् [स्त्री० २]

(४) (ग्याट् का भागम) सर्वनाम्न स्याद्ग्याट् [भा० १६०] ।

यद् शब्द में भी कुछ विशेष नहीं। पुँलिङ्ग यद् शब्द—यः, यौ, ये; यम्, यौ, यान्; येन, याभ्याम्, यैः; यस्मै, याभ्याम्, येभ्यः; यस्मात्, याभ्याम्, येभ्यः; यस्य, ययोः, येषाम्; यस्मिन्, ययोः, येषु। नपुंसकलिङ्ग यद् शब्द—यत्, यद्, ये, यानि। फिर भी—यत्, यद्, ये, यानि। अन्य प्रयोग पुँलिङ्ग के समान जानने चाहिये। स्त्रीलिङ्ग यद् शब्द—या, ये, याः; याम्, ये, याः; यया, याभ्याम्, याभिः; यस्यै, याभ्याम्, याभ्यः; यस्या, याभ्याम्, याभ्यः; यस्याः, ययोः, यासाम्; यस्याम्, ययोः, यासु। पुँलिङ्ग एतत् शब्द—एतत्—सु। यहाँ एतत् शब्द के मध्य (१) तकार को सकारादेश होकर मूधेन्य पकारादेश होजाता है। एपः, एतौ, एते।

१७८—द्वितीया टौस्वेनः ॥ अ० २।४।४४॥

अन्वादेश विषय में द्वितीया 'टा' और ओस् विभक्ति परे 'हों' तो इदम् और एतत् शब्द का एन आदेश हो। अन्वादेश उसको कहते हैं कि जहाँ एक वाक्य में किसी शब्द को कहकर विषयान्तर प्रकाशित करने के लिए उसी शब्द को दूसरे वाक्य में कहें। जैसे—एतं बालं शिक्षामपीपठः, अथो एनं वेदमध्यापय। एतौ, एनान्। एतेन बालेन रात्रिरधीता, अथो एनेनाहरप्यधीतम्। एतयोर्बालयोः शोभनं शीलम्, अथो एनयोः कुशामा मेधा। यहाँ तीनों जगह उत्तर वाक्य में एनादेश हुआ है। परन्तु केवल एतत् शब्द के प्रयोगों में कुछ विशेष न होगा। एतम्, एतौ, एतान्; एतेन, एताभ्याम्, एतैः; एतस्मै, एताभ्याम्, एतेभ्यः; एतस्मात्, एताभ्याम्, एतेभ्यः; एतस्य, एतयोः, एतेषाम्; एतस्मिन्, एतयोः; एतेषु। नपुंसकलिङ्ग एतत् शब्द—एतत्, एतद्, एते, एतानि। फिर भी—एतम्, एतद्, एतं, एतानि। अन्य प्रयोग पूर्व के समान जानना।

खोलिङ्ग एतद् शब्द—एषा, एत, एताः; एताम्, एत, एताः; एतया,
एताभ्याम्, एताभिः; एतस्ये, एताभ्याम्, एनाभ्यः; एतस्याः, एताभ्याम्,
एताभ्यः; एतस्याः, एतयाः, एतासाम्; एतस्याम्, एतयां, एतासु ।

इदम् शब्द ।

पुँल्लिङ्ग में इदम्—सु ।

१७६—इदमां मः ॥ अ० ७ । २ । १०८ ॥

सु विभक्ति परे हो तो इदम् शब्द के मकार को मकार ही
आदेश हो अर्थात् त्यदादिकों को जां अकारादेश कहा है सो न हो ।

१८०—इदोऽय् पुंसि ॥ अ० ७ । २ । १११ ॥

पुँल्लिङ्ग विषय में इदम् शब्द के इद् भाग का अय् आदेश हो ।
अय्—अम्—स् । हलङ्ग्यात् लोप हांकर—अयम् । इदम्—औ ।
यहाँ (१) अकारादेश हांकर—इद—औ ।

१८१—दश्च ॥ अ० ७ । २ । १०६ ॥

विभाक्त के परे इदम् शब्द के दकार को मकारादेश हो । इम—
औ, यहाँ पूर्व पर के स्थान में वृद्ध एकादेश हांकर—इमौ । इम—
जस, सवे शब्द के समान—इमे । इमम्, इमौ, इमान् इदम् टा,
यहाँ भी (२) मकार को अकारादेश और एकादेश हांकर—

१८२—अनाप्यकः ॥ अ० ७ । २ । ११२ ॥

आप् † अथान् टा और आंम् विभक्ति परे हो तो ककारभिन्न

(१) (अकारादेश) त्यदादीन मः [ना० १०६] ।

(२) (मकार को अ) त्यदादानामः [ना० १०६] । (एकादेश)

अतो गुणे [सन्धि० १५३] ।

† यहाँ आप् प्रयाहार का ग्रहण है जिसमें 'टा' विभक्ति के आकार
से लेकर सुप विभक्ति के प्रकार पर्यन्त विभक्तियों का ग्रहण होता है ।
उत्तर सूत्र "हल लोपः" में हलादि विभक्तियों में विशेष विधान होने से
केवल 'टा' और 'ओस' विभक्तियों में ही इस सूत्र से अनादेश होता है ।

इदम् शब्द क इद् भाग को अन आदेश हो । टा क स्थान में अन होकर—अनेन । ककारभिन्न कहने का प्रयोजन यह है कि 'इमकेन' यहाँ अन आदेश न हो । अगले सूत्र में हल प्रहण के होने से इस सूत्र करके अन आदेश अजादि विभक्तियों में होता है, सो तृतीयादि अजादि विभक्तियों में भी टा और ओस् के परे ही जानना चाहिये अन्यत्र नहीं, [क्योंकि अन्य सब आदेश या आगम होकर हलादि हों जाती हैं] । इद—भ्याम्—

१८३—हलि लोपः ॥ अ० ७ । २ । ११३ ॥

तृतीयादि हलादि विभक्ति परे हो तो इदम् शब्द क इद् भाग का लोप हो । अ-भ्याम् । अदन्त (१) अङ्ग का दीर्घ होकर—आभ्याम् । अ—भिस, यहाँ भा अदन्त शब्दों के समान भिस् विभक्ति को ऐस् आदेश प्राप्त है इसलिए—

१८४—नेदमदसोरकोः ॥ अ० ७ । १ । ११ ॥

जो ककारभिन्न इदम् और अदस् शब्द से परे भिस् विभक्ति हो ता उसको ऐस् आदेश न हो । फिर (२) एकारानेश होकर—एभि । ककारभिन्न इसलिए कहा है कि—इमके, अमुके । अस्मै, आभ्याम्, एभ्य, अस्मान्, आभ्याम्, एभ्यः, अस्य । इदम्—ओस् । यहाँ भी पूर्वसूत्र † स अन आदेश हाकर—अनयो, एपाम्, अस्मिन्, अनयो, एपु । जय इदम् शब्द अन्वादेश में आता है तब कुछ प्रयोग विशय हात हैं—

(१) (अदन्त अङ्ग को दाघ) सुपि च [ना० २६] ।

(२) (एकारादेश) बहुवचने शक्येत् [ना० १०] ।

† भर्षात् अनाप्यकः [ना० १८५] सूत्र से ।

१८५—इदमोऽन्वादेशोऽशनुदात्तस्तृतीयादौ ॥

अ० २ । ४ । ३२ ॥

अन्वादेश विषय में तृतीयादि विभक्ति परे हों तो इदम् शब्द के स्थान में अनुदात्त अश् आदेश हो । अन्वादेश के भी रूप जैसे पूर्व लिख चुके वैसे ही होंगे, परन्तु स्वर में भेद होगा । जहाँ तृतीयादि हलादिविभक्तियों में इद्भाग का लोप होगा, वहाँ—‘आभ्याम्, अस्मै’ ऐसा स्वर होगा । और जहाँ अन्वादेश में अश् आदेश होगा वहाँ ‘आभ्याम्, अस्मै’ ऐसा होगा । द्वितीयादौस्त्वेनः [ना० १७८] इस उक्त सूत्र से द्वितीया, टा, आस् इन तीन विभक्तियों में जैसे एतत् शब्द को उत्तर वाक्य में एन आदेश और पूर्व वाक्य में एतत् शब्द का प्रयोग आता है वैसे यहाँ भी पूर्व वाक्य में इदम् शब्द का प्रयोग और उत्तर वाक्य में अश् आदेश का प्रयोग किया जाता है । नपुंसकलिङ्ग इदम् शब्द इसमें इतना विशेष है कि इदम् के मकार को अ और सु विभक्ति को अम् होके—इदम्, इमे, इमानि । फिर भी—इदम्, इमे, इमानि । आगे पुलिङ्ग के सदृश प्रयोग होंगे । क्रीलिङ्ग इदम् शब्द—इदम्—सु । यहाँ अकारादेश का निषेध होकर—

१८६—यः सौ ॥ अ० ७ । २ । ११० ॥

सु विभक्ति परे हो तो इदम् शब्द के दकार को यकारादेश हों, इयम् । आगे इसको अकारादेश के होने से टाप् होकर कन्या शब्द के समान जानो । जैसे—इमे, इमाः; इमाप्, इमे, इयाः । इद—टा, (१) अन् आदेश होके—अनया । यहाँ भी भ्याम्, आदि तृतीयादि हलादि विभक्तियों में (२) इद् भाग का लोप हो जाता है । आभ्याम्,

(१) (इद को—अन्) अनाप्यकः [मा० १८२] ।

(२) (इद भाग का लोप) हलि लोपः [ना० १८३] ।

आभिः; अस्यै, आभ्याम्, आभ्यः; अस्याः, आभ्याम्, आभ्यः;
अस्याः, अनयोः, आसाम्; अस्याम्, अनयोः, आसु ।

अदस् शब्द ।

पुँल्लिङ्ग में—अदस्—सु—

१८७—अदस औ सुलोपश्च ॥ अ० ७।२।१०७॥

जो सु विभक्ति परे हो तो अदस् शब्द के सकार को औ आदेश और सु विभक्ति का लोप हो जावे । अदस्—औ । यहाँ (१) दकार को सकारादेश होकर—असौ । अदस्—औ । यहाँ से आगे 'औ' आदि विभक्तियों में (२) अकारादेश होकर सर्वत्र 'अद' रह जाता है । अद—औ—

१८८—अदसोऽसेर्दादु दो मः ॥ अ० ८।२।८०॥

सकार भिन्न अदस् शब्द के दकार से परे अवरण को उवरण आदेश और उसके दकार को मकारादेश हो जावे । अमु—औ । यहाँ पूर्वसवरण दीर्घ एकादेश होके—अम् । अद—जस् । सर्व शब्द के समान अदन्त सर्वनाम से परे जस् को शी और पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होकर—अदे । यहाँ—

१८९—एत ईद्व बहुवचने ॥ अ० ८।२।८१ ॥

अदस् शब्द के दकार से परे जो एकार उसको एकारादेश और दकार को मकारादेश हो । अमी । अमु—अम् = अमुम्, अम्, अमून्; अमुना, अमूभ्याम् । अदस्—भिस्, (३) यहाँ भिस् का ऐस का निषेध, एकार को बहुवचन में ईकार और दकार को मकारादेश होकर—अमीभिः । अमुध्मै, अमूभ्याम्, अमीभ्यः; अमुष्मात्,

(१) (दकार को—स्) तदी सः साधनन्त्ययोः [ना० १०७] ।

(२) (अकारादेश) त्यदादीनामः [ना० १०९] ।

(३) (भिम् को ऐस का निषेध) वेदमदसोरकोः [ना० १८४] ।

अमूभ्याम्, अमीभ्यः; अमुष्य, अमुयोः, अमीपाम्; अमुष्मिन्, अमुयोः, अमीपु । नपुंसकलिङ्ग अदस् शब्द—अदस्—सु । यहाँ (१) सु और अम् का लुक्, सकार को रुत्व और रु को विसर्जनीय हांके—अदः । अमु—औ = अमू, अमूनि । फिर भा—अद, अमू, अमूनि । आगे पुँलिङ्ग के समान जाना । स्त्रीलिङ्ग अदस् शब्द—अदस्—सु । पूर्ववत्—असौ । अदा—औ, इस अवस्था में वृद्धि एकादेश दकार से परे औकार को दीर्घ ऊकार और दकार को मकारादेश हांकर—अमू, अमू; अमूमू, अमू, अमूः । अदा—टा, यहाँ आकार को एकार और उसको एय् आदेश हांकर—अदया, इस अवस्था में दकार से परे अकार को उकार और दकार को मकारादेश होकर—अमुया, अमूभ्याम्, अमूभि; अमुष्यै, अमूभ्याम्, अमूम्य; अमुष्याः, अमूभ्याम्, अमूम्यः, अमुष्या. अमुयोः, अमूपाम्; अमुष्याम्, अमुयोः, अमूपु ।

एक शब्द ।

पुँलिङ्ग में—एक, एकौ, एके; एकम्, एकौ, एकान्; एकेन, एकाभ्याम्, एकैः; एवस्मै, एकाभ्याम्, एकेभ्यः; एकस्मात् एकाभ्याम्, एकेभ्य, एकस्य, एकयोः, एकंपाम्; एकस्मिन्, एकयोः एकेपु । नपुंसकलिङ्ग में—एकम्, एके, एकानि । फिर भी—एकम्, एक एकानि । आगे पुँलिङ्ग के समान । स्त्रीलिङ्ग एक शब्द—सथा शब्द के समान । जैसे—एका, एके, एकाः; एकाम्, एकं, एकाः; एक्या, एकाभ्याम्, एकाभिः; एकस्यै, एकाभ्याम्, एकाभ्य; एकस्याः, एकाभ्याम्, एकाभ्यः, एकस्याः एकयोः, एकासाम्, एकस्याम्, एकयोः, एकासु ।

(१) (सु—अम् का लुक्) स्वमोर्नपुंसकात् [ना० ७०] ।

(सु—द) सप्तह्यो षः [ना० १४] ।

संख्यावाची द्वि शब्द ।

इस शब्द के नियत द्विवचनान्त ही प्रयोग किये जाते हैं । पँल्लिग में द्वि—औ । त्यन्नादिकों में रहने से अकारादेश होकर वृद्धि एकादेश होजाता है । द्वौ, द्वौ । द्वि—भ्याम्, आकारादेश और दीर्घ होकर—द्वाभ्याम्, द्वाभ्याम्, द्वाभ्याम्, द्वयो, द्वयो । नपु सक और स्त्रीलिङ्ग में प्रथमा और द्विनाया विभक्ति क द्विवचन में—‘द्वे, द्वे’ ऐसे प्रयोग होंगे । आगे पुल्लिङ्ग के तुल्य जानो ।

युष्मद् और अस्मद् शब्द ।

इन दोनों शब्दों के तीनों लिङ्ग और सातों विभक्तियों में एक प्रकार के प्रयोग होते हैं । इसलिये इनके प्रयोग साथ साथ ही लिखते हैं । युष्मद्—सु, अस्मद्—सु ।

१६०—मपर्यन्तस्य ॥ अ० ७ । २ । ६१ ॥

यह अधिकार सूत्र है । यहाँ से आगे युष्मद् और अस्मद् शब्द को जो आदेश कह वे मपर्यन्त को हों ।

१६१—त्वाहौ सौ ॥ अ० ७ । २ । ६४ ॥

जो सु विभक्ति परे हां तो युष्मद् अस्मद् शब्दों के 'मपर्यन्त के स्थान में क्रम से त्व और अह आदेश हो । युष्म्, अस्म् को आदेश होकर—त्व—अद्—सु, अह—अद्—सु ।

१६२—शेषे लोपः ॥ अ० ७ । २ । ६० ॥

शेष अर्थात् आदेश होकर जो अद् भाग बचा है उसका लोप हो । जैसे—त्व—सु, अह—सु ।

१६३—हे प्रथमपौरम् ॥ अ० ७ । १ । २८ ॥

जो युष्मद् अस्मद् शब्दों से परे हे और प्रथमा, द्वितीया विभक्ति

हों तो इन के स्थान में अम् आदेश हो । जैसे—त्व—अम्, अह—अम् । पूर्वरूप एकादेश हांकर—त्वम्, अहम् । युष्मद्—औ, अस्मद्—औ ।

१६४—युवावौ द्विवचने ॥ अ० ७ । २ । ६२ ॥

द्विवचन विभक्तियों के परे युष्मद् अस्मद् शब्दों के मपर्यन्त के स्थान में क्रम से युव, आव, आदेश हों । युव—अद्—औ, आव—अद्—औ । अद् भाग का लोप होके—युव औ, आव—औ ।

१६५—प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम् ॥

अ० ७ । २ । ८८ ॥

जो भाषा अर्थात् लौकिक प्रयोगविषय में प्रथमा विभक्ति का द्विवचन परे हो तो युष्मद् अस्मद् शब्द को आकारादेश हो । जैसे—युवाम्, आवाम् । भाषा में कहने से वेद में आकारादेश नहीं होता । युवम्, आवम् ऐसे ही प्रयोग होते हैं । युष्मद्—जस्, अस्मद्—जस् ।

१६६—यूययौ जसि ॥ अ० ७ । २ । ६३ ॥

जो जस् विभक्ति परे हो तो युष्मद्, अस्मद् शब्दों के मपर्यन्त के स्थान में क्रम से यूय, वय आदेश हों । शेष अद् भाग का लोप और जस् को (१) अम् आदेश होकर—यूयम्, वयम्, । युष्मद्—अम्, अस्मद्—अम् ।

१६७—त्वमावेकवचने ॥ अ० ७ । २ । ६७ ॥

एकवचन विभक्तियों में युष्मद्, अस्मद् शब्दों के मपर्यन्त के स्थान में क्रम से त्व, म आदेश हों । त्व—अद्—अम्, म—अद्—अम् ।

१६८—द्वितीयायां च ॥ अ० ७ । २ । ८७ ॥

(१) (जस् को अम् आदेश) के प्रथमयोरम् [ना० १९१] ।

द्वितीयाविभक्ति के परे युष्मद् अस्मद् शब्द को आकारादेश हो। अन्त्य दकार को आकार और दोनों को सवर्णदीर्घ एकादेश होकर—त्वाम्, माम्। युष्मद्—औ, अस्मद्—औ। यहाँ मपर्यन्त को युव, आव, दकार को आकार, औ के स्थान में अम् और पूर्वसवर्णदीर्घे एकादेश होकर—युवाम्, आवाम्। युष्मद्—शस्, अस्मद्—शस्। यहाँ भी दकार को आकार और सवर्णदीर्घे एकादेश होके—

१६६—शसो न ॥ अ० ७। १। २६ ॥

युष्मद् अस्मद् शब्द से परे जो शस् उस सकार को नकारादेश (१) हो। जैसे—युष्मान्, अस्मान्। युष्मद्—टा, अस्मद्—टा। यहाँ एकवचन में 'युष्मद्, अस्मद्' के मपर्यन्त को त्व, म, आदेश होके—त्व—अद्—टा, म—अद्—टा।

२००—योऽधि ॥ अ० ७। १। ८६ ॥

अनादेश अथोत् जिसको कोई आदेश न हुआ हो वह अजादिविभक्ति परे हां तो युष्मद् अस्मद् शब्द को यकारादेश हो। अन्त्य दकार का य् और अकार को पूर्वरूप एकादेश होकर—त्वया, मया। द्विवचन में—युव—अद्—भ्याम्, आव—अद्—भ्याम्। यहाँ—

२०१—युष्मदस्मदोरनादेशे ॥ अ० ७। २। ८६ ॥

जिसको कोई आदेश न हुआ हो वह हलादि विभक्ति परे हो तो युष्मद् अस्मद् शब्द को आकारादेश हो। दकार को आकार और दीर्घे एकादेश होके—युवाभ्याम्, आवाभ्याम्; युष्माभिः, अस्माभिः। युष्मद्—हे।

(१) यहाँ 'आदेः परस्य' (सन्धि० ८८) इससे शस् के आकार के स्थान पर नकारादेश होकर 'संयोगान्तस्य लोपः' [मा० ११२] से सकार का लोप होता है।

२०२—तुभ्यमह्यौ ङसि ॥ अ० ७ । २ । ६५ ॥

हे विभक्ति परे हो तो युष्मद् अस्मद् शब्द के मपर्यन्त को तुभ्य और मह्य आदेश क्रम से हों । विभक्ति को अम् (१) आदेश और अद्भाग का लोप होके—तुभ्यम्, मह्यम्, युवाभ्याम्, आवाभ्याम् । युष्मद्—भ्यस्, अस्मद्—भ्यस—

२०३—भ्यसोऽभ्यम् ॥ अ० ७ । १ । ३० ॥

युष्मद् अस्मद् शब्दों से परे भ्यस् विभक्ति को अभ्यम् आदेश हो । अद्भाग का लोप होकर—युष्मभ्यम् । अस्मभ्यम् । युष्मद्—ङसि, अस्मद्—ङसि । यहाँ एकवचन में मपर्यन्त को त्व, स आदेश और अद्भाग का (६) लोप होकर—

२०४—एकवचनस्य च ॥ अ० ७ । १ । ३२ ॥

जो युष्मद् अस्मद् से परे पञ्चमी विभक्ति का एकवचन हो तो उसको अत् आदेश हो । त्व—अत्, म—अन् । (३) पररूप एकादेश होकर—त्वन्, मत् । युवाभ्याम्, आवाभ्याम् । युष्मद्—भ्यस, अस्मद्—भ्यस् । यहाँ अद्भाग का (२) लोप होके—

२०५—पञ्चम्या अत् ॥ ७ । १ । ३१ ॥

जो युष्मद् अस्मद् शब्द से परे पञ्चमी विभक्ति का भ्यस् हो तो उसको अत् आदेश हो । पररूप एकादेश होके—युष्मत्, अस्मत् । युष्मद्—ङस्, अस्मद्—ङस्—

२०६—तवममौ ङसि ॥ अ० ७ । २ । ६६ ॥

ङस् विभक्ति के परे युष्मद् अस्मद् शब्द के मपर्यन्त को तव

(१) (विभक्ति को अम्) हे प्रथमयोरम् [ना० १९१] ।

(२) अद्—लोप—क्षेपे लोप (ना० १९२) ।

(३) (पररूप) अतो गुणे [सन्धि० १५३] ।

और मम आदेश हों। यहाँ भी अद्भाग का लोप होकर—तव—
इस्, मम—इस्—

२०७—युष्मदस्मद्भ्यां ङसोऽश् ॥ अ० ७।१।२७॥

जो युष्मद् अस्मद् शब्दों से परे ङस् विभक्ति हो तो उसको अश् आदेश होवे। अश् आदेश में शकार इसलिए है कि ङस्मात्र के स्थान में अकार हो जावे। पररूप एकादेश होके—तव, मम। युष्मद्—ओस, अस्मद्—ओस। यहाँ भी द्विवचन में मपर्यन्त को युव, आव और (१) दकार को यकारादेश होकर—युवयो, आवयो। युष्मद्—आम, अस्मद्—आम्। यहाँ सर्वनामसज्ञा होने से (२) सुट् और अद्भाग का लोप होकर—

२०८—साप आकम् ॥ अ० ७।१।३३ ॥

जो युष्मद् अस्मद् शब्द से परे सुट् सहित पष्ठी का बहुवचन आम् विभक्ति हो तो उसको आकम् आदेश हो। फिर एकादेश होकर—युष्माकम्, अस्माकम्। युष्मद्—हि, अस्मद्—हि। यहाँ एकवचन में मपर्यन्त को त्व, म और दकार को यकारादेश होके—त्वयि, मयि, युवयो, आवयो। युष्मद्—सु, अस्मद्—सु। यहाँ दकार को आकार (३) आदेश होके—युष्मासु, अस्मासु। अब इन दो शब्दों में इतना विशेष है कि—

२०९—युष्मदस्मदोः पष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्यघो-
वाञ्जाघौ ॥ अ० ८।१।२० ॥

जो पष्ठी, चतुर्थी और द्वितीया विभक्ति में वर्तमान, पद से परे [अपदादि में] युष्मद् अस्मद् पद हों तो उनके स्थान में ऋम से

(१) (इ को य) याऽपि [ना० २००] ।

(२) (सुट्) भामि सर्वनाम्न सुट् [ना० १९९] ।

(३) (इ को भा) युष्मदस्मदोरनादत्त [ना० २०१] ।

वाम् और नौ आदेश हों, और वे अनुदात्त भी हो जावें। यहाँ वाम् और नौ द्विवचन युष्मद् अस्मद् के स्थान में समझे जाते हैं। जैसे—पृष्ठी द्विवचन—युष्मद् अस्, अस्मद्—अस् = प्रामो वां स्वम्, जनपदो नौ स्वम्। यहाँ 'युवयोः, आवयोः' ऐसा प्राप्त था। चतुर्थीस्थ—प्रामो वां दीयते, जनपदो नौ दीयते। यहाँ 'युवाभ्याम् आवाभ्याम्' प्राप्त हैं। द्वितीयास्थ—माणवको वां पश्यति, माणवको नौ पश्यति। यहाँ युवाम्, आवाम् प्राप्त हैं। इस सूत्र में 'स्थ' ग्रहण इसलिये है कि 'दृष्टो मया युष्मत्पुत्र' यहाँ समास में पृष्ठी का लुक् होने से आदेश और अनुदात्त भी नहीं हुआ।

२१०—बहुवचनस्य वसन्सौ ॥ अ० ८।१।२१॥

जो पृष्ठी चतुर्थी और द्वितीया विभक्ति में वर्तमान, पद से परे [अपदादि में] बहुवचनान्त युष्मद् अस्मद् पद हों तो उनके स्थान में वस् और नस् आदेश हों। जैसे पृष्ठीस्थ—विद्या वो धनम्, राज्यं नौ धनम्। यहाँ 'युष्माकम्, अस्माकम्' ऐसा प्राप्त था। चतुर्थीस्थ—नमो वः पितरः, शशो भवतु। यहाँ 'युष्मभ्यम्, अस्मभ्यम्' पाता है। द्वितीयास्थ—बालो वः पश्यति, मा नो वधीः। यहाँ 'युष्मान्, अस्मान्' प्राप्त था।

२११—तेमयावेकवचनस्य ॥ अ० ८।१।२२॥

जो पृष्ठी और चतुर्थी विभक्ति के साथ वर्तमान पद से परे अपादादि में एकवचनान्त युष्मद् अस्मद् पद हों तो उनके स्थान में ते, मे आदेश हों। जैसे—[पृष्ठीस्थ—विद्या ते धनम्, राज्य मे धनम्। यहाँ 'तव' और 'मम' पाता है।] चतुर्थीस्थ—नि मे घेहि, नि ते दधे। तुभ्यम्, मह्यम् ऐसा प्राप्त है इत्यादि।

२१२—त्वामौ द्वितीयायाः ॥ अ० ८।१।२३॥

जो पद से परे द्वितीयान्त एकवचन में युष्मद् अस्मद् पद हों

तो उनके स्थान में त्वा मा ये अनुदात्त आदेश हों । जैसे—कस्त्वा युनक्ति, पुनन्तु मा देवजनाः इत्यादि । यहाँ 'त्वाम्, माम्' प्राप्त हैं ।

२१३—न चवाहाहैवयुक्ते ॥ अ० ८।१।२४॥

जो युष्मद् अस्मद् के साथ च, वा, ह, अह, एव का योग हो तो उनके स्थान में वाम्, नौ आदि आदेश न हों । जैसे—प्रामो युवयोश्च स्वम्, प्रामो आवयोश्च स्वम् इत्यादि ।

२१४—पर्यार्थश्चनालोचने ॥ अ० ८।१।२५॥

जो पर्यार्थ धातुओं के अनालोचन अर्थ में वर्तमान युष्मद् अस्मद् पद हों तो उनके स्थान में वां नौ आदि आदेश न हों । जैसे—प्रामस्त्वां संप्रेक्ष्य संदृश्य समीक्ष्य [वा] गतः, [प्रामो मा संप्रेक्ष्य गतः;] प्रामो मम [स्व] संप्रेक्ष्य गतः । प्रामो मम [स्व] संप्रेक्ष्य गतः, [प्रामस्तुभ्यं दीयमानं संप्रेक्ष्य गतः, प्रामो महां दीयमानं संप्रेक्ष्य गतः] इत्यादि ।

२१५—सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा ॥

अ० ८ । १ । २६ ॥

प्रथमान्त पद जिससे पूर्व हो ऐसे युष्मद् अस्मद् पद हों तो उनके स्थान में वां नौ आदि आदेश विकल्प करके हों । जैसे—अथो प्रामे कम्बलो मे स्वम्, अथो प्रामे कम्बलो मम स्वम्; अथो जनपदे कम्बलस्ते स्वम्, अथो जनपदे कम्बलस्तव स्वम् इत्यादि ।

२१६—घा०—युष्मदस्मदोरन्यतरस्यामनन्वादेशे ॥

अ० ८ । १ । २६ ॥

जहाँ अन्वादेश अर्थात् किसी वाक्य के पीछे वसी का निर्देश करना न हो ऐसे अर्थ में वर्तमान जो युष्मद् अस्मद् पद हों तो उनके स्थान में वाम् नौ आदेश विकल्प करके हों । जैसे—प्रामे

कम्बलो वां स्वम्, ग्रामे कम्बलो युवायोः स्वम्; ग्रामे कम्बलो नौ स्वम्, ग्रामे कम्बलो आवयोः स्वम् ।

२१७-वा०-अपर आह । सर्व एव वाचावद-
योऽनन्वादेशे विभाषा वक्तव्याः ॥ अ० ८।१, २६॥

इस विषय में किन्हीं लोगों का ऐसा मत है कि अनन्वादेश में सब वां, नौ आदि आदेश विकल्प करके हों । जैसे—कम्बलस्ते स्वम्, कम्बलस्तव स्वम्; कम्बलो मे स्वम्, कम्बलो मम स्वम् ।

भवत् शब्द

भवत् शब्द सवादिगण में पढ़ा है इसकी सर्वनाम संज्ञा होने का प्रयोजन यह है कि “अकच्छेपात्त्वानि” । अकच्—भवकान्, शेष—स च भवाश्च भवन्तौ, आत्व—भवात्शः । पुल्लिङ्ग भवत् शब्द—भवत्—सु । यहाँ सर्वनामस्थान संज्ञा होने से (१) जुम्, सु के परे दीर्घ, हल् से परे सकार का लोप और संयोगान्तलोप होकर—भवान् भवन्तौ, भवन्तः; भवन्तम्, भवन्तौ, भवतः; भवता, भवद्भ्याम्, भवद्भिः; भवते, भवद्भ्याम्, भवद्भ्यः; भवतः, भवद्भ्याम्, भवद्भ्यः; भवतः, भवतोः, भवताम्; भवति, भवतोः, भवत्सु । इस के सब कार्य तकारान्त पठत् शब्द के समान और नपुंसकलिङ्ग में उदशिवत् शब्द के समान समझो । स्त्रीलिङ्ग में ईकारान्त होके—‘भवती, भवत्यौ, भवत्यः’ इत्यादि स्त्रीलिङ्ग ईकारान्त कुमारी शब्द के समान जानो । सर्वनाम पुल्लिङ्ग किम् शब्द । किम्—सु—

२१८—किमः कः ॥ अ० ७ । २ । १०३ ॥

(१) (जुम्) उगिदृषां सर्वनामस्थानेऽधातो. [ना० ११२] । (सु के के परे दीर्घ) अत्यसंतस्य चाधातो. [ना० १२१] । (हल् से सलोप) हल्ङ्गा [ना० ४८] । (संयोगान्त लोप) संयोगान्तस्य लोपः [ना० ११३] ।

सब विभक्तियों में किम् शब्द को क आदेश हो। अन्य कार्य सर्व शब्द के समान [हैं]। कः, कौ, के; कम्, कौ, कान्; केन, काभ्याम्, कैः; कस्मै, काभ्याम्, केभ्यः; कस्मात्, काभ्याम्, केभ्यः; कस्य, कयो, केपाम्; कस्मिन्, कयोः, केपु। नपुंसकलिङ्ग में—किम्, के, कानि। फिर भी—किम्, के, कानि। आगे पुँलिङ्ग के समान। स्त्रीलिङ्ग में—का, के, का; काम्, के, काः; कया, काभ्याम्, काभिः; कस्यै, काभ्याम्, काभ्यः; कस्या, काभ्याम्, काभ्यः; कस्याः, कयोः, कासाम्, कस्याम्, कयोः, कासु। शब्दों का रूपविषय पूरा हुआ।

अब वे नियम लिखते हैं कि जो वेदों में पुरुष आदि सब शब्द मात्र में घटेंगे।

२१६--सुपां सुलुक्पूर्वसवर्णाच्छेयाडाड्या-

याजालः ॥ अ० ७। १। ३६ ॥

२२०-वा०-सुपां च सुपो भवन्तीति वक्तव्यम् ॥

अ० ७। १। ३६ ॥

सूत्र और वातिक का अर्थ इकट्ठा ही किया जाता है। वैदिक प्रयोग विषय में सुप् अर्थात् सु आदि इक्कीस प्रत्यय कि जिनको सात विभक्ति कहते हैं उनके स्थान में सुप अर्थात् किसी के स्थान में कोई प्रत्यय का आदेश लुक्, पूर्वसवर्ण, आत्, शे, या, डा, ड्या, याच् आल् ये आदेश हो जाते हैं। सुप्—ऋजवः सुपन्याः। यहाँ बहुवचन जस् के स्थान में एकवचन सु आदेश हुआ है, 'पन्यानः' ऐसा प्राप्त था। युक्ता मातासीद्धरि दक्षिणायाः यहाँ सप्तमी एकवचन के स्थान में षष्ठी का एकवचन हो जाता है, 'दक्षिणायाप' ऐसा पाठा था। लुक्—परमे व्योमन्। यहाँ सप्तमी के एकवचन का लुक् हो गया है। 'व्योमनि' ऐसा प्राप्त है। सोमो गौरी अधिभ्रितः, मामकी इति

तन् इति । यहाँ सप्तमी के एकवचन का लुक् हुआ है, 'सौमो गौर्याम्' मामक्याम तन्वाम्' ऐसा प्राप्त था । पूर्वसवर्ण—'धीती, मती' यहाँ तृतीया के एकवचन का पूर्वसवर्ण आदेश हुआ है, 'धीत्या, मत्या' ऐसा प्राप्त था । आत्—उभा यन्तारा, यहाँ प्रथमा वा द्वितीया के द्विवचन के स्थान में 'उभौ यन्तारौ' ऐसा पाता था । शे—युष्मे वाजबन्धव यहाँ बहुवचन जस् के स्थान में । 'यूय वाजबन्धव।' ऐसा प्राप्त था । या—उह्या, यहाँ तृतीया के एकवचन टा के स्थान में । 'उह्या' ऐसा प्राप्त था । डा—नाभा पृथिव्याम्, यहाँ सप्तमी के एकवचन के स्थान में डा हो गया है । 'नाभौ पृथिव्याम्' ऐसा प्राप्त था । ह्या—अनुष्टुभा, यहाँ तृतीया के एकवचन के स्थान में ह्या हो गया है । अनुष्टुभा ऐसा प्राप्त था । याच्—साधुषा, यहाँ प्रथमा के एकवचन को याच् हुआ है । 'साधु' ऐसा होना था । आल्—वसन्ता यजेत यहाँ सप्तमी के एकवचन को आल् आदेश हो गया है 'वसन्ते' ऐसा होना था ।

२२१-वा०-इयाहियाजोकाराणामुपसंख्यानम् ॥

अ० ७ । १ । ३६ ॥

सुपों के स्थान में इया, डियाच, ईकार, ये तीन आदेश हों । इया—दार्विष्या परिभ्रम् । यहाँ तृतीया के एकवचन को इया होगया है । 'दारुणा' ऐसा पाता था । डियाच्—सुमित्रिया न आप ओप-धय सन्तु, सुत्त्रेप्रिया, सुगात्रिया । यहाँ भी 'सुमित्रा' और 'सुत्त्रे-प्रिया, सुगात्रिया' ऐसा प्राप्त था । ईकार—दृनि न शुष्क सरसी शयानम् । यहाँ सप्तमी के एकवचन को ईकार होगया है । 'सरसि शयानम्' ऐसा होना था ।

२२२-आह्याजयारां चोपसंख्यानम् ॥ अ० ७ । १ । ३६ ॥

आह्, अयाच्, अयार् ये भी ती

आह—प्र वाहुना । यहाँ तृतीया के एकवचनको आह् आदेश हुआ है, 'प्र वाहुना' ऐसा प्राप्त था । अयाच्—स्वप्नया वावसेचनम् । यहाँ भी तृतीया के स्थान में अयाच् हुआ है, 'स्वप्नेन' ऐसा प्राप्त था । अयार्—स नः सिन्धुमिव नावया । यहाँ भी तृतीया के एकवचनको अयार् हुआ है, 'नाव' ऐसा प्राप्त है ।

अथ लिङ्गानुशासनविषयक प्रत्ययों का संकेत करते हैं-।

अष्टाध्यायी और उणादिस्य प्रत्ययो का परिगणन कि जिनके तीनों लिङ्ग में प्रयोग होते हैं—तव्यत् तव्य, अनीयर, केलिमर्, यत्, क्यप्, रयत्, रवुल्, वृच्, ल्यु, णिनि, क, श, फ, घुन्, थकन्, रयुट्, युन्, अण्, क, टक्, अच्, टा, इन, खश, खच्, अण्, ड, णिनि, टक्, छ्युन्, पिण्णुच्, लुकञ्, फिन्, कब्, किप्, खि, व्युट्, विट्, कप्, खिन्, विच्, मनिन्, वनिप्, वनिप्, किप्, णिनि, क्विप्, इनि, क्वनिप्, ड, निष्ठा, ड्वनिप्, अटन्, कानच्, क्वसु, शट्, शानच्, शानन्, चानश्, शट्, वृन्, इष्णुच्, फ्स्त्, वन्, घिनुण्, घुव्, युच्, रकन्, पाकन्, इनि, आलुच्, रु, कमरच्, घुरच्, कुरच्, क्वरप्, ऊक, र, उ, कि, किन्, नाजिह्, आ६, कु, क्लुकन्, कुकन्, वरच्, विवप्, घ्रन्, इत्र, छ, रवुल्, अण्, खल्, यच्, इतने कृन् प्रत्ययान्त और तद्धित [प्रत्ययान्त] सप्त शब्द तीनों लिङ्गों में आते हैं । नियत पुंलिङ्ग प्रत्यय—घब्, अप्, अच्, (अच् प्रत्ययान्तों में भयादि शब्दों को छोड़कर) अधुच्, नह्, नन्, कि, घ, ड, डर्, इक्, डकवक्, घनादि प्रत्ययान्त शब्द कर्त्ता भिन्न सप्त कारक और भाव में नियत पुंलिङ्ग ही आते हैं, परन्तु नह् प्रत्ययान्तों में 'याध्वा' शब्द को छोड़ के, क्योंकि यह केवल स्त्रीलिङ्ग में ही आता है । नियत नपुंसकलिङ्ग के प्रत्यय—छ, ल्युट् प्रत्यय कर्त्ता भिन्न कारक

आर्यसमाज के नियम

- १—सब सत्य विद्या और जो उपदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है ।
- २—ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, नविनाश, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्त्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और रुष्टिकृता है, उसी की उपासना करनी योग्य है ।
- ३—वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है । वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है ।
- ४—सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिये ।
- ५—सब काम धर्मानुसार अर्थात् सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिये ।
- ६—मंसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक दन्नति करना ।
- ७—सब से प्रेम पूर्वक, धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिये ।
- ८—अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये ।
- ९—प्रत्येक को अपनी ही दन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये, किन्तु सपत्नी दन्नति में अपनी दन्नति समझनी चाहिये ।
- १०—सब मनुष्यों को सामाजिक, सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिये और इत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहे ।

॥ ओ३म् ॥

अथ वेदांगप्रकाशः

कारकीयः

प्रकाशक—

आर्य साहित्य मण्डल लि०, अजमेर.

॥ ओ३म् ॥

अथ वेदाङ्गप्रकाशः ॥

★ तत्रत्यरश्चतुर्थो भागः ★

कारकीयः

❀ पाणिनीयाष्टाध्याय्यां तृतीयो भागः ❀

श्रीमत्स्वामिदयानन्दसरस्वतीकृतव्याख्यासहितः ।

श्रीपण्डितमुषिष्ठिर मीमांसकेन सशोध्य

टिप्पणीभिरलङ्कितः

पठनपाठनव्यवस्थायां पष्ठं पुस्तकम् ।

प्रकाशक

श्याय साहित्य भण्डल लिमिटेड, अजमेर

प्रथमावृत्ति

१०००

संवत् २०१३

दयानन्दवन्द १३ :

{ मूल्य १२= }

प्रकाशक—

आर्य-साहित्य मण्डल लिमिटेड,
अजमेरे



मुद्रक—

शिरीशचन्द्र शिवहरे, एम० ए०
दी फाइन आर्ट प्रिंटिंग प्रेस, अजमेर

भूमिका



मैंने कारकीय ग्रन्थ इसलिये बनाया है कि जिससे 'पढ़ाने' और 'पढ़ने' वालों को सुगमता से कारक का बोध होके वेदादि शास्त्रों का चाम्यार्थ बोध सुगमता से होवे । मनुष्य जितना अर्थ कारकों से जान सकता है उतना अन्य प्रकरणों से नहीं, क्योंकि यह कारकसमूह क्रिया द्रव्य और गुणवाची शब्दों के संबन्ध से समस्त वाक्यों के अर्थों का प्रकाशक है । उच्यतेऽर्थस्य विज्ञानाय विज्ञापनाय वा यत्तद्वाक्यम् । जो अर्थ के जानने और जनाने के लिये कहा जाता है, वह वाक्य कहाता है । जो मनुष्य आठों कारकों की विद्या को यथावत् जान लेता है वह वाक्यार्थों में सुबोध होता है । जिस लिये कारक संज्ञा के अधीन ही प्रथमा आदि विभक्तियों का विधान अष्टाध्यायी में है । इसलिये इस ग्रन्थ में कारक सूत्रों के साथ विभक्ति विधायक सूत्रों को भी लिख के उदाहरण प्रत्युदाहरण लिखे हैं । यहां एक उदाहरण वा प्रत्युदाहरण को जान और जना के उसके सदृश असंख्यात उदाहरणों को अभ्यापक लोग जान लें और विद्यार्थियों का भी जना दें कि जिस से सद्यः संस्कृत बोल, दूसरे के संस्कृत को

१. संस्कृत व्याकरण के अनुसार "शेष" अर्थात् "सम्बन्ध" की कारक संज्ञा नहीं होती । भार्यभाषा के व्याकरण में इसकी कारक संज्ञा मानी है । यतः यह ग्रन्थ भार्यभाषा में लिखा गया है अतः उसी के अनुसार यहां भी व्यवहार किया है । हेतु की कर्ता संज्ञा भी होती है अतः वह कर्ता के भन्तमूर्त है । यहां उसे पूर्यक् गिना है । इसी ग्रन्थ का श्रेष्ठो उपक्रम प्रकरण । पु० मी० ।

समग्र और वेदादि शास्त्रों के वाक्यार्थ जान के व्यवहार में भी बहुत उपकार होवे। जैसे किसी से किसी ने पूछा कि "त्वं कस्मादागच्छसि" तू कहां से आता है। वह उत्तर देवे कि "नगरात्" नगर से। इस एक ही पद से कारक का जानने हारा "अहमागच्छामि" इन दोनों पदों के कहे बिना भी पूरा वाक्यार्थ जान लेता है। कारकों के बोध ही से मनुष्य कारक विषयों का विद्वान् हो सकता है इत्यादि प्रयोजनों के लिये कारकों का जानना जानना सब को उचित है। ग्रन्थ में अ० संकेत से अष्टाध्यायी। पहली संख्या से अध्याय, दूसरी से पाद और तीसरी से सूत्र समग्र लेना।

॥ इति भूमिका ॥

विषय सूची



विषय	पृष्ठ
उपक्रम	१
कर्तृ-कारक	८
कर्म-कारक	११
करण-कारक	२६
सम्प्रदान-कारक	३१
अपादान-कारक	३८
शेष-कारक	४५
अधिकरण-कारक	५६
कर्मप्रथमनीय	६२
सूत्र-वाक्य-सूची	७१

सम्पादकोय

वेदाङ्गप्रकाश के संशोधित संस्करण प्रकाशित करने का जो उपक्रम आर्ये साहित्य मण्डल ने किया है उसी के फलस्वरूप यह कारकीय नामक भाग प्रकाशित किया जा रहा है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आर्ये जनता इसका भी पूर्व भागों के समान ही स्वागत करेगी।

इस ग्रन्थ में कई टिप्पणियां ग्रन्थकार की हैं, कुछ हमारी हैं। हमने अपनी टिप्पणी के साथ 'यु० मी०' संकेत कर दिया है और हमने अपने टिप्पणी १, २, ३ संख्या का संकेत करके लिखी हैं। ग्रन्थकार की टिप्पणी ॐ + आदि विविध चिन्हों से युक्त है।

कारकीय ग्रन्थ के लिखने, शोधने और प्रथम संस्करण के छपने से सम्बद्ध सम्पूर्ण वृत्त हम अपने 'अपि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास' नामक बृहद् ग्रन्थ में लिख चुके हैं। उसे पाठक उसी ग्रन्थ में अवलोकन करें। पुनः लिखना पिष्टपेषणवत् होने से यहाँ नहीं लिखा।

विदुषां वशंवदः—

युधिष्ठिर मीमांसक

कारकीयान्तर्गत व्याख्यातानां सूत्रवातिकीदीनां वर्णानुक्रमसूची

सूत्र	पृष्ठ	सूत्र	पृष्ठ
प्रकथित च	२०	अनावादिष्विति बक्तव्यम्	६५
प्रकथयणे पञ्चमी	४८	अनुप्रतिगृणश्च	७५
अकर्मकग्रहणे कालकर्मणा०	३६	अनुलक्षणे	१५५
अकस्य भविष्यतीति भा०	१२८	अन्तरान्तरेणयुक्ते	१२
अकारकारयो स्त्रीप्रत्यययो	११८	अन्तर्धौ येनादर्शनमिच्छति	९४
अकारकार्हाणा चाकारकत्वे	११७	अन्यारादितरतैदिक्०	८४
अकेनोभविष्यदाधर्मणयो	१२७	अपपरी वजने	१५०
अउरिसन्ताप्योरिति बक्तव्यम्	१०३	अपवर्गे तृतीया	१४
अतिरतिक्रमणेषु	१६९	अपादाने पञ्चमी	७७
अदिखादिनीबहीना०	३२	अपिः पदार्थसंभावनाम्बव०	१७०
अधिकरणवाचिनश्च	१२२	अप्रत्यादिभिरिति बक्तव्यम्	१४७
अधिकरणे च	७९	अभिनिनिशश्च	१५१
अधिपरी अनधंकी	१६७	अभिरमागे	१६४
अधिरीधरे	१७१	अलमिति पर्याप्यधंश्र०	६३
अधिशीटस्थासां कर्म	१५०	अव्यय प्रतिपेधे तोसुन्०	१२५
अधीगर्धदयेषां कर्मणि	१००	आख्यातोपयोगे च	९५
अध्वने प्रथमा च	८३	आह्वमर्यादावचने	१६१
अध्वन्यधंग्रहणम्	१७	आधरोऽधिकरणम्	१३२
अनभिहिते	६	आयुक्तकुशालान्यां धामे०	१४३

सूत्र	पृष्ठ	सूत्र	पृष्ठ
आश्लिपि नाथः	१०४	कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे०	१३
आस्थितमतिपेधश्च	१८	कृजः प्रतियत्ने	१०१
इत्थं भूतलक्षणे	४४	कृत्यानां कर्तरि वा	१२९
उक्तप्रतिपेधे कर्मेर्भाषा०	१२४	कृतवोर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे	११५
उत्पातेन ज्ञाप्यमाने	५८	कृत्पिसंपद्यमाने	५७
उपावध्याह्नसः	१५२	कृत्य च वर्तमाने	१२०
उपोधिके च	१५८	कृत्य च वर्तमाने नपुंसके०	१२१
उभयप्राप्तौ कर्मणि	११७	क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि०	६०
उभसर्वतसोः कार्या०	१०	क्रुधद्गृहेष्यांस्वार्थनां०	७१
पुनप द्वितीया	८६	क्रुधद्गृहोपसृष्टयोः कर्म	७२
कथितेऽभिहितेष्वभिधि०	२४	गतियुद्धिप्रत्यवसानार्थं०	३०
कथिते लादयप्रचेत्युः	२२	गत्यर्थकर्मणि द्वितीया०	१६
करणे च स्तोकाहपकृच्छ्र०	८८	चतुर्थी चाश्लेषायुष्य०	१३१
कर्तुरीप्सिततमं कर्म	५	चतुर्थीविधाने तादर्थ्यं०	५६
कर्तृकरणयोस्तृतीया	४०	चतुर्थी संप्रदाने	५५
कर्तृकर्मणोः कृति	११६	चतुर्थ्यर्थं बहुलं छन्दसि	११२
कर्मणः करणसंज्ञा रक्त्या०	६६	जनिकर्तुः प्रकृतिः	९६
कर्मणि द्वितीया	७	जासिनिप्रहणनाटप्राथ०	१०५
कर्मेणा यमभिप्रैति स०	५४	ज्ञोऽविदर्शस्य करणे	९९
कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया	१५४	समयोजकोद्देशे	३
कर्मप्रवचनीया	१५३	तथायुक्तं चानीप्सितम्	३९
कारक चेद्विजानीयात्	२३	तद्यत्कात् काले सप्तमी	८२
कारकाहोर्णां च कारकाये	१३६	ताद्विपर्यासे च	१३८
कारके	१	तुमर्थाद्य भाववचनात्	२१
कार्यमावाप्यगन्तव्याः०	२७	तुल्याधिस्तुलोपमाग्यां च	१३०

सूत्र	पृष्ठ	सूत्र	पृष्ठ
चृतीया च होरुच्छन्दसि	११	परिक्रयणे सप्रदानम्०	५३
चृतीयाथै	१५६	पृथग्विनानानामिस्तृतीया०	८७
चृतीयाविधाने प्रकृत्या०	४१	प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः	१६५
दिव कर्म च	५२	प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्	१६६
दिवस्तदर्थस्य	१०७	प्रत्याहभ्यां श्रुव पूर्वस्यकर्ता	७४
दुहियाचिरुधिप्रच्छि०	२१	प्रधानकर्मण्याख्येये०	२५
दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च	९०	प्रश्नाख्यानयोश्च	८०
दूरान्तिकार्थे पृथग्यन्य०	८९	प्रसितोत्सुकाम्या तृतीया च	१४८
द्वेषे सर्वत्र	३१	प्रातिपदिकार्थलिङ्ग०	४
देशश्चाकर्मकाणां कर्मसंज्ञो०	२८	प्रेष्यब्रुवोर्हविषो देवता सम्प्रदाने१	१०
द्वितीया ब्राह्मणे	१०९	भक्षेरहिंसार्थस्य	३५
द्वितीयाभिधानेऽभित ०	९	भोजार्थानां भयहेतु	९३
द्विपः शतुर्वाचनम्	१२६	भुव प्रभव	९७
धाररुत्तमणं	६९	मन्यकर्मण्यानादरे विभाषा०	६४
ध्रुवमपायेऽपादानम्	७६	यज्ञेश्च करणे	११४
नक्षत्रे च लुपि	१४९	यतश्चनिर्धारणम्	१४४
नम स्वतिस्वाहा	६२	यतश्चाध्वकालनिर्माणम्	८१
न लोकाव्ययनिष्ठा०	१०३	यस्मादधिक यस्य चेश्वर०	१५९
निमित्तकारणहेतुपु०	४७	यस्य च भावेन भावलक्षणम्	१४०
निमित्तात् कर्मसयोगे०	१३९	येनाह्नविवार	४३
नीवह्योहरतेश्चापि०	२६	रायीदयोयंस्य विप्रश्च	७३
पञ्चमीविधाने ह्यच्छ्लोके०	७८	रुच्यर्थानां प्रियमाण	६७
पञ्चमी विमक्ते	१४५	रुजार्थानां भाववपनानां०	१०२
पञ्चम्यापाटपरिभि	१६२	लक्षणेत्थभूताख्यानभाग०	१६३
परान्नरसोदः	९२	बहेरनियन्तृकर्तृकस्य	३४

सूत्र	पृष्ठ	सूत्र	पृष्ठ
वारणार्थानामभीप्सितः	९३	समयानिकपाहाप्रति०	८
विपरीत तु यत्कर्म०	२९	सर्वनाम्नस्तृतीया च	५१
विभाषा कृञि	१०२	सर्वमेव प्रथमवसानकार्यं०	३३
विभाषा गुणेऽस्त्रियाम्	४९	सहयुक्तेऽप्रधाने	४२
विभाषोपसर्गे	१०८	साधकतम करणम्	३९
व्यवहृपणो समर्थयोः	१०६	साधुनिपुणाभ्यामर्चायां०	१६
शेषे विभाषा	११९	साध्वसाधुप्रयोगे च	१३५
श्लोघहनुड्स्थाशपा०	६८	सुः पूजायाम्	१६८
षष्ठी चानादरे	१४१	सृष्टेरीप्सितः	७०
षष्ठी शेषे	९८	स्वतन्त्र. कर्त्ता	२
षष्ठी हेतुप्रयोगे	५०	स्वामीश्वराधिपति०	१४२
षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन	८५	हविषोऽप्रस्थितस्येति०	१११
षष्ठ्यर्थे चतुर्थी वक्तव्या	११३	हितयोगे च	५९
संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि	४५	हीने	१५७
सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये	१५	हृक्कोरन्यतरस्याम्	३७
सप्तमीविधाने कस्येन्बि०	१३४	हृक्कोरविचनेऽभिवादि०	३८
सप्तम्यधिकरणे च	१३३	हेती	४६

॥ ओ३म् ॥

अथ कारकीयः

अथोपक्रमः

(प्र०) कारक और कारकीय किसको कहते हैं ।

(उ०) यत् करोति तत् कारकम् । जो करने द्वारा अर्थ है वह कारक कहाता है और इस ग्रन्थ में इसका व्याख्यान है, इसलिये इसको कारकीय कहते हैं ।

(प्र०) कारक कितने प्रकार के होते हैं ।

(उ०) आठ—कर्त्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, शेष^१ अधिकरण और हेतु । इनमें से—

कर्त्ता उसको कहते हैं कि जो पदार्थ, सकल साधनयुक्त होके स्वतन्त्रता से सब क्रियाओं को करे । जैसे—देवदत्त पठति, आकाशो वर्तते, इत्यादि । यहा विद्या पठन क्रिया का कर्त्ता देवदत्त † और वर्तमान क्रिया का आकाश है ।

१ वस्तुतः दोष की गणना कारक में नहीं होती, परन्तु हिन्दी भाषा के व्याकरण में इसे कारक कहा है । उसी के अनुसार यहाँ लिखा है ।
पु० मी० ।

† स्वतन्त्रः कर्त्ता [अ० १ । ४ । ५५] इससे यहाँ कर्ता सज्ञा होती है । सब कारकों में एकवचन के उदाहरणों से पृथक् द्विवचन बहुवचन के प्रयोग भी जान लेना ।

कर्म उसको कहते हैं कि जो किया जाय। इसके तीन भेद हैं—ईप्सिततम, अनीप्सितयुक्त और अकथित। ईप्सिततम कर्म उसको कहते हैं जिसको अत्यन्त अभीष्ट जान के करें। जैसे—सुखमिच्छति, भोजनं करोति, ओदनं पचति, ग्रामं गच्छति, इत्यादि। यहां सुख होने की इच्छा, भोजन का करना, चावल का पकाना, और ग्राम को जाना किसी विशेष प्रयोजन के लिये अत्यन्त अभीष्ट होने से ईप्सिततम कर्म कहाता है। अनीप्सितयुक्त कर्म उसको कहते हैं कि जिसकी इच्छा तो न हो परन्तु संयोग होने से किया ही जावे। जैसे—देवदत्तो ग्रामं गच्छन् चोरान् पश्यति, कण्टकानुल्लङ्घयति, इत्यादि। यहां चोरों को देखने और कांटों में चलने की इच्छा तो किसी को नहीं होती, परन्तु संयोग से चोरों को देखना और कांटों उल्लङ्घन करना अवश्य होता है। अकथित कर्म उसको कहते हैं कि जिसका किसी गौण † भाव से निमित्त करके ईप्सिततम के साथ योग हो। जैसे—गां दोग्धि पयः, माणवकं पन्थानं पृच्छति, इत्यादि ‡ यहां लडके को पूछने रूप निमित्त के बिना मार्ग का ज्ञान और गाय का दोहनरूप निमित्त के बिना दूध की प्राप्ति नहीं हो सकती, परन्तु इस पृच्छति क्रिया के साथ लडके और दोग्धि क्रिया के साथ साक्षात् गाय का सम्बन्ध नहीं है किन्तु पन्था और दूध का है।

करण उस को कहते हैं जिस से कर्ता अपने कर्तव्य कर्म को कर सके। इस के दो भेद हैं गौण और मुख्य। गौण करण उस को

† ईप्सिततम मुख्यकर्म और अकथित गौण कहाता है और मुख्यकर्म के बिना गौण किसी वाक्य में नहीं आता।

‡ यहां दूध का निमित्त गौ और मार्ग का बालक गौणकर्म तथा दूध और मार्ग मुख्य कर्म हैं।

कहते हैं कि जो साधारणता क्रिया कि सिद्धि का निमित्त हो। जैसे—हस्ताभ्या पृकारादिनाग्निः प्रज्वलति, इत्यादि। यहां अग्नि की जलन क्रिया का निमित्त हाथ और फूंकनादि क्रिया हैं। मुख्य कारण कारक उसको कहते हैं कि साक्षात् सम्बन्ध से कर्तव्य कर्म की सिद्धि में यथावत् उपयुक्त हो, जिसके बिना वह कर्म कभी न हो सके। जैसे—इन्धनैरग्निः प्रज्वलति, अग्निनादनं पचति, इत्यादि। यहां अग्नि को जलाने में इन्धन और चावल के पकाने में अग्नि ही मुख्य साधक है।

संप्रदान उस को कहते हैं जिस का अभीष्ट सिद्ध किया जाय। जैसे—विद्यार्थिने विद्या ददाति, अध्यापकाय धनं प्रयच्छति, अतिथयेऽन्नादिक ददाति, इत्यादि। यहां विद्यादान कर्म से विद्यार्थी, धनदान क्रिया से आचार्य और अन्नादि पदार्थ के देने से अतिथि का अभीष्ट सिद्ध किया जाता है, इसलिये ये संप्रदान हैं।

अपादान उसको कहते हैं कि जहां प्राप्त का त्याग और अप्राप्त देश की प्राप्ति की जाय। जैसे—गृहादागच्छति गच्छति वा, गुरुकुलादागच्छति गच्छति वा, ग्रामादागच्छति गच्छति वा ॐ, इत्यादि। यहां पढ़ने के लिये प्राप्त घर को छोड़ कर अप्राप्त पाठशाला और पूर्णविद्या पढ़ के गुरुकुलनिवासरूप देश को छोड़ कर जन्मभूमि को प्राप्त होना प्रयोजन है, किन्तु छोड़ने रूप क्रिया के कर्म की अपादान

ॐ, यहां ग्रामादागच्छति, ग्रामादागच्छतः, ग्रामादागच्छन्ति, इत्यादि सब वचन और तीनों पुरुष के प्रयोग होते हैं क्योंकि एक स्थान से एक और अनेक का भी भावा सम्भव है। और कई स्थानों से एक पुरुष का भावा नहीं बनता इसी कारण अपादानसञ्ज्ञक शब्द में सब वचन नहीं होते और जहां अनेक स्थानों से अनेकों का भावा होगा वहां अपादान में भी सब वचन होंगे। ग्रामाभ्यामागच्छतः, ग्रामेभ्यः भागच्छन्ति इत्यादि।

संज्ञा है, अर्थात् जिसका वियोग कर दूसरे को प्राप्त होना होता है ।

शेष कारक उसको कहते हैं कि जो अर्थ अपादानादि सज्ञाओं से गृहीत न हो । जैसे—यस्य प्रशस्तभाग्यशालिनो यज्ञदत्तस्य पुत्रः पठति । यहां पठनक्रिया के कर्ता पुत्र का सम्बन्धी यज्ञदत्त पिता है जिस का पुत्र पढ़े वह भाग्यशाली है । वेदस्य मन्त्रस्याथे जानाति । वेद के मन्त्र के अर्थ को जानता है । यहां मन्त्र का वेद और अर्थ का शेष मन्त्र है । अयसः कुठारेण वृत्तं धिनत्ति । लोह के कुल्हाड़े से वृत्त को काटता है यहां लोहा कुल्हाड़े का शेषार्थ है । व्यापकस्याऽध्यापकस्य विद्यार्थिने ददाति । निष्कपट सत्यवादी पूर्णविद्यावान् पढ़ानेहारे परिण्डित के विद्यार्थी को देता है । यहां विद्यार्थी का शेष पढ़ाने हारा है । राज्ञो ग्रामादागच्छति । राजा के ग्राम से आता है । यहां ग्राम का शेष कारक राजा है । राज्ञः पुरुषस्य पुत्रो दर्शनीयोऽस्ति । राजा के पुरुष का पुत्र देखने में सुन्दर है । गुरोः कुले निवसति । विद्यार्थी पढ़ने के लिये गुरु के कुल में निवास करता है । यहां अधिकरण कारक कुल शब्द का शेष गुरु है । राज्ञो मन्त्री देवदत्तं ग्रामं गमयति, इत्यादि । राजा का मन्त्री देवदत्त को ग्राम में भेजता है । यहां हेतु कारक मन्त्री का शेष राजा है । इसी प्रकार शेष कारक को सब से बड़ा जानो, क्योंकि यह सब के साथ व्यापक रहता है । इसके बिना कोई कारक नहीं रहता, चाहे शेष का प्रयोग हो वा न हो ।

अधिकरण उसको कहते हैं कि जो आधेय का आधार रूप अर्थ हो । सो तीन प्रकार का होता है । तथा—

अधिकरणं नाम त्रिः प्रकारकं भवति । व्यापकमौपश्लेषिकं वैषयिकमिति महा० श्र० ६ । पा० १ सू० ७३ । व्यापक, औपश्लेषिक, वैषयिक । व्यापक अधिकरण उसको कहते हैं कि जिसका योग सब व्यक्ति और अवयवों में रहे, जैसे-दिक्काला-

काशेषु सर्वे पदार्थाः सन्ति, ईश्वरे सर्वे जगद् वर्तते, ॐ इत्यादि । दिशा, काल और आकाश में सब पदार्थ रहते और सब जगत् ईश्वर में है । औपश्लेषिक उस को कहते हैं जहां आधार और आधेय का संयोग हो, जैसे—खट्वायां शेते, गृहे निवसति, इत्यादि । यहां खाट और सोने वाले और घर तथा घर में रहने वाले का स्पर्शमात्र संयोग है । वैपयिक उसको कहते हैं कि जिस में जां रहे, जैसे—धर्म प्रतिष्ठते, विद्यायां यतते †, इत्यादि । मनुष्य की धर्म में वर्तने से प्रतिष्ठा और जां विद्या में यत्न करता है वह ज्ञानी होता है ।

हेतु कारक उसको कहते हैं कि जो अर्थ क्रिया करने हारे का प्रेरक हो । जैसे—देवदत्तो विद्यामधीते, गुरुरेनं विद्यामध्यापयति, विचक्षणो धर्मं करोति, उपदेष्टेनं धर्मं कारयति, इत्यादि । यहां पढ़ने हारे विद्यार्थी के पढ़ने के लिये प्रेरक गुरु और धर्म के करने हारे चतुर पुरुष को धर्म कराने द्वारा उपदेशक है । और इसमें इतना विशेष समझना चाहिये कि साक्षात् करने हारे की कर्तृ कारक संज्ञा और प्रेरणा करने हारे की हेतु संज्ञा है ।

(प्र०) वाक्य किसको कहते हैं ।

(उ०) आख्यातं साव्ययकारकविशेषणं वाक्यम् । सविशेषणमेकतिङ् वा । जो आख्यात अव्यय, कारक और विशेषण-

ॐ जैसे—तिलेषु तैलम्, दधनि घृतम्, इत्यादि भी व्यापक अभि-
करण में गिने जाते हैं, क्योंकि तिलों के सब अवयवों में तेल और दही के सब अवयवों में घृत व्यापक है । दिशा आदि के उदाहरण सामान्य और ये तिलदि के विशेष हैं ।

† प्रतिष्ठा का विषय धर्म और विद्या प्रयत्न का विषय है ।

१. महाभाष्य २ । १ । १ ॥ २. महा० २ । १ । १ ॥ वहाँ
“सक्रियाविशेषणं च, एकतिङ्” ऐसा पाठ है । किन्हीं के मत में
“आख्यातं सविशेषणम्” इतना ही उल्लेख वाक्य का है । पु० मी० ।

युक्त हो सो वाक्य कहाता है। साव्यय जैसे—देवदत्त उच्चैः पठति, इत्यादि। देवदत्त उच्चे स्वर से पढ़ता है। सकारक-मनुष्यो धर्ममाचरेत्, इत्यादि। मनुष्य धर्माचरण करे। सविशेषण—बुद्धिमान् देवदत्त ऋजु पठति, इत्यादि। बुद्धिमान् देवदत्त कोमलता से पढ़ता है। अथवा जिसमें विशेषण युक्त एक तिङन्त पद हा वह वाक्य कहाता है इसी के पूर्वोक्त उदाहरण—देवदत्त उच्चैः पठति, इत्यादि जानो।

(प्र०) वाक्य के कौन से प्रयोजन हैं।

(उ०) अनेक अर्थ की प्रतीति और व्यवहार में प्रवृत्ति आदि हैं, क्योंकि—अर्थगत्यर्थः शब्दप्रयोगः। अर्थं प्रत्याययिष्यामीति शब्दः प्रयुज्यते ॥ महाभाष्य ॥ अ० १। पा० १। सू० ४४। आ० ७। अर्थ के जानने के लिये शब्द का प्रयोग किया जाता है। वक्तुं योग्यं पदसमुदायं वाक्यम्—जो कहने को योग्य हो, जिसमें अनेक पदों का योग हो वह वाक्य कहाता है। जब तक कोई किसी को वाक्य बोल के अर्थ का बोध नहीं कराता तब तक उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, व्यवहार में प्रवृत्ति नहीं होती और जब तक व्यवहार ठीक २ नहीं होता तब तक उसका कार्य सिद्ध होकर सुखप्राप्ति रूप प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता। इसलिये वाक्य और वाक्यार्थ का बोध करना सब मनुष्यों को अवश्य उचित है।

(प्र०) वाक्यार्थ बोध में कितने कारण हैं।

(उ०) चार—आकांक्षा, योग्यता, आसत्ति और तात्पर्य। आकांक्षा ॐ उस को कहते हैं कि वाक्य में जिन पदों का प्रयोग है उनके साथ जिन अप्रयुक्त पदों का अवश्य सम्बन्ध करना हो।

ॐ इन के बिना कोई भी वाक्य नहीं होता और न इनके जाने बिना और प्रत्येक वाक्यों के साथ २ अनिर्णय का बोध किसी को हो सकता है।

जैसे—अनुतिष्ठत, यहां अनुतिष्ठत इस क्रिया पद के साथ यूयं और धर्मं इन दो पदों, और “यूयमधर्मम्” इस वाक्य में संत्यजत † इस क्रिया पद की आकाङ्क्षा अवश्य है, क्योंकि इनके बिना वाक्य की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। तथा अनाकाङ्क्षा उस को कहते हैं कि जिस वाक्य में सब योग्य पदों का प्रयोग हो जैसे—यूयं धर्ममनुतिष्ठत, यूयमधर्मं संत्यजत, इत्यादि उदाहरण समझ लेना।

योग्यता उस को कहते हैं कि जो पद जिसके साथ प्रयोग करने योग्य हो वा जिस से जो कार्य सिद्ध होता हो उन्हीं का प्रयोग करना। जैसे—चक्षुषा पश्यति, श्रोत्रेण शृणोति, जलेन सिञ्चति, अग्निना दहति, इत्यादि। मनुष्य आंखों से देखता, कान से सुनता, जल से सींचता और अग्नि से जलाता है। यहां वाक्यार्थ की योग्यता है। और “करणेन पश्यति, हस्तेन शृणोति, अग्निना सिञ्चति, जलेन दहति” इत्यादि में वाक्यार्थ की योग्यता नहीं है क्योंकि कान से देखने, हाथ से सुनने, आग से सींचने और जल से जलाने का कभी संभव नहीं हो सकता। [इसलिये ये वाक्य नहीं कहते]

आसत्ति उस को कहते हैं कि जिस पद की जिसके साथ योग्यता हो उस को उसी के साथ बोलना। जैसे—हे देवदत्त त्वमिति कंचित्प्रति प्रातरुत्वा सायंकाले ब्रूयाद् मामं गच्छति। कोई किसी से प्रातःकाल “हे देवदत्त तू” ऐसा कह कर चुपचाप रहे पश्चात् सायंकाल में कहे कि “माम को जा”। यहां चार पहर के विलम्ब होने से इसका वाक्यार्थ बोध किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि पदों का अभिसंबन्ध निकट नहीं है। और जैसे—हे देवदत्त

† वाक्य का लक्षण तिरु के बिना नहीं किया, इस कारण इसको शुद्ध वाक्य नहीं कह सकते, किन्तु आकाङ्क्षित वाक्य कहावेगा।

त्वं प्रामं गच्छ, इत्यादि वाक्य अर्थबोधक हो सकते हैं, क्योंकि यहां कर्ता कर्म और क्रिया का उच्चारण एक समय में समीपस्थ है।

तात्पर्य उस को कहते हैं कि वक्ता जिस अभिप्राय के जनाने के लिये वाक्य बोले, उसी के अनुकूल दूसरे को समझना उचित है। जैसे किसी ने कहा कि “महां देहि, अत्रादातव्यमेव दद्यादिति वेदितव्यम्” जैसे किसी ने किसी से कहा कि आप मुझ को कुछ दीजिये, यहां प्रहण करने के योग्य पदार्थों का मिलना वक्ता का प्रयोजन है। ऐसा न समझना कि “अयं दुःखदायिवस्तुयाचक इत्यस्य तात्पर्यार्थः” पूर्व वाक्य में कोई ऐसा समझे यह मुझ से दुःखदायक पदार्थों को चाहता है, ऐसा समझना उसके तात्पर्यार्थ से विरुद्ध है। इसलिये इन सब को वाक्य बोध के कारण अवश्य जानने चाहिये ॥

॥ इत्युपक्रमः ॥

१-कारके ॥ अ० १ । ४ । २३ ॥

संज्ञाधिकार के बीच पढ़ने और आगे आगे सूत्रों में इसकी अनुवृत्ति होने से यह [संज्ञा और] अधिकार सूत्र है। इस से जहां-जहां स्वतन्त्र आदि कर्ता आदि की संज्ञा की जावेगी वहां सर्वत्र कारक शब्द का अधिकार समझा जावेगा। क्रिया और द्रव्य का संयोग होने पर क्रिया की सिद्धि करने वाले को कारक कहते हैं।

१-[कर्तृकारक]

२-स्वतन्त्रः कर्ता ॥ अ० १ । ४ । ५४ ॥

“स्व” आप “तन्त्र” प्रधान। स्वतन्त्र जो आप ही क्रिया के करने में प्रधान हो उस की कर्तृकारक संज्ञा है।

३-तत्प्रयोजको हेतुश्च ॥ अ० १ । ४ । ५५ ॥

जो स्वतंत्र को प्रेरणा करने वाला हो, उस की हेतु और कर्ता दोनों संज्ञा होती हैं ।

* ४-प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा ॥

अ० २ । ३ । ४६ ॥

जो जिस अर्थ के साथ समर्थ होता है उस को प्रातिपदिकार्थ कहते हैं । इस के अथेमात्र, लिङ्ग अर्थात् स्त्री, पुरुष, नपुंसकमात्र, परिमाण अर्थात् तोल मात्र और वचन-एक, दो, बहुत मात्र, इन अर्थों में प्रथमा विभक्ति होती है । इसी सूत्र के भाष्य में लिखा है कि—“तिङ्समानाधिकरणे प्रथमेत्येतद्वक्षणं करिष्यते” अस्ति भवति आदि तिङन्त क्रियाओं के साथ जिस का समानाधिकरण हो (अर्थात् जो उक्त, कथित और अभिहित है) उस में प्रथमा विभक्ति होती है । इस से भिन्न कारकों में द्वितीयादि होती हैं सो

* यहाँ प्रातिपदिकार्थ उस को कहते हैं कि जो उस शब्द की सत्ता-मात्र हो और अर्थ के साथ शब्द का विशेष संबन्ध होता है, इसलिये लिङ्ग भादि का ग्रहण है । जैसे—पुमान् । इस शब्द में जो पुरुष व्यक्ति के साथ सामान्य सम्बन्ध है वही प्रातिपदिकार्थ है और पुरुषपन अर्थात् स्त्री से अलग होना है यह प्रातिपदिकार्थ नहीं है किन्तु लिङ्ग है ।

१ विभक्ति विधायक प्रकरण में ‘अनभिहिते’ (का० ६) का अधिकार है । अतः जिस कर्ता का कर्तृत्व ‘तिङ्’ आदि से अभिहित नहीं होता वहाँ कारकीय ४०वें सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है । जहाँ कर्तृत्व अथ तिङ् आदि से कह दिया जाता है अर्थात् कर्ता अर्थ में तिङ्प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है (देखो भाषया० ५) वहाँ प्रातिपदिकार्थ मात्र के बोध रहने से इस (कार० ४) सूत्र से प्रथमा विभक्ति

आगे कहेंगे । कर्ता और हेतु कारक के उदाहरण प्रातिपदिकार्थमात्र में—देवदत्तो प्राप्त गच्छति, यज्ञदत्तो देवदत्त प्राप्तं गमयति, देवदत्त ओदनं पचति, यज्ञदत्तो देवदत्तेनौदनं पाचयति, इत्यादि । यहाँ गच्छति, पचति क्रिया के करने में देवदत्त स्वतन्त्र होने से कर्ता और यज्ञदत्त की प्रेरणा का कर्म है उस का इन्हीं क्रियाओं के साथ समानाधिकरण होने से उस में प्रथमा विभक्ति होती है । तथा [प्रातिपदिक के] अर्थ मात्र के कहने से उच्चैः, नीचैः, इत्यादि में भी प्रथमा विभक्ति हो जावे । लिङ्गमात्र में—कुमारी—यहा जा प्रातिपदिकार्थ बालक प्रथमा अवस्था है उससे स्त्रीत्व पृथक् है इसलिये प्रातिपदिक [अर्थ मात्र में] प्राप्त नहीं थी । पुल्लिङ्ग-वृत्तः । वृत्त एक श्लेष जाति है, यहाँ जो जातित्वमात्र प्रातिपदिकार्थ है वह पुल्लिङ्ग व्यक्ति से पृथक् है । नपुंसक—कुलम् । यहाँ भी नपुंसकपन प्रातिपदिकार्थ जो जनसमुदाय है उससे पृथक् है । परिमाणमात्र में—द्रोणः, खारी, आढकम् । इन तोल के वाची शब्दों में प्रथमा होती है † । वचनमात्र

होती है । वस्तुतः यहाँ कर्ता में तृतीया विभक्ति निदर्शक “कर्तृकरणयोस्तृतीया” (का० ४०) सूत्र उद्घृत करना चाहिये था, परन्तु व्यवहार में प्रायः कर्तृवाचक तिङन्त का प्रयोग होता है और वही तिङ् द्वारा कर्तृत्व के अभिहित होने से प्रथमा विभक्ति होती है अतएव यहाँ प्रथमा विभक्ति विधायक सूत्र उद्घृत किया है । पु० भी० ।

श्लेष एक शब्द के उच्चारण से सामान्य अर्थात् असंख्य व्यक्तियों का बोध होना आति कहाती है । सो वृक्ष शब्द के उच्चारण से व्यक्ति, भाकृति और आति तीनों का बोध होता है । लिङ्गार्थ इन तीनों से पृथक् है ।

† छोलन साधक प्रोण भाद्रि शम्भु, पृथ आदि मेव अर्थात् परिमाण विषयों के संबन्ध में मान अर्थात् ह्यत्ताकरणार्थ होने से प्रातिपदिकार्थ से पृथक् है इसलिये इनका ग्रहण है ।

में—एकः, द्वौ, बहवः । यहां जो एक दो और बहुत संख्यात्व है वह प्रातिपदिकार्थ से पृथक् है । यहां मात्र ग्रहण इसलिये है कि इससे भिन्न अन्यत्र कर्मादि के विषय में प्रथमा न हो ।

२—[कर्मकारक]

५—कतुरीप्सिततम कर्म ॥ अ० १ । ४ । ४६ ॥

जो बहुत कारकों से युक्त वाक्य के बीच में कर्ता को अत्यन्त इष्ट कारक है, वह कर्म संज्ञक होता है । इस का फल—

६—अनभिहिते ॥ अ० २ । ३ । १ ॥

यह अधिकार विभक्तिविधान प्रकरण में है । अभिहित उसको कहते हैं कि जिस से लकारादिप्रत्ययान्त क्रियाओं का समानाधिकरण होवे । और जिसमें लकारादि प्रत्ययों का समानाधिकरण न हो उस को अनभिहित, अनुक्त और अकथित भी कहते हैं । इस के आगे जो जो विभक्तिविधानप्रकरण के सूत्र लिखे जावेंगे, उन सब में यही अधिकार समझा जावेगा । और संज्ञाप्रकरण का अधिकार लिख चुके हैं ।

७—कर्मणि द्वितीया ॥ अ० २ । ३ । २ ॥

अनभिहित कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति हो । ग्रामं गच्छति, वेदं पठति यज्ञं करोति । यहां ग्राम का जाना, वेद का पढ़ना और यज्ञ का करना अत्यन्त इष्ट है ॥ इसलिये ग्राम वेद और यज्ञ की कर्म संज्ञा हो के द्वितीया विभक्ति हो जाती है । इसी प्रकार सर्वत्र

* जो पदार्थ अत्यन्त इष्ट नहीं होता उस की सिद्धि के लिये शरीर-इन्द्रिय मन बुद्धि आदि की यथार्थ प्रवृत्ति नहीं होती, फिर उस की कर्म-रूपा भी नहीं हो सकती ।

जानना । अनभिहित का प्रयोजन यह है कि “पाठ्यो वेद.” यहां वेद शब्द के अभिहित^१ होने से द्वितीया न हुई ।

* ८-वा०-समया निकषा हा प्रति योगेषूपसंख्यानम् ॥
२ । ३ । २

समया निकषा हा प्रति इन चार अव्ययों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है । समया प्रामम्, निकषा प्रामम्, हा देवदत्तम्, देवदत्तं प्रति । यहां सर्वत्र देवदत्त और प्राम शब्द में द्वितीया विभक्ति हुई है ।

६-वा०-अपर आह—

द्वितीयऽभिधानेऽभितः परितः समया निकषाऽध्यधि
धिग्योगेषूपसंख्यानम् ॥ २ । ३ । २ ॥

समया और निकषा शब्द पूर्ववार्तिक में आ चुके हैं इन के सक्त उदाहरण जानने । अभितः परितः अध्यधि धिक् इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होवे । अभितो प्रामम्, परितो प्रामम्, अध्यधि प्रामम्, धिग्जात्मम् ।

१०-का०-अपर आह—

उमसर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु ।

द्वितीयाऽऽम्नेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते ॥ २ । ३ । २ ॥

१ यहां ‘पाठ्य’ का ष्यप् प्रत्यय “तयोरेव कृत्यफलकर्थाः” (भाष्य० २१६) से कर्म अर्थ में होता है । अतः वेद का कर्मत्व अज्ञ-कृत्य प्रत्यय द्वारा अभिहित अर्थात् कथित है । इसके अभिहित होने से द्वितीया नहीं हुई । पु० मी० ।

६ यहां अनभिहित कर्म नहीं है इसलिये यह द्वितीयाविभक्तिविधान अकारण बाधा है ।

उभयतस् सर्वतस् धिक् उपर्युपरि अध्यधि अधोऽधो इन के योग में भी द्वितीया विभक्ति होवे। जैसे—उभयतो प्रामम्, सर्वतो प्रामम्। धिग्जालमम्, उपर्युपरि प्रामम्, अध्यधि प्रामम्, अधोऽधो प्रामम्। और इन के योग से अन्यत्र जहां किसी सूत्र वातिक से द्वितीया विधान न हो वहां भी इसी कारिका के प्रमाण से होती है। जैसे—सुमुक्षित न प्रति भाति किञ्चित्, इत्यादि। यहां प्रति के योग में द्वितीया हुई है।

११-तृतीया च होश्छन्दसि ॥ अ० २ । ३ । ३ ॥

वेद विषय में “हु” धातु के अनभिहित कर्मकारक में तृतीया और चकार से द्वितीया भी होती है। यवाग्वाऽग्निहोत्र जुहोति, यवागूमग्निहोत्र जुहोति। छन्द का ग्रहण इसलिये है कि “यवागूमग्निहोत्रं जुहोति” यहा लोक में तृतीया विभक्ति न हो।

१२-अन्तरान्तरेण युक्ते ॥ अ० २ । ३ । ४ ॥

अन्तरा, अन्तरेण इन दो अव्ययों के योग में द्वितीया विभक्ति हो ॐ। अग्निमन्तरा कथं पचेत्, अग्निमन्तरेण कथं पचेत्।

१३-कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ॥ अ० २ । ३ । ५ ॥

अत्यन्त संयोग अर्थ में कालवाची और मार्गवाची शब्दों से द्वितीया विभक्ति होवे। मासमघोतोऽनुवाक, क्रोश कुटिला नदी †। यहा अत्यन्त संयोग ग्रहण इसलिये है कि “दिवसस्य द्विर्भुङ्क्ते” इत्यादि में द्वितीया न हो।

ॐ यह द्वितीया विभक्ति का प्रकरण है और पूर्वसूक्त में तृतीया-विधान है, सो द्वितीया का ही अपवाद है। इसलिये यहा तृतीया की अनुवृत्ति नहीं आती, द्वितीया की ही आती है। और यह सूत्र अपूर्व विधायक है अर्थात् अन्तरा अन्तरेण इन अव्ययों के योग में किसी विभक्ति का विधान किसी सूत्र से नहीं है।

१४—अपवर्गे तृतीया ॥ अ० २ । ३ । ६ ॥

जो शुभ कर्म का समाप्ति है उसको अपवर्ग कहते हैं। इस अत्यन्त सयाग अर्थ में कालवाची और मार्गवाची शब्दों से तृतीया विभक्ति हो। मासेनाधीतोऽनुवाक, क्रोशेनाधीताऽनुवाक। यहाँ अपवर्ग ग्रहण इसलिये है कि “मासमधीतोऽनुवाको न चानेन गृहीत” इत्यादि स्थल में तृतीया न हो †।

१५—सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये ॥ अ० २ । ३ । ७ ।

जो अत्यन्त सयोग अर्थ में दो कारकों के बीच काल और मार्गवाची शब्द हों तो उनसे सप्तमी और पञ्चमी विभक्ति हों। अद्य सुप्त्वा द्व्यहाद् भोक्ता, द्व्यहे भोक्ता, इहस्योऽयमिष्वासः देवदत्तो क्रोशाऽक्ष्य विध्यति, क्रोशे लक्ष्य विध्यति इत्यादि।

१६—गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुर्थ्यौ चेष्टायामनध्वनि ॥

अ० २ । ३ । १२ ॥

जिन की चेष्टा क्रिया विदित होती हो, ऐसे गत्यर्थक धातुओं के मार्ग रहित अनभिहित कर्म में द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति हों। ग्राम गच्छति, ग्रामाय गच्छति, ग्राममेति, ग्रामायैति ‡। गत्यर्थक

† यहाँ अत्यन्त सयोग यह है कि महीने के बीच पढ़ने में कोई अनप्याय वा विक्षेप न हुआ, यह उस काल और पठनक्रिया का अत्यन्त सयोग है। क्रोश भर टेढ़ी नदी, यहाँ मार्ग और नदी का अत्यन्त सयोग है क्योंकि क्रोश भर में टवाई व्यास है।

‡ अर्थात् जहाँ एक महीने में पढ़ के समाप्त कर दिया हो और अच्छी प्रकार जान लिया हो, वही हो।

§ यहाँ अनभिहित कर्म में “कर्मणि द्वितीया” (का० ७) इससे द्वितीया ही पाती है, उसका यह अपवाद है।

धातुओं का प्रहण इसलिये है कि "कटं करोति" यहां चतुर्थी न हो ।
कर्म प्रहण इसलिये है कि 'अश्वेन गच्छति" यहां करण में द्वितीया
और चतुर्थी न हों । चेष्टा प्रहण इसलिये है कि "मनसा गृहं
गच्छति" यहा चेष्टा के न होने से चतुर्थी नहीं होती और अन्ध्वनि
प्रहण इसलिये है कि "अध्वानं गच्छति" यहा चतुर्थी न हो ।

१७-वा०-अध्वन्यर्थप्रहणम् ॥ २ । ३ । १२ ॥

अध्व के पर्यायवाची शब्दों का भी निषेध में प्रहण होना
चाहिये । जैसे—अध्वानं गच्छति यहा चतुर्थी नहीं होती, वैसे ही
"पन्थान गच्छति" इत्यादि में भी चतुर्थी न हो ।

१८-वा०-आस्थितप्रतिषेधश्च ॥ २ । ३ । १२ ॥

मार्गवाची मुख्य शब्दों का निषेध होना चाहिये । क्योंकि
"सपथेन पन्थानं गच्छति, पथे गच्छति" † यहा चतुर्थी का निषेध
न हो जावे ।

अब कर्म सज्ञा में जो विशेष सूत्र वार्त्तिक तथा कारिका बाकी
हैं, वे लिखते हैं । उन में कर्म संज्ञा होके प्रथम सूत्र से ही द्वितीया
विभक्ति होती है ।

१९-तथायुक्त चानीप्सितम् ॥ अ० १ । ४ । ५० ॥

जिस प्रकार ईप्सिततम कारक की कर्म, सज्ञा होती है वैसे ही
जिसका अकस्मात् योग हो जाय तो उस , अनीप्सित युक्त की भी
कर्म संज्ञा हो । ग्रामं गच्छन् वृकान् पश्यति, वृणानि स्पृशति । ग्राम
को जाता हुआ भेड़ियों को देखता और घास का स्पर्श करता जाता
है । भेड़ियों का देखना तो अनिष्ट है और घास का स्पर्श होना इष्ट

† यहां मार्गवाची मुख्य शब्द यों नहीं है कि गद्बद् मार्ग से शुद्ध
-मार्ग के लिये जाता है । शुद्ध मार्ग का बलना नहीं है ।

अनिष्ट दोनों ही नहीं। इष्ट केवल ग्राम का जाना है सो उसकी कर्म संज्ञा पूर्वसूत्र से हो गई। यहां भेडिया और घास की कर्म संज्ञा हो जाने से द्वितीया विभक्ति हो जाती है।

२०—अकथितं च ॥ अ० १ । ४ । ५१ ॥

अपादान आदि सब कारकों में जिस की कोई संज्ञा न की हो उसको अकथित कहते हैं। उस अकथित की भी कर्म संज्ञा हो जावे। जैसे—अजां नयति ग्रामम्, भारं वहति ग्रामम्। तथा अजा और भार शब्द की तो कर्म संज्ञा “कर्तुरी०” [कार० ५] इस उक्त सूत्र से सिद्ध ही है। ग्राम शब्द में किसी कारक संज्ञा की प्राप्ति नहीं थी, इस से उसकी इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो के द्वितीया होती है। जो इस सूत्र का व्याख्यान महाभाष्यकार ने किया है सो लिखते हैं—

२१—का०—दुहियाचिरुधिप्रच्छिभिक्षिचिजामुपयोगनिमित्त-
मपूर्वविधौ । व्रु विश्वासिगुणेन च यत् सचते तद-
कीर्तिमाचरितं कविना ॥ १ । ४ । ५१ ॥

इस कारिका से सूत्र का प्रयोजन दिखलाया है। दुह, याच, रुध, प्रच्छ, भिक्त, चिन्, व्रव् और शासु इन धातुओं के योग में उपयोग छ का जो निमित्त हो, उसकी अपूर्वविधि अर्थात् जिसका

छ उपयोग उसको कहते हैं कि जिसका किया के साथ मुख्य सम्बन्ध हो और उसका निमित्त वह है कि जिसके बिना उसकी सिद्धि न हो। जैसे—पौरुष गौ याचते। यही गौ तो उपयोगी कर्म है वह ईप्सिततम होने से पूर्व सूत्र से कर्म संज्ञक हो जाता और इसी कर्म का याचन किया के साथ मुख्य सम्बन्ध है और पौरुष जो दाता पुरुष है वही इस गौ का निमित्त है उसके बिना गौ नहीं मिल सकती। इसलिये पौरुष अकथित कर्म है उसकी कर्म संज्ञा इस सूत्र से होती है।

विधान पूर्व अपादान आदि कारकों में कुछ भी न किया हो तो इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो । जैसे—गां दोग्धि पयः, याच-पौरवं गां याचते, इध-गामवरुणद्धि घ्रजम्, प्रच्छ-माणवकं पन्यानं पृच्छते, भिक्त-पौरवं गां भिक्तते, चिञ्च-वृत्तमवचिनोति फलानि, ब्रून्-पुत्रं धर्मं ब्रूते, शासु-सन्तानं धर्मं शास्ति ।

(प्रश्न) जहां कर्म कारक में लकारादि प्रत्ययों का विधान है, वे जहां दो कर्म हों वहां किस कर्म में होने चाहिये ।

(उत्तर)-२२-का०-कथिते लादयश्चेत्स्युः पष्ठी कुर्यात्तदा गुणे ।

अकारकं अकथितात्कारकं चेत्तु नाकथा ॥१।४।५१॥

विचार करते हैं कि जो कथित प्रधान कर्म में लकारादिप्रत्यय किये जायें तो गौण अर्थात् अकथित कर्म में पष्ठी विभक्ति होनी चाहिये । जैसे—दुह्यते गोः पयः, याच्यते पौरवस्य कम्बलः । क्योंकि जो अकथित है वह कारक नहीं, किन्तु जो कथित है वही कारक है । जिस जिस में लकारादि प्रत्यय होते हैं उस उस कथित कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और जो अकथित है कि जिस में किसी विभक्ति की प्राप्ति नहीं, उस के शेष होने से वहां पष्ठी हो जाती है ।

२३-का०-कारकं चेद्विजानीयायां यां मन्येत सा भवेत्

॥ १ । ४ । ५१ ॥

और जिसको अकथित जानते हो उसको जो कारक जानो तो जिस जिस कारक संज्ञा में उसकी प्रवृत्ति हो सकती है, वही विभक्ति उसमें करनी चाहिये । जो उस अकथित की अपादान संज्ञा हो सकती हो तो वहां पञ्चमी विभक्ति करनी चाहिये । जैसे—दुह्यते गोः पयः, याच्यते पौरवान् कम्बलः ।

पूर्वकारिका से जो कथित कर्म में लकारादि प्रत्ययों का विधान

किया सो किसी किसी आचार्य का मत है । अब तीसरी कारिका से पाणिनिजी का मत दिखलाते हैं—

२४-का०-कथितेऽभिहिते त्वविधिस्त्वमतिगुणकर्मणि
लादिविधिः सपरे । ध्रुवचेष्टितयुक्तिषु चाप्यगुणे तदनल्पमते-
र्चचनं स्मरत ॥ २४ ॥

जो कथित कर्म में लकारादि प्रत्यय होते हैं यह तुम्हारी बुद्धि से तुमने विधान किया है ॐ । परन्तु पाणिनीजी के मत से तो गौण अर्थात् अकथित कर्म में लकारादि प्रत्यय होने चाहिये । इसी प्रकार— “गतिबुद्धि०” इस आगे के सूत्र में [भी] गौण कर्म में लकारादि प्रत्यय होते हैं । गौर्दुह्यते पयः, गौर्दोग्धव्या पयः, गौर्दुग्धा पयः, गौः सुदोहा पयः, इत्यादि । जहां अप्रधान गौ कर्म में लकारादि प्रत्यय होते हैं वहां अभिहित होने से प्रथमा और पयः के अनभिहित होने से द्वितीया विभक्ति होती है । तथा (ध्रुवयुक्ति) अकर्मक और (चेष्टितयुक्ति) गत्यर्थक धातुओं के (अगुणे) [मुख्य अर्थात्] कथित कर्म में लकारादि प्रत्यय होने चाहिये । जैसे—अकर्मक-आसितव्यो देवदत्तो यज्ञदत्तेन, गत्यर्थक-अजा नेतव्या ग्रामम् । महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि कहते हैं कि हे वैयाकरण लोगो ! अगाध बुद्धि वाले पाणिनि आचार्य का यह मत है, तुम लोग जानो । अब जो मत अन्य बहुत आचार्यों का है, सो चौथी कारिका से दिखाते हैं—

२५-का०-प्रधानकर्मण्याख्येये लादीनाहुर्द्विकर्मणाम् ।

अप्रधाने दुहादीनां गन्ते कर्त्तुश्च कर्मणः ॥

१ । ४ । ५१ ॥

ॐ यह संकेत इन लोगों की ओर है कि जिनका मत प्रथम कारिका से कथित कर्म में लकारादि प्रत्ययों का होना विज्ञाप्य है ।

जो द्विकर्मक धातु हैं उनके प्रधान = कथित कर्म में लकारादि प्रत्यय होने चाहिये । जैसे—अजां नयति प्रामम्, अजा नीयते प्रामम्, अजा नीता प्रामम् । यहां प्रधान कथित अजा कर्म है, उस में लकारादि के होने से प्रथमा विभक्ति और प्राम में अनभिहित होने से द्वितीया होती है । तथा दुहादि अर्थान् जां धातु प्रथम कारिका में गिनाये हैं उन के अकथित अर्थात् गौण कर्म में लकारादि प्रत्यय होने चाहिये । इस के उदाहरण देखे हैं । और ग्यन्तावस्था में जिन धातुओं के जिस कर्त्ता की कर्म संज्ञा होती है, उन के उसी कर्म में लकारादि प्रत्यय होने चाहिये । जैसे—यज्ञदत्तो गच्छति प्रामम् । यहां यज्ञदत्त गमधातु का प्रथम स्तन्त्र कर्ता और प्राम कर्म है । जब उस का ग्यन्तवस्था में प्रयोजक कर्ता देवदत्त होता है तब यज्ञदत्त की कर्म संज्ञा हो जाती है । देवदत्तो यज्ञदत्तं प्रामं गमयति । यहां अप्रधान यज्ञदत्त है उसी में लकार होने से—देवदत्तेन यज्ञदत्तो प्राम गम्यते । यहां गौण कर्म यज्ञदत्त में प्रथमा विभक्ति होती है और प्राम में द्वितीया हो जाती है । यह चौथी कारिका से जो लकारादि प्रत्यय विधान में व्यवस्था की है सो बहुत ऋषि लोगो का सिद्धान्त है । इससे यही व्यवस्था सब से बलवान् है ।

जो प्रथम कारिका में कहे हैं, उन से भिन्न द्विकर्मक धातु कितने हैं सो पांचवीं कारिका से दिखाते हैं ।

२६—का०—नीवद्धोर्हरतेश्चाऽपि गत्यर्थानां तथैव च ।

द्विकर्मकेषु ग्रहणं द्रष्टव्यमिति निश्चयः ॥१॥४॥५॥

नी, वहि, हरति और ग्यन्तावस्था में जिनका कर्त्ता कर्म होता है, वे सब द्विकर्मकों में गिने जाते हैं । अकर्मक धातु सकर्मक कैसे होते हैं, यह विषय छठी कारिका से दिखाते हैं—

२७-का०-कालभावाध्वगन्तव्याः कर्मसंज्ञा ह्यकर्मणाम्
॥ १ । ४ । ५१ ॥

[अकर्मक धातुओं के] काल = क्षण आदि, भावः = होना, अध्वगन्तव्य = चलने योग्य मार्ग, ये तीनों कर्म हो जाते हैं। जैसे काल-मासमास्ते, मासं स्वपिति। अयुक्त एक मास बैठा रहता है और एक मास सोता है, यहां महीना कम हो गया। प्रयोजन यह है कि एक महीना बैठ के काटता है और एक महीना सोके काटता है तो बैठने और सोने का कर्म महीना हो गया। भाव-गोदोहमास्ते, गोदोहं स्वपिति। यहां गौ का जो दोहना भाव है वही उसके बैठने और सोने का कर्म है। अध्वगन्तव्य-क्रोशमास्ते, क्रोशं स्वपिति। सवारी में बैठ के मार्ग में चलता हुआ मनुष्य कोश भर बैठा, कोश भर सोया। अर्थात् जो दो कोश बैठने और सोने में मार्ग व्यतीत किया वही बैठने सोने का कर्म हो गया है।

२८-वा०-देशश्चाकर्मणां कर्मसंज्ञो भवतीति वक्तव्यम् ॥
१ । ४ । ५१ ॥

इस वार्तिक से अकर्मक धातुओं का देश भी कर्म सहायक होता है। जैसे-पञ्चालान् स्वपिति। कोई विमान आदि यान में बैठा हुआ

ः यहां भाव = भवनं = भूति भवति देवदत्तः। जीते भावावाची भाव आदि शब्द भवति-क्रिया के कर्म होने से मू धातु सकर्मक हो जाता है ऐसे सब अकर्मक धातुओं की व्यवस्था जाननी। देवदत्त पृथग्भेदते, इत्यादि। यहां। कृद्विहितो भावो द्रव्यव्रजवति ॥ महामास्य भ० ३। पा० १। सू० ६९। कहा है कि जो तत्पदादि मास्यों से कथित भाव है वह द्रव्य के समान होता है ॥

पंजाय' देश भर सोता ही चला गया। उसके सोने का कर्म पंजाब देश हो गया।

२६-का०-विपरीतं तु यत् कर्म तत्कल्म कवयो विदुः

॥ १ । ४ । ५१ ॥

इच्छिततम कर्म से भिन्न जो कर्म है उस को विद्वान् लोग कल्म कहते हैं। जिस के बीच में कर्म संज्ञा के सब काम नहीं किये जाते किन्तु केवल द्वितीया विभक्तिमात्र ही की जाती है तथा जिस किसी में अन्य भी कमसंज्ञा के कार्य होते हो उस से जो दूसरा होता है वह विपरीत कम कहाता है, उसी को कल्म कहते हैं जैसे-भारं वहति ग्रामम्, यहा प्रधान जो भार कर्म है उस में तो कमे के सब कार्य होते हैं और ग्राम शब्द मे केवल द्वितीया विभक्ति होती है। इस से इस को कल्म संज्ञा है। [तथा "गा दोग्धि पय " यहा प्रधान कर्म तो पय है परन्तु लकारादि प्रत्यय विधान कर्म संज्ञा के कार्य हैं। वे गो शब्द में किये जाते हैं। इस से यहा पय शब्द को कल्म संज्ञा है]^१। यहा विशेष कल्म संज्ञा रखने के लिये कर्म शब्द के रेफ को लकारादेश "सञ्ज्ञा छन्दसो"^२ इस वार्तिक से संज्ञा मान के किया है।

१. वस्तुतः पञ्चाल नाम पंजाब का नहीं है। यह देश गंगा के पूर्व में उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत था। पु० मी०।

२. हमारा बिचार है उपर्युक्त कोष्ठान्तगत व्याख्या ठीक नहीं है। कल्म संज्ञा उसी भाचार्य ने की है, जिसके मत में क्रमाङ्क २२ की कारिका से प्रधान कर्म में लकारादि का विधान किया है और अप्रधान कर्म में नहीं। अतः कल्म संज्ञा बनाने वाले भाचार्य के मत में गो आदि अकथित की ही कल्म संज्ञा होती है। पु० मी०।

३. महा० ८ । २ । १८ ॥ पु० मी०।

३०-गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्ता
रणी ॥ अ० १ । ४ । ५२ ॥

गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक अर्थात् भोजनार्थक, शब्द-
कर्मक और अकर्मक, इन धातुओं का जो णिच् प्रत्यय के पहिले
कर्ता है वह णिच् के हुए पश्चात् कर्मसंज्ञक हो । गत्यर्थक-गच्छति
प्राभं देवदत्तो, गमयति प्राभं देवदत्तम्; याति प्राभं देवदत्तो, यापयति
प्राभं देवदत्तं यज्ञदत्तः । यहां णिच् के पहिले का जो कर्ता देवदत्त
है वह णिच् के पश्चात् कर्म संज्ञक हो के उस से द्वितीया हो जाती
है । बुद्ध्यर्थक-जानाति विप्रः शास्त्रम्, ज्ञापयति विप्रं शास्त्रम्;
बुद्ध्यते देवदत्तः शास्त्रम्, बोधयति देवदत्तं शास्त्रम् । प्रत्यवसाना-
र्थक-अभ्राति फलानि माणवकः, आशयति फलानि माणवकम्;
भुङ्क्ते ओदनं बालकः, भोजयत्योदनं बालकम् । शब्दकर्मक-ब्रूते धर्म
ब्राह्मणो, वाचयति धर्म ब्राह्मणम्; उपदिशति धर्म ब्राह्मणः, उपदेश-
यति धर्म ब्राह्मणम् । अकर्मक-स्वपिति बालः, स्थापयति धात्री
बालम्; पुत्रः शेते, माता पुत्रं शामयति । यहां सर्वत्र जो अस्यन्ता-
वस्था में कर्ता है वही णिच् में कर्म हो गया है । इस सूत्र में गत्य-
र्थादि धातुओं का ग्रहण इसलिये है कि “पचत्योदनं देवदत्तः,
पाचयत्योदनं देवदत्तेन” यहां कर्म संज्ञा के न होने से कर्ता में तृतीया
विभक्ति होती है । और अणिकर्ता ग्रहण इसलिये है कि “देवदत्तो
यज्ञदत्तं गमयति, तमन्यो गमयति देवदत्तेन । यहां णिच् के परे गम
धातु का कर्ता है सो दूसरे णिच् में कर्म संज्ञक नहीं होता ।

अथ आगे इस सूत्र के वार्तिक लिखते हैं ।

३१-वा०-दशैः सर्वत्र ॥ १ । ४ । ५२ ॥

सर्वत्र अर्थात् दोनों पक्षों में दश धातु का जो अस्यन्तावस्था

का कर्ता है वह अययन्तावस्था में कर्म संज्ञक होवे । पश्यति रूपतर्कः कार्पापणम्, दशेयति रूपतर्कं कापापणम् । यहां रूपतर्क शब्द की कर्म संज्ञा होती है ।

३२-वा०-अदिखादिनीवहीनां प्रतिषेधः ॥१।४।५२॥

अदि, खादि इन दो धातुओं के प्रत्यवसानार्थ होने और नी, वहि इन दो के गत्यर्थक होने से कर्म संज्ञा प्राप्त है इसलिये प्रतिषेध किया है । अद-अत्ति देवदत्त, आदयति देवदत्तेन । यहां अययन्त धातु के कर्ता देवदत्त की कर्म संज्ञा न होने से द्वितीया विभक्ति न हुई ।

तथा बहुत आचार्यों का ऐसा मत है कि—

३३-अपर आह—सर्वमेव प्रत्यवसानकार्यमदेर्न भवतीति वक्तव्यं, परस्मैपदमपि । इदमेकमिष्यते—क्तोऽधिकरणे च ध्रौव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्य इति ॥ १ । ४ । ५२ ॥

प्रत्यवसानार्थ धातुओं को जितना कार्य होता है उस में से अद धातु को कुछ भी न हो । तथा निगरणार्थ मान के जो परस्मैपद # प्राप्त है वह भी न हो । अत्ति देवदत्तः, आदयते देवदत्तेन । यहां आत्मनेपद होता है । प्रत्यवसानार्थ का एक कार्य अद धातु को होना चाहिये—इदमेवा जग्धम् † ।

है—शब्द जिनकी क्रिया है अथवा शब्द जिनका कर्म है । सर्वत्र शब्द से इन दोनों पक्षों का ग्रहण है । यु० मी० ।

‡ परस्मैपद—' निगरणचलनार्थेभ्यश्च' (अ० १ । ३ । ८७) इस सूत्र में निगरणार्थ शब्द प्रत्यवसानार्थ का पर्यायवाची है और प्रत्यवसान तथा निगरण इन दोनों का शब्द भेद होने से "परस्मैपदमपि" यह कहा है, नहीं तो प्रत्यवसान के कहने से ही जाता ।

(जग्धम्) जहाँ अद धातु के प्रत्यवसानार्थ होने से अधिकरण

खादति देवदत्तः, खादयति देवदत्तेन । यहाँ भी अणि के कर्ता देवदत्त शब्द की कर्म संज्ञा न हुई । नी-नयति भारं देवदत्तः, नाययति भारं देवदत्तेन । यहाँ नी धातु के कर्ता देवदत्त की कर्म संज्ञा न होने से उस में द्वितीया न हुई । वह-वहति भारं देवदत्तः, वाहयति भारं देवदत्तेन । यहाँ सर्वत्र णिच् में कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होती—परन्तु वह धातु में इतना विशेष है कि—

३४-वा-* वहेरनियन्तृकर्तृकस्य ॥ १ । ४ । ५२ ॥

यहाँ पूर्व वार्तिक से निषेध की अनुवृत्ति बली आती है । नियन्ता अर्थात् सारथि वह जहाँ धातु का कर्ता न हो, वहाँ कर्म संज्ञा का निषेध हो, अन्यत्र नहीं । जैसे—वहति भारं देवदत्तः, वाहयति भारं देवदत्तेन । जहाँ कोई नियन्ता कर्ता होता है वहाँ कर्म संज्ञा का प्रतिषेध नहीं होता । यथा वहन्ति बलीवर्दा यवान्, वाहयति बलीवर्दान् यवान् † । यहाँ कर्म संज्ञा होके द्वितीया विभक्ति हो जाती है ।

कारक में क प्रत्यय [का] विधान है सो प्रत्ययज्ञान के सब कार्यों के निषेध में इसका भी निषेध पाया था । “एयाम्” यह कर्म में पड़ी और “जग्धम्” अधिकरण में क प्रत्यय है । “इदमेकमिष्यते” इस से निषेध का निषेध किया है ।

ॐ पूर्व वार्तिक के सामान्य अर्थ में वह धातु के अणि कर्ता की कर्म संज्ञा का प्रतिषेध है । हम वार्तिक से उसी का नियम करते हैं कि वह निषेध, नियन्ता जहाँ कर्ता हो वहाँ न लगे ।

† यहाँ [अण्यन्त अवयवा में] प्रेरक हाँकने वाले की विवक्षा नहीं है, इसलिये वाहन क्रिया के स्वतन्त्र कर्ता धैक हो गये । [जब उनको हाँकने वाले की विवक्षा होती है, तब ण्यन्त में बलीवर्द की कर्म संज्ञा हो जाती है] ।

३५-वा-‡ भक्षेरहिसार्थस्य ॥ १ । ४ । ५२ ॥

यहा भी पूर्व वाक्तिक से "प्रतिपेयः" इस पद की अनुवृत्ति चली आती है। जो हिंसाथे से भिन्न अर्थ में वर्तमान भक्ष धातु [है] उस का अणि में जो कर्ता उसकी णिच् में कर्म सज्ञा न हो। जैसे-भक्षयति पिएडीं देवदत्तः। भक्षयति पिएडीं देवदत्तेन। इस वाक्तिक में हिंसार्थ का निषेध इसलिये कि "भक्षयति बलीवर्दान् यवान्" खेत के छोटे छोटे जौ बौलों से चराता है। यहा खेत वाले का हिंसा समझी जाती है क्योंकि खेत ही से उसका जीवन है। इससे कर्म सज्ञा का निषेध नहीं हुआ।

३६-वा०-अकर्मकग्रहणे कालकर्मणामुपसंख्यानम् ×

॥ १ । ४ । ५२ ॥

जो अकर्मक धातुओं का सूत्र में ग्रहण है वहां कालकर्म वाले धातुओं का भी ग्रहण समझना चाहिये। जैसे—मासमासते देवदत्तः, मासमासयति देवदत्तम्। यहा मास प्रथम कर्म है अणि के कर्ता देवदत्त की कर्म संज्ञा हाके द्वितीया विभक्ति हो गई है।

३७-हृक्प्रोरन्यतरस्याम् ॥ ३७ ॥ अ० १ । ४ । ५३ ॥

ह्र और कृ धातु का जो अण्यन्तावस्था कर्ता है वह अण्यन्तावस्था में विकल्प करके कर्म सज्ञक हो। जैसे—अभ्यवहारयति सैन्धवान् सैन्धवैर्वा, विकारयति सैन्धवान् सैन्धवैर्वा ॥

‡ यह वाक्तिक सूत्र से ही संबन्ध रखता है। भक्ष धातु के प्रायक-सामार्थ होने से सामान्य अर्थों में भक्ष धातु के अणिकर्ता की कर्म सज्ञा प्राप्त है। सो यहां हिंसा अर्थात् पीडा पहुँचाना अर्थ हो वहीं अणिकर्ता की कर्म सज्ञा हो और अहिंसा में निषेध हो जाये।

× कालकर्म वाले धातु अकर्मकों के समान समझे जाते हैं, इसलिये अकर्मकों के साथ इन का उपसंख्यान किया है।

ॐ धातुओं के अनेकार्थ होने से कई अर्थों में कर्मसज्ञा प्राप्त है और

३८-वा०-हंक्रोर्वावचनेऽभिवादिदृशोरात्मनेपद उप-

संख्यानम् ॥ १ । ४ । ५३ ॥

जो अभि पूर्वक वद और दृश धातु का अणि में कता है वह अयन्तावस्था में कर्म संज्ञक विकल्प करके हो, आत्मनेपद में । जैसे-अभिवदति गुरुं देवदत्तः, अभिवादयते गुरुं देवदत्तेन देवदत्तं वा, पश्यन्ति भृत्या राजानं, दर्शयते भृत्यै राजा, दर्शयते भृत्यान् राजा । यहां अभि पूर्वक वद धातु शब्दकर्मक और दृश धातु बुद्धवर्थक है वहां तो पूरे सूक्त से कर्मसंज्ञा प्राप्त थी, अन्य अर्थ में नहीं । इस वार्तिक से सबेरे विकल्प करके हो जाती है । इसी से यह प्राप्ताप्राप्त विभाषा कहाती है ।

[३-करण कारक]

३६-साधकतमं करणम् ॥ अ० १ । ४ । ४२ ॥

जो क्रिया की सिद्धि करने में मुख्य साधक हो, वह फारक करण संज्ञक हो । इसका फल—

४०-कर्णकरणयोस्तृतीया ॥ अ० २ । ३ । १८ ॥

अनभिहित कर्ता और करण कारक में तृतीया विभक्ति हो । कर्ता-जैसे-देवदत्तेन कृतम्, देवदत्तेन क्रियते । देवदत्त ने किया, यहां देवदत्त कर्ता [है] । करण-दात्रेण ययान् लुनाति, परशुना काष्ठं पृथ्नि ऋ इत्यादि । दरांति से जवों को काटता और कुल्हाड़े से लपड़ी को काटता है, यहां दरांति और कुल्हाड़ा करण हैं ।

कई में नहीं । जीव-अभ्यस भीर आहूर्णक इ धातु माधवसानार्थक है वही प्राप्त है, अभ्यस नहीं, तथा विरुषक शृषातु कर्णकर्मक भीर नहीं अहर्मक है वहां प्राप्त, अभ्यस अयास । इन प्रकार यह प्राप्ताप्राप्त विभाषा है ।

७ वही (लुनाति) घेन का लुपना भीर (कर्षति) कृष का

४१-वा०-तृतीयाविधाने प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम् ॥

२ । ३ । १८ ॥

प्रकृति आदि शब्दों से भी तृतीया विभक्ति हो । प्रकृत्या दर्शनीयः । यह स्वभाव से देखने योग्य है । प्रायेण वैयाकरणः । यह कुल्लेक व्याकरण भी पढ़ा है इत्यादि । यहां अनभिहित कता करण कारकों के न होने से तृतीया विभक्ति नहीं प्राप्त थी, सो इस धार्तिक से विधान की है । प्रकृति आदि शब्द बहुत हैं, सो अष्टाध्यायी महाभाष्य के पढ़ने से आवेंगे ॐ ।

४२-सहयुक्तेऽप्रधाने ॥ अ० २ । ३ । १९ ॥

सह शब्द युक्त अप्रधान कर्ता कारक में तृतीया विभक्ति होती है । जैसे-पुत्रेण सहागतः पिता । पुत्र सहित पिता आया इत्यादि । यहाँ पुत्र अप्रधान है उस में तृतीया विभक्ति हो गई प्रधान पिता में न हुई ।

४३-येनाङ्गविकारः ॥ अ० २ । ३ । २० ॥

जिस अङ्ग अवयव से शरीर का विकार जाना जाय, उस अवयव में तृतीया विभक्ति हो । जैसे-शिरसा खल्वाटः, अक्षणा काणः । यह शिर से खल्वाट और आंख से काणा है इत्यादि ।

४४-इत्थंभूतलक्षणे ॥ अ० २ । ३ । २१ ॥

काटना इन क्रियाओं के मुख्य साधन दात्र और कुल्हाड़ी हैं, इन के बिना टक किया कदाचिन् नहीं हो सकती ।

† यहां से ले के तृतीया विभक्ति विधायक प्रकरण में जो कुछ सूत्र धार्तिक हैं वे अर्थात् विधायक इसलिये समझे जाते हैं कि टक में तृतीयक किसी से प्राप्त नहीं है । ॐ प्रकृति आदि शब्दों का संग्रह गणपाठ में (२१वां गण पृष्ठ १२) में देखो । पृ० भी० ।

इत्थंभूत अर्थात् इस प्रकार का वह है, इस अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से तृतीया विभक्ति होवे। जैसे—अपि भवान् मेखलया ब्रह्मचारिणमद्राक्षीत्, धर्मेण सुखम्, पापेन दुःखम् इत्यादि। यहां मेखला शब्द से ब्रह्मचारी का स्वरूप, धर्मे से सुख और पाप से दुःख जाना जाता है। इत्थंभूत से भिन्न में तृतीया विभक्ति न हो। जैसे—वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत् इत्यादि।

४५—संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि * ॥४५॥ अ० २। ३। २२॥

संपूर्वक ज्ञा धातु के अनभिहित कर्म में तृतीया विभक्ति विकल्प कर के होवे, पक्ष में द्वितीया हो। मात्रा संजानीते बालः, मातरं संजानीते बालः।

४६—हेतौ ॥ ४६ ॥ अ० २। ३। २३ ॥

हेतुवाची शब्द में तृतीया विभक्ति हो। विद्यया यशः †। विद्या से कीर्ति होती और—धनेन दानम्। धन से दान होता है इत्यादि।

४७—या०—निमित्तकारणहेतुषु सर्वासां प्रायदर्शनम् ॥४७॥

निमित्त कारण और हेतु इन तीन शब्दों और इन के सम्बन्धी शब्दों से सब विभक्ति बहुल करके होती हैं। जैसे—[निमित्त-] किं निमित्तं वसति, पठति, गच्छति, आयाति, करोति, तिष्ठति, इत्यादि। फेन निमित्तेन, कस्मै निमित्ताय, कस्मान्निमित्तात्, कस्य

* यहां अनभिहित कर्म में द्वितीया ही प्राप्त है तृतीया नहीं, इस कारण यह अप्राप्त विभाषा है। और उसी द्वितीया का अपवाद यह तृतीया समझी जाती है। पक्ष में द्वितीया भी होती है।

† हेतु उसको कहते हैं कि जिस के साथ जिसका प्रयोग हो उसका निमित्त कारण समझा आवे, यहां भी विद्या यश का निमित्त कारण

निमित्तस्य, कस्मिन्निमित्ते च । कारण-किङ्कारणम्, फेन कारणेन, कस्मै कारणात्, कस्मात् कारणात्, कस्य कारणस्य, कस्मिन् कारणे च वसति । हेतु-को हेतुः, कं हेतुम्, फेन हेतुना, कस्मै हेतवे, कस्माद्धेतो, कस्य हेतो, कस्मिन् हेतौ च वसतीत्यादि † ।

४८-अकर्तर्यणो पञ्चमी ॥ ४८ ॥ अ० २।३।२४ ॥

ऋण अर्थ में कर्ता भिन्न हेतु वाची शब्दों से पञ्चमी विभक्ति हो । जैसे-शताद् बद्धः इत्यादि । ऋणी को सौ रुपये ऋण होने के कारण ऋण वाले ने बांधा । यहां 'अकर्तरि' प्रहण इसलिये है कि- "शतेन बन्धितः" यहां सौ रुपयों से बंधवाया । इस प्रयोजक कर्ता की विवक्षा होने से पञ्चमी विभक्ति न हुई ।

४९-विभाषा गुणोऽस्त्रियाम् ॥ अ० २ । ३ । २५ ॥

स्त्रीलिङ्ग को छोड़ के पुलिङ्ग वा नपुंसक लिङ्ग में वर्तमान जो गुणवाची हेतु शब्द उससे विकल्प करके पञ्चमी विभक्ति हो । जैसे-मौढ्याद् बद्धः, मौढ्येन बद्धः इत्यादि । यह मूर्खे जन अपनी मूर्खता से आप ही बंधा है । यहां स्त्रीलिङ्ग का निषेध इसलिये किया है कि "प्रज्ञया पूजित" इत्यादि यहां पञ्चमी विभक्ति न हो ।

५०-पृष्ठी हेतुप्रयोगे ॥ अ० २ । ३ । २६ ॥

हेतु शब्द के प्रयोग में पृष्ठी विभक्ति हो । जैसे-विद्याया हेतौ-गुरुकुले वसति इत्यादि । विद्या-प्रहण के हेतु से यह प्रहणकारी गुरुकुल में बसता है ।

५१-सर्वनामस्तृतीया च ॥ अ० २ । ३ । २७ ॥

† निमित्त कारण और हेतु शब्दों से सब बचन, यथायोग्य सब कारक और क्रिया भी होती है । परन्तु इस बचन का मुख्य प्रयोजन भाषा लोगों के प्रयोग विषय में साफ़र दर्शाना है ।

सर्वनाम वाची विशेषण सहित हेतु शब्द के प्रयोग में तृतीया और पद्मी विभक्ति हों। जैसे—केन हेतुना कस्य हेतोर्वा वसति इत्यादि। यह जन किस हेतु से बसता है।

अन्य करण सज्ञा में जो विशेष सूत्र हैं सो लिखते हैं—

५२—दिवः कर्म च ॥ अ० १ । ४ । ४३ ॥

ॐ पूर्व सूत्र से नित्य करण सज्ञा प्राप्त थी, उसका बाधक यह यह सूत्र है। जा दिवु धातु के प्रयोग में साधकतम अर्थात् क्रिया की सिद्धि में मुख्य हेतु कारक है वह कर्म सज्ञक और चकार से करण सज्ञक भी हो। जैसे—अज्ञानत्तैर्वा दीव्यति इत्यादि। † पासों से खेलता है।

५३—परिक्रयणे सप्रदानमन्यतरस्याम् ॥ अ० १ । ४ । ४४ ॥

यहा भी “साधक०” (कार० ३९) इस पूर्व सूत्र से नित्य करण सज्ञा पार्ता थी, सो इस सूत्र से करण और पक्ष में सप्रदान सज्ञा की है। परिक्रयण अर्थात् जो सब प्रकार खरीदने अर्थ में साधकतम कारक है, वह सप्रदान सज्ञक विकल्प करके हो और पक्ष में करण सज्ञक हो। जैसे—शताय शतन वा परिक्रीणाति इत्यादि। सो रुपया से खरीदता है।

ॐ (पूर्वसूत्र) साधकतम करणम् (सूत्र ३९) ।

† इत्यादि सूत्रों के उदाहरणों में केषळ करण सज्ञा ही के तृतीया विभक्ति प्राप्त थी, उसके ये सूत्र अपवाद हैं। बहुव्यापक उत्सर्ग और अल्प व्यापक अपवाद सज्ञक [होते हैं] उत्सर्ग सूत्रों ही के विषय में अपवाद सूत्र प्रवृत्त होते और अपवाद सूत्रों के विषय में उत्सर्ग सूत्र प्रवृत्त नहीं होते, किन्तु अपवाद विषयों की ओर के उत्सर्ग सूत्रों की प्रवृत्ति होती है। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिये [देखो पारिभाषिक, परिभाषा ५५-५७]

[४-सम्प्रदान कारक]

५४-कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम् ॥ अ० १।४।३२ ॥
अत्यन्त इष्ट पदार्थ समस्त के जिसके लिये देने का अभिप्राय
किया जाय वह कारक सम्प्रदान संज्ञक होवे । इसका फल—

५५-चतुर्थी सम्प्रदाने ॥ अ० २।३।१३ ॥

सम्प्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति हो । जैसे—शिष्याय विद्या
ददाति ॥ इत्यादि । व्याचार्य शिष्य को विद्या देता है ।

५६-वा०-† चतुर्थीविधाने तादर्थ्य उपसंख्यानम्
॥ २।२।१३ ॥

तादर्थ्ये अर्थात् जिस कार्य के लिये कारणवाची शब्द का
प्रयोग किया हो, उस कार्यवाची शब्द से चतुर्थी विभक्ति होवे ।
जैसे—यूपाय दारु, कुण्डलाय हिरण्यम् इत्यादि । यह स्वभा के लिये
काष्ठ और कुण्डल के लिये सोना है ।

५७-वा०-कल्पि-सपद्यमाने ॥ २।२।१३ ॥

जो कल्पि धातु का उत्पन्न होने वाला कारक है उसमें चतुर्थी
हो । जैसे—मूत्राय कल्पते यवागू, विद्याये कल्पते बुद्धिमान् इत्यादि ।
मूत्र के उत्पन्न करने में यवागू और विद्या पढ़ने के लिये बुद्धिमान्
समर्थ होता है ।

५८-वा०-उत्पातेन ज्ञाप्यमाने ॥ २।२।१३ ॥

॥ यहाँ अत्यन्त इष्ट पदार्थ विद्या है इसीसे उसकी कर्म संज्ञा हा के
द्वितीया हुई है । और विद्या जिस शिष्य के लिये देने का अभिप्राय है
उसी की सम्प्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी होती है ।

† यहाँ से भागे चतुर्थी विधान प्रकरण में जितने सूत्र दार्ढिक लिखेंगे,

आकाश से बिजली के चमकने और ओले पत्थर आदि गिरने को उत्पात कहते हैं। उस उत्पात से जो बात जानी जावे वहां चतुर्थी विभक्ति होवे। जैसे—घाताय कपिला विद्युदातपायाति-लोहिनी। कृष्णा सर्वाविनाशाय दुर्भिक्षाय सिता भवेत् ॥ पीली बिजली जो चमके तो वायु अधिक चले, इत्यादि।

५६-वा०-हितयोगे च ॥ २ । २ । १३ ॥

हित शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति हो। जैसे—हितमरोचकिने पाचनम्, इत्यादि। जिस की रुचि भोजन पर न हो उसके लिये पाचन औषध हितकारी है।

६०-क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः ॥ अ० २ ।

३ । १४ ॥

अनभिहित कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति पाती थी, उसका अपवाद यह सूत्र है। जहां क्रिया के लिये क्रिया हो, वहां अप्रयुज्यमान धातु के अनभिहित कर्म कारक में चतुर्थी विभक्ति हो। जैसे—वृकेभ्यो व्रजति, वृकान् हन्तुं व्रजति इत्यादि। भेड़ियों को मारने जाता है, यहां जो वृकों को मारना क्रिया है सो हन धातु अप्रयुज्यमान है। यहां कर्म ग्रहण इसलिये है कि—“वृकेभ्यो व्रजत्यश्वेन” अश्व शब्द में चतुर्थी न हो। और स्थानिग्रहण इसलिये है कि—“वृकान् हन्तुं व्रजति” यहां प्रयुज्यमान के होने से चतुर्थी विभक्ति नहीं हुई।

६१-तुमर्थाश्च भाववचनात् ॥ अ० २ । ३ । १५ ॥

जहां अप्रयुज्यमान क्रियार्थोपपद धातु के कर्म का वाची तुमर्थ-

उपमें संप्रदान संज्ञा के न होने से चतुर्थी प्राप्त नहीं, क्योंकि यहां कर्म से किसी का अभिप्राय सिद्ध नहीं किया जाता। इसलिये यह सूत्र प्रकरन है।

भाववचन प्रातिपदिक हो, वहां उस से चतुर्थी विभक्ति हो। जैसे—
इष्टये व्रजति ऋ, इष्टि कर्तुं व्रजति इत्यादि। पौरुषमासी आदि में
होम करने को जाता है। यहां तुमर्थ ग्रहण इसलिये है कि—‘पाकं
करोति’ वहा चतुर्थी न हो।

६२—नमःस्वस्तिस्वाहास्वधाऽलं वपडयोगाच्च ॥

अ० २ । ३ । १६ ॥

नमस्, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम् और वपद्, इन शब्दों के
याग में चतुर्थी विभक्ति होवे। नमस्ते रुद्र मन्यवे, स्वस्ति शिष्याय,
अग्नये स्वाहा, स्वधा पितृभ्य, अल मल्लो मल्लाय, वपडिन्द्राय इत्यादि †

६३—वा—अलमिति पर्याप्त्यर्थग्रहणं कर्तव्यम् ॥

२ । ३ । १६ ॥

अलं शब्द से सामर्थ्यवाचक का ग्रहण होना चाहिये। क्योंकि ‡

ऋ यहां इष्टि शब्द क्रियार्थोपपद करोति धातु का भाववचन कर्म
है, और व्रजन क्रिया इष्टि, संपादन के लिये है इसी से इसको क्रियार्थ
क्रिया कहते हैं।

† प्राण के लिये नमः = भज । अग्नि में स्वाहा = सस्कृत हवि ।
पितरों अर्थात् पिता भादि ज्ञानियों से स्वधा = अर्थात् अपने योग्य
सुशिक्षा। मल्ल को जीतने में मल्ल ही समर्थ। इन्द्र विजली की बिचा
ग्रहण करने के लिये उत्तम क्रिया अच्छी होती है ।

‡ पूर्व सूत्र में जो अल शब्द पड़ा है उसी का शेष यह धार्तिक है ।
अल शब्द के चार अर्थ हैं—भूषण, पर्याप्ति अर्थात् सामर्थ्य, समाप्ति और
निषेध । इन सब अर्थों में इसके योग में चतुर्थी प्राप्त थी, सो निषम हो
गया कि अल पर्याप्ति अर्थ में हो तो भयवा पर्याप्त्यर्थवाचक अन्य शब्दों
के योग में भी हो जाये ।

संप्रदान सज्ञा में कर्म प्रहण इसलिये है कि "स्नातकाय कन्या ददाति" इत्यादि । ब्रह्मचर्यव्रत से पूर्णविद्या पढ़े हुए सुशील पुरुष को कन्या देता है । यहा कन्या की संप्रदान सज्ञा न हो जावे । "य" और "स" इन दो शब्दों का प्रहण इसलिय है कि-अप्राप्त की संप्रदान सज्ञा न हो जावे । अर्थात् दिया था, देता है और देगा, अन्यथा अभि प्र न हों तो वर्तमान काल ही में संप्रदान सज्ञा होती, अन्यत्र नहीं ।

६६—वा०—कर्मणः करणसंज्ञा वक्तव्या, संप्रदानस्य च कर्मसंज्ञा ॥ १ । ४ । ३२ ॥

इस वातिक से कर्म की तो करण और संप्रदान की कर्म सज्ञा होती है । जैसे—पशुना रुद्रं यजते, पशु रुद्राय ददातीत्यर्थ इत्यादि । रुद्र अर्थात् मध्य विद्वान् को पशु देता है । यहा पशु तो कर्म है, उस को करण सज्ञा हो के तृतीया विभक्ति हो गई । रुद्र नाम किसी मध्यम विद्वान् को पशु देता है ।

६७—रुच्यर्थाना प्रीयमाणः ॥ अ० १ । ४ । ३३ ॥

जो रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग में लृप्त होने वाला कारक है वह संप्रदान सज्ञक हो । जैसे—ब्रह्मचारिणे रोचते विद्या इत्यादि । ब्रह्मचारी अर्थात् नियमपूर्वक विद्या पढने वाला मनुष्य विद्या से प्रसन्न

१ यह 'कर्मणा यममिप्रैति' (का० ५४) सूत्र की व्याख्या - रोष भाग है । यु० मी० ।

‘अलं कुरुते कन्याम्’ यहां भूषण अर्थ में चतुर्थी विभक्ति न हो और
 ‘प्रमुर्महो मल्लाय’ ‘प्रभवति महो मल्लाय’ यहां अलं के पर्यायवाची
 प्रमु और प्रभवति शब्द के योग में भी चतुर्थी विभक्ति हो जावे ।

६४—मन्यः कर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु ॥

अ० २ । ३ । १७ ॥

इस सूत्र में मन्य निर्देश दिवादि गण के मन धातु का किया
 है । जहां मन्य धातु के अप्राणि वाची अनभिहित कर्म में तिरस्कार
 अर्थ विदित होता हो तो वहां विकल्प कर के चतुर्थी विभक्ति हो,
 पक्ष में द्वितीया । त्वा तृण मन्ये, त्वां तृणाय मन्ये इत्यादि । मैं तुम्ह
 को तृण की तुल्य मानता हूँ, यह तिरस्कार है । यहां दिवादि विक-
 रण के ग्रहण से “त्वा तृण मन्ये” यहां चतुर्थी नहीं होती । यहां
 मन्य कर्म ग्रहण इसलिये है कि “त्वा तृण जानामि” यहां चतुर्थी
 न हो । अनादर ग्रहण इसलिये है कि “वाचं मन्ये सरस्वतीम्”
 यहां चतुर्थी न हो और अप्राणि ग्रहण इसलिये है कि “काक मन्ये
 त्वाम्” इत्यादि में चतुर्थी विभक्ति न हो ।

६५—वा०—अनावादिध्विति वक्तव्यम् ॥ २ । ३ । १७ ॥

जो इस सूत्र में अप्राणी का ग्रहण किया है उसके स्थान में
 वार्तिकरूप “अनावादिषु” ऐसा न्यास करना चाहिये । क्योंकि
 कहीं २ प्राणी वाची मन्य धातु के कर्म में भी चतुर्थी होती है ।
 जैसे—न त्वा श्वान मन्ये, न त्वा शुने मन्ये इत्यादि । मैं तुम्हें कुत्ते
 के समान भी नहीं मानता ।

ः यहां मन्य धातु से अनभिहित कर्म में केवल द्वितीया विभक्ति ही
 पाती है, उसी का वाचक यह सूत्र है, और इसलिये यह अप्राण विभाषा
 कहाती है ।

‘संप्रदान संज्ञा में कर्म ग्रहण इसलिये है कि। “स्नातकाय कन्यां ददाति” इत्यादि। ब्रह्मचर्यव्रत से पूर्णविद्या पढ़े हुए सुशील पुरुष को कन्या देता है। यहां कन्या की संप्रदान संज्ञा न हो-जावे। “यं” और “स” इन दो शब्दों का ग्रहण इसलिये है कि-अप्राप्त की संप्रदान संज्ञा न हो जावे। अर्थात् दिया था, देता है और देगा, अन्यथा अभि प्र न हों तो वर्तमान काल ही में संप्रदान संज्ञा होती, अन्यत्र नहीं।

६६—वा०—कर्मणः करणसंज्ञा वक्तव्या, संप्रदानस्य च कर्मसंज्ञा ॥ १ । ४ । ३२ ॥

इस वार्तिक से कर्म की तो करण और संप्रदान की कर्म संज्ञा होती है। जैसे—पशुना रुद्रं यजते, पशुं रुद्राय ददातीत्यर्थः इत्यादि। रुद्र अर्थात् मध्यम विद्वान् को पशु देता है। यहां पशु तो कर्म है, उस को करण संज्ञा हो के तृतीया विभक्ति हो गई। रुद्र नाम किसी मध्यम विद्वान् को पशु देता है।

६७—रुच्यर्थानां प्रीयमाणः ॥ अ० १ । ४ । ३३ ॥

जो रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग में वृत्त होने वाला कारक है वह संप्रदान संज्ञक हो। जैसे—ब्रह्मचारिणे रोचते विद्या इत्यादि। ब्रह्मचारी अर्थात् नियमपूर्वक विद्या पढ़ने वाला मनुष्य विद्या से प्रसन्न

१. यह “कर्मणा यममिप्रेति” (का० ५४) सूत्र की व्याख्या का शेष भाग है। पु० मी० ।

२. महर्षि दयानन्द ने सप्तमार्थ प्रकाश आदि ग्रन्थों में वसु का अर्थ २४ वर्ष तक अध्ययन करने वाला, रुद्र का अर्थ ४४ वर्ष तक अध्ययन करने वाला और आदित्य का अर्थ ६८ वर्ष तक विद्याध्ययन करने वाला किया है। अतः यहां रुद्र का अर्थ मरण विज्ञान लिखा है। पु० मी० ।

और वृत्त होता है। यहां प्रीयमाण ग्रहण इसलिये है कि विद्या शब्द की संप्रदान संज्ञा न हो।

६८—श्लाघहनुडस्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः ॥ अ० १।४।३४ ॥

श्लाघ, हनुड्, स्था और शप्, इन धातुओं के प्रयोग में जिस को जनाने की इच्छा की जावे वह कारक संप्रदान संज्ञक होवे। जैसे—पुत्राय श्लाघते, जाराय हनुते, विद्यायै तिष्ठते, दुष्टाय शपते ः इत्यादि। यह स्त्री, पुत्र की प्रशंसा, व्यभिचारी को दूर करती, विद्या के लिये खड़ी और दुष्ट को शाप देती है। यहां ज्ञीप्स्यमान ग्रहण इसलिये है कि जिस को जनाने उसी की संप्रदान संज्ञा होवे, धर्म की न हो जाय। जैसे—पिता पुत्राय धर्मं श्लाघते इत्यादि।

६९—धारेरुत्तमर्णः ॥ अ० १।४।३५ ॥

जो किसी को ऋण देवे वह उत्तमर्ण कहाता है। जो एयन्त धृ धातु के प्रयोग में उत्तमर्ण कारक है वह संप्रदान संज्ञक हो। जैसे—देवदत्ताय शतं सहस्रं वा धारयति इत्यादि। देवदत्त के सौ वा हजार रुपैये ऋण यज्ञदत्त धरण करता है। यहां देवदत्त ऋण का देने वाला होने से उत्तमर्ण और यज्ञदत्त लेने वाला होने से अधमर्ण कहाता है। यहां शेष कारक के होने से पष्ठी विभक्ति पाती थी, उस का अपवाद संप्रदान संज्ञा हो के चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। उत्तमर्ण ग्रहण इसलिये है कि उस सौ वा हजार की संप्रदान संज्ञा न हो जाय।

७०—स्पृहेरीप्सितः ॥ अ० १।४।३६ ॥

जो स्पृह धातु के प्रयोग में ईप्सित अधातु जिस पदार्थ के ग्रहण की इच्छा होती है वह संप्रदान संज्ञक हो। जैसे—धनाय स्पृहयति

ः यहां हुष्ट को पुकारना है वह उसी को जनाया जाता है, इसलिये वह संप्रदान है।

इत्यादि । भोगी मनुष्य धन मिलने की इच्छा करता है । यहां धन उस को इष्ट है, इस से धन की सम्प्रदान संज्ञा हो के चतुर्थी विभक्ति हो गई । ईप्सित ग्रहण इसलिये है कि भोग के कर्त्ता की सम्प्रदान संज्ञा न हो जाय ।

७१-† क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रति कोपः ॥

अ० १ । ४ । ३७ ॥

क्रुध, द्रुह, ईर्ष्य, असूय, इन के तुल्यार्थ धातुओं के प्रयोग में जिस के प्रति कोप किया जाय, वह कारक सम्प्रदान संज्ञक हो । जैसे—क्रुध-द्रुष्टाय क्रुध्यति, द्रुह-शत्रवे द्रुह्यति, ईर्ष्ये-सपत्न्या ईर्ष्यति, असूय-विदुषेऽसूयति; राजा दुष्ट पर क्रोध, शत्रु से द्रोह, स्वपति की दूसरी स्त्री से अप्रीति और मूर्ख जन विद्वान् की निन्दा करता है । यहां जिस के प्रति कोप हो इस का ग्रहण इसलिये है कि “भिक्षुको भिक्षुरुमीर्ष्यति” इत्यादि में सम्प्रदान संज्ञा न हो ।

७२-क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म ॥ अ० १ । ४ । ३८ ॥

पूर्व से सम्प्रदान संज्ञा प्राप्त थी, उस का बाधक यह सूत्र है । है । उपसर्ग युक्त क्रुध और द्रुह धातु के प्रयोग में जिस के प्रति कोप हो वह कारक कर्म संज्ञक हो । जैसे—द्रुष्टमभिक्रुध्यति, अभि-द्रुह्यति वा इत्यादि । यहां उपसर्ग युक्त का ग्रहण इसलिये है कि “द्रुष्टाय क्रुध्यति, द्रुह्यति वा” इत्यादि में कर्म संज्ञा न हो जाय ।

७३-राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः ॥ अ० १ । ४ । ३९ ॥

राध और ईक्ष धातु के प्रयोग में जिस का विविध प्रकार का प्रश्न हो वह कारक सम्प्रदान संज्ञक हो । जैसे—शिष्याय विद्यां राध्नाति, ईक्षते वा गुरुः इत्यादि । आचार्य विद्यार्थी के लिये विद्या

को सिद्ध और प्रत्यक्ष कराता है। यहां राघ और ईत्त धातु का ग्रहण इसलिये है कि इनके योग से अन्यत्र संप्रदान संज्ञा न हो। “यस्य” ग्रहण इसलिये है कि विप्रक्ष की संप्रदान संज्ञा न हो जावे।

७४-प्रत्याङ्म्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता ॥ अ० १।४।४०॥

जो प्रति और आङ् पूर्वक श्रु धातु के प्रयोग में पूर्व का कर्ता कारक हो वह संप्रदान संज्ञक होवे। जैसे—पूर्वं देवदत्तो विद्यां याचते, देवदत्ताय विद्यां प्रतिशृणोति, आशृणोति वा विद्वान् इत्यादि। प्रथम देवदत्त विद्या को चाहता है, उस को विद्वान् सुनाता है। “पूर्वस्य” ग्रहण इसलिये है कि विद्वान् की संप्रदान संज्ञा न हो जावे। यहां “प्रति” और “आङ्” का ग्रहण इसलिये है कि ज्ञाचर्य की प्रतिज्ञा और आरम्भ से अन्त तक पढ़ना और पढ़ाना चाहिये।

७५-अनुप्रतिगृणश्च ॥ अ० १।४।४१॥

जो अनु और प्रति पूर्वक गृ धातु के प्रयोग में पूर्व का कर्ता कारक हो तो वह संप्रदान संज्ञक हो। जैसे—शान्ताय विद्यामनु-गृणाति, प्रतिगृणाति वा इत्यादि। शान्तिमान् विद्यार्थी के लिये विद्या का उपदेश करता [है]। इस सूत्र में चकार पूर्व के कर्ता की अनुवृत्ति के लिये है। यह संप्रदान कारक पूरा हुआ।

५-[अपादानकारक]

७६-ध्रुवमपायेऽपादानम् ॥ अ० १।४।२४॥

ध्रुव इसको कहते हैं कि जो पदार्थों के पृथक् होने में निश्चल रहे, वह कारक अपादान संज्ञक हो। इसका फल—

७७-अपादाने पञ्चमी ॥ अ० २।३।२८॥

अपादान कारक में पञ्चमी विभक्ति हो। जैसे—ग्रामादागच्छति, गृह्णात् पर्यं पठति इत्यादि। ग्राम से मनुष्य जाता है, गृह से पते

गिरते हैं। यहां ग्राम और वृत्त निश्चल हैं, उन में पञ्चमी हो जाती है।

(प्रश्न) जहां त्रियोग के बीच में दोनों चलायमान हों वहां किस की अपादान संज्ञा समझनी चाहिये। जैसे—रथात् प्रवीतात् पतितः, धावतस्त्रस्ताद् वाऽश्वात् पतितः। भागते हुए रथ से गिरा, भागते वा डरते हुए घोड़े से गिरा। यहां रथ और घोड़े की अपादान संज्ञा नहीं होनी चाहिये, क्योंकि वे तो चलायमान हैं और गिरा हुआ मनुष्य निश्चल होता है।

(उत्तर) जिस रथ वा घोड़े के स्थल पीठ से गिरता है वह निश्चल है उसकी अपादान संज्ञा होती है।

७८-वा०-पञ्चमीविधाने ल्यब्लोपे कर्मण्युपसंख्यानम् ॥

२।३।२८॥

जहां ल्यबन्त क्रिया का लोप हो वहां उसके कर्म में पञ्चमी विभक्ति हा। जैसे—ऋषासादात् प्रेक्षते = प्रासादमारुह्य प्रेक्षते। यहां ल्यबन्त आरुह्य क्रिया का लोप हुआ है उस के प्रसाद कर्म में पञ्चमी विभक्ति होती है।

७९-वा०-अधिकरणे च ॥ २।३।२८ ॥

जो ल्यबन्त क्रिया का लोप हो तो उस के अधिकरण में पञ्चमी विभक्ति हा। जैसे—आसनात् प्रेक्षते, आसनमुपविश्य प्रेक्षते, शयनात् प्रेक्षते इत्यादि, आसन और शय्या पर बैठके देखता है। यहां शयन और आसन उपविश्य क्रिया के अधिकरण हैं। उन में सप्तमी की प्राप्ति होने से उसी का यह अपवाद है।

८०-वा०-† प्रश्नारुख्यानयोश्च ॥ २।३।२८ ॥

ऋ यहां अपादान संज्ञा के न होने से पञ्चमी किसी सूत्र से प्राप्त नहीं थी, किन्तु कर्म में द्वितीया प्राप्त थी, उस का यह अपवाद है।

† यहां से छे के आगे इस पञ्चमी विधान प्रकरण में जितने सूत्र

प्रश्न और आख्यान वाची शब्द से पञ्चमी विभक्ति हो। जैसे—
कुतो भवान् ? पाटलिपुत्राद्। यहां 'कुत' शब्द में प्रश्न वाची होने
पाटलिपुत्र शब्द में आख्यान के होने से पञ्चमी विभक्ति हुई है।

८१-वा०-यतश्चाध्वकालनिर्माणम् ॥ २ । ३ । २८ ॥

जहां से मार्ग और काल का परिमाण किया जाय वहां पञ्चमी
विभक्ति हो। मार्गनिर्माण—जैसे—गवीधुमतः सांकाश्यं चत्वारि
योजनानि, गवीधुमान् नगर से सांकाश्य नगर चार योजन = सोलह
कोश दूर है। यहां गवीधुमान् से मार्ग का परिमाण होने से वहां
पञ्चमी विभक्ति हो गई। कालनिर्माण—कार्तिक्या आग्रहायणी मासे।
[कार्तिकी पूर्णिमा से आग्रहायणी पूर्णिमा एक मास पर आती है]
यहां कार्तिकी शब्द में पञ्चमी विभक्ति हो गई है।

८२-वा०-तद्युक्तात् काले सप्तमी ॥ २ । ३ । २८ ॥

जो काल के निर्माण में पञ्चमी विभक्ति की है उससे उत्तर
कालवाची शब्द से सप्तमी विभक्ति हो। जैसे—कार्तिक्या आग्र-
हायणी मासे। यहां मास शब्द में सप्तमी हुई है।

८३-वा०-अध्वनः प्रथमा च ॥ २ । ३ ॥

मार्ग के निर्माण में जो पञ्चमी विभक्ति की है उससे उत्तर
मार्ग वाची शब्द से प्रथमा और सप्तमी दोनों विभक्ति हों जैसे—
गवीधुमतः सांकाश्यं चत्वारि योजनानि, गवीधुमतः सांकाश्यं चतुर्षु
योजनेषु। यहां मार्ग वाची योजना शब्द से प्रथमा और सप्तमी
विभक्ति हुई हैं।

८४-अन्यारादितरर्तेदिक्छन्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्ते ॥

अ० २ । ३ । २६ ॥

कार्तिक लिखे हैं, वे सब अध्वं विधायक समझने चाहियें, क्योंकि वहां
किसीसे कोई विभक्ति का विधान नहीं किया है।

अन्य, आरात्, इतर, ऋते, दिशात्राची शब्द, अञ्चूत्तरपद, आच् और आहि प्रत्ययान्त अव्यय, इन शब्दों के योग में पञ्चमी विभक्ति हावे। जैसे, अन्य-अन्यो देवदत्ताद्यद्दत्त, आरात्-आरा-च्छूद्राद् रजकः, इतर-स्वस्मादितरं न गृहीयात्, ऋते-ऋते ज्ञानाञ्ज मुक्तिः, दिग्वाचीशब्द-पूर्वो ग्रामात् कूपः, अञ्चूत्तरपद-प्राग्ग्रामात् तडागम्, आच्-दक्षिणा कूपाद् वृत्तः, आहि-दक्षिणाहि ग्रामात्तदी इत्यादि। यहाँ दिक् शब्द के ग्रहण अञ्चूत्तरपद के उदाहरण भी सिद्ध हो जाते, फिर अञ्चूत्तरपद ग्रहण से इसलिये है कि आगे के सूत्र से पष्ठी विभक्ति प्राप्त है उस को बाध कर पञ्चमी ही हो जावे।

८५-पष्ठघतसर्थप्रत्येन ॥ अ० २ । ३ । ३० ॥

अतसुच् प्रत्ययान्त शब्दों के अर्थों में वर्तमान जो अव्यय शब्द है, उस के योग में पष्ठी विभक्ति हो। जैसे-दक्षिणतो ग्रामस्य वाटिका, उपरि ग्रामस्य गोशाला इत्यादि। यहाँ ग्राम शब्द से पष्ठी विभक्ति हुई है।

८६-एनपा द्वितीया ॥ अ० २ । ३ । ३१ ॥

अतसर्थे प्रत्ययों में एनप् प्रत्यय के योग में पूर्वे मूत्र से पष्ठी विभक्ति प्राप्त थी, उस का अपवाद यह सूत्र है कि एनप् प्रत्ययान्त अव्यय के योग में द्वितीया हो। जैसे-दक्षिणेन ग्रामं मुञ्जाः इत्यादि। ग्राम से दाहिनी ओर मूत्र का वन है।

८७-पृथग्विनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतास्याम् ॥

अ० २ । ३ । ३२ ॥

पृथक्, विना, नाना, इन तीन अव्यय शब्दों के योग में विकल्प कर के तृतीया विभक्ति हो, पत्र में पञ्चमी। जैसे-पृथक् स्थानेन, पृथक् स्थानात्; विना घृतेन, विना घृतात्; नाना पदार्थेन, नाना पदार्थात्। यहाँ जो सिद्धान्तकौमुदी में द्वितीया विभक्ति की अनु-

वृत्ति कर के उदाहरण दिये हैं, वे इसी सूत्र के महाभाष्य से विरुद्ध होने से अशुद्ध हैं।

८८-करणे च स्तोकाल्पकृच्छ्रकतिपयस्यासत्ववचनस्य

॥ अ० २ । ३ । ३३ ॥

करणे कारक में वर्तमान जो अद्रव्य वाची स्तोक, अल्प, कृच्छ्र-कतिपय शब्द उन से तृतीया और पञ्चमी विभक्ति हों। जैसे—स्तोकेन स्तोकाद् वा मुक्तः, अल्पेनाल्पाद्वा मुक्तः, कृच्छ्रेण कृच्छ्राद्वा मुक्तीः, कतिपयेन कतिपयाद्वा मुक्तः इत्यादि, थोड़े, किंचित्, कष्ट और कुछ दिनों में छूट गया। यहाँ असत्व वचन का ग्रहण इसलिये है कि “अल्पेन जलेन तप्त” थोड़े जल से तप्त हुआ, इत्यादि में पञ्चमी विभक्ति न हो। यहाँ करणे ग्रहण इसलिये है कि “अल्पं त्यजति” थोड़े को छोड़ता है इत्यादि में तृतीया पञ्चमी विभक्ति न हों।

८९-दूरान्तिकार्थः पृष्ठथन्यतरस्याम् ॥ अ० २।३।३४ ॥

दूर और समीपवाची और इन के पर्यायवाची शब्दों के योग में विकल्प कर के षष्ठी और पक्ष में पञ्चमी हों। जैसे दूरं विप्रकृष्टं वा ग्रामस्य, दूरं विप्रकृष्टं वा ग्रामाद् वनम्; अन्तिकं समीपं वा ग्रामस्य ग्रामाद्वाऽऽग्रामाः इत्यादि। ग्राम के दूर जंगल और समीप-भाग हैं। यहाँ विकल्प की अनुवृत्ति इसलिये है कि पक्ष में पञ्चमी विभक्ति हो जावे।

९०-दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च ॥ अ० २।३।३५ ॥

दूर और समीप वाची तथा इन के पर्याय शब्दों द्वितीया विभक्ति हो। चकार से विकल्प करके षष्ठी और पञ्चमी भी हो। दूरं दूरस्य दूराद्वा, विप्रकृष्टं विप्रकृष्टस्य विप्रकृष्टाद्वा ग्रामस्य पर्वता, अन्तिक-मन्तिकस्यान्तिकाद्वा ग्रामस्य शिरीषाः, समीपं समीपस्य समीपाद्वा ग्रामस्य घाटिकाः इत्यादि।

अथ अपादान संज्ञा में जो विशेष सूत्र हैं उन्हें लिखते हैं ।

६१-भीत्रार्थानां भयहेतुः ॥ अ० १ । ४ । २५ ॥

जो भयार्थ और रक्षार्थ धातुओं के प्रयोग में भय का हेतु कारक है, उसकी अपादान संज्ञा हो । जैसे—गृहेभ्यो विभेति, गृहेभ्य उद्विजते; चोरेभ्यस्त्रायते, चोरेभ्यो रक्षति ः इत्यादि । भेड़ियों से डरता और चोरों से रक्षा करता है । यहां भय हेतु का प्रहण इस लिये है कि “गृहे विभेति, गृहे त्रायते” इत्यादि में पञ्चमी विभक्ति न हो ।

६२-पराजेरसोढः ॥ अ० १ । ४ । २६ ॥

परपूर्वक जि धातु के प्रयोग में असोढ अर्थात् जिसको न सह उसके वह कारक अपादान संज्ञक हो । जैसे—अध्ययनात् पराजयते, चलवतो धर्मात्मनो निबेलोऽधर्मी पराजयते इत्यादि । यहां असोढ अहण इसलिये है कि “शत्रून् पराजयते” इत्यादि में अपादान संज्ञा हो कर पञ्चमी न हो ।

६३-वारणार्थानामीप्सितः ॥ अ० १ । ४ । २७ ॥

वारण उसकी कहते कि कुछ काम करते हुए को वहां से हटा देना । वारणार्थक धातुओं के प्रयोग में जो अत्यन्त इष्ट कारण है उसकी अपादान संज्ञा हो । जैसे—सस्येभ्यो गां वारयति, निप्रर्चयति, निपेरति वा इत्यादि । धान्य के खेतों से गौओं को हटाता है, इस कारण येत अत्यन्त इष्ट हुए । यहां ईप्सित प्रहण इसलिये है कि “गोष्ठे गां वारयति” इत्यादि में अपादान संज्ञा न हो ।

ः यहां वृक और चोर भय के हेतु हैं । इस कारण उनकी अपादान संज्ञा हो कर पञ्चमी विभक्ति होती है ।

६४-अन्तर्वौ येनादर्शनमिच्छति ॥ अ० १।४।२८ ॥

अन्तर्धि अर्थात् छिप जाने अर्थ मे, जिस से ऐसी इच्छा करे कि मुझको वह न देखे वह कारक अपादान संज्ञक हो। जैसे—
उपाध्यायाद् बालोऽन्तर्धे इत्यादि। पढ़ाने हारे से लड़का छिपता है
यहां अन्तर्धि ग्रहण इसलिये है कि “दुष्टान्न विद्वत्ते” इत्यादि में
अपादान संज्ञा न हो। इच्छति ग्रहण इसलिये है कि देखने की
इच्छा न हो और सामने से दिखाता हो तो भी अपादान संज्ञा न हो।

९५-आख्यातोपयोगे ॥ अ० १।४।२९ ॥

जो उपयोग अर्थात् नियमपूर्वक पढ़ने में पढ़ाने वाला कारक
है उस की अपादान संज्ञा हो। उपाध्यायादधीते इत्यादि। वेतन लेने
वाले से पढता है। यहां उपयोग ग्रहण इसलिये है कि “नटस्य वचः
शृणोति” इत्यादि में नियमपूर्वक विधान के न होने से अपादान
कारक संज्ञा न हो।

६६-जनिकर्तुः प्रकृतिः ॥ अ० १।४।३० ॥

जन धातु का जो कर्ता उसकी प्रकृति अर्थात् जो कारण है वह
अपादान संज्ञक हो। जैसे—अग्नेर्वै धूमो जायते, अथवा अग्निः कार-
णाद् व्यक्त कार्यं जायते। अग्नि से धुंभा और सूक्ष्म अदृश्य नित्य-
स्वरूप कारण से स्थूल, दृश्य, अनित्य रूप कार्य उत्पन्न होता है।
यहां प्रकृतिग्रहण इसलिये है कि “पुत्रो मे गौरो जायते” इत्यादि
में कारण की अपेक्षा न होने से अपादान संज्ञा नहीं होती ॥

९७-भुवः प्रभवः ॥ अ० १।४।३१ ॥

प्रभव उस को कहते हैं कि जहाँ से कोई पदार्थ उत्पन्न हुआ
हो। जो भू धातु के कर्ता का प्रभव कारक है वह अपादान संज्ञक

इस यहाँ जन धातु का कर्ता धूम है, उसकी प्रकृति कारण भक्ति है।
इससे उस की अपादान संज्ञा होकर पद्ममी होती है।

हो । हिमवतो गङ्गा प्रभवति । हिमवान् पर्वत से गङ्गा उत्पन्न होती है । इसलिये हिमवान् शब्द की अपादान संज्ञा होके पञ्चमी विभक्ति हुई है । अपादानकारक प्रकरण पूरा हुआ ।

अब इस के आगे पष्ठी कारक लिखेंगे, इस में संज्ञाप्रकरण नहीं है ।

६-[शेषकारक]

९८-पष्ठी शेषे ॥ अ० २ । ३ । ५० ॥

भा०—कर्मादीनामविवक्षा शेषः । जहां कर्म आदि कारक संज्ञा की विवक्षा न हो वह शेष कहलाता है उस में पष्ठी विभक्ति हो । जैसे—राज्ञः पुत्रः, वृक्षस्य शाखाः, मृत्तिकाया घटः इत्यादि ।

९९-ज्ञोऽविदर्थस्य करणे ॥ अ० २ । ३ । ५१ ॥

जो अविदर्थ अर्थात् अज्ञानार्थ ज्ञा धातु उस के करण कारक में पष्ठी विभक्ति होवे । जैसे—अग्निः सर्पिषो जानीते, ऋ मधुनो जानीते । अग्नि धी और शब्द से प्रवृत्त होता है । यहां अविदर्थ ग्रहण इसलिये है कि “गौः स्वरेण वस्सं जानाति” इत्यादि में पष्ठी न हो ।

१००-अधीगर्थदयेशां कर्मणि ॥ अ० २।३।५२ ॥

अधि पूर्वक स्मरण अर्थ वाला इक् इस के अर्थ के जो अन्य धातु तथा द्य और ईश इन के अनभिहित कर्म में पष्ठी विभक्ति हो ।

१. देखो भूमिका की हमारी टिप्पणी । यु० मी० ।

ऋ यहां सर्पिः धी और मधु शब्द ज्ञा धातु के प्रयोग में साधकतम होने से करण है वहां तृतीया विभक्ति प्राप्त थी, उस का भववाद यह पष्ठी का विधान किया है । परन्तु अर्थ तृतीया का ही बना रहता है । जैसे—अधी और मधु से अग्नि बढ़ता है ।

जैसे—अधीगर्थ-मातुरभ्येति बालः, पितुः स्मरति बालः । दय-दुःखितस्य दयते । ईश-भ्रामस्येष्टे । यहा सर्वत्र द्वितीया प्राप्त थी उस की बाधक पष्ठी है । और कर्म प्रहण इसलिये है कि “मातृगुणैः स्मरति बालः” यहां करणवाची गुण शब्द के होने से पष्ठी विभक्ति नहीं हुई ।

१०१-कृजः प्रतियत्ने ॥ अ० २ । ३ । ५३ ॥

जो प्रतियत्न अर्थ में वर्तमान कृञ् धातु हो तो उस के शेष कर्म में पष्ठी विभक्ति हो । जैसे—एधोदकस्योपस्कुरुते † । पाककर्ता इन्धन जल तथा अन्य सब भोजन की सामग्री समीप धर के पाक बनावे ।

१०२-रुजार्थाना भाववचनानामज्वरेः ॥ अ० २ । ३ । ५४ ॥

यहां भाववचन शब्द से कर्तृत्वभाषक रुजाथे धातु समझे जाते हैं । जिन धातुओं के कर्त्ता में धातु का अर्थ रहता है, ऐसे रुजार्थक धातुओं में से ज्वर धातु को छोड़ के उन के शेष कर्म ‡ में पष्ठी हो । जैसे—चोरस्य रुजति, चोरस्थामयति इत्यादि । वहा रुजार्थक प्रहण इसलिये है कि “भ्राम गच्छति” इत्यादि में पष्ठी न हो और भाववचन प्रहण इसलिये है कि “नदी कूलानि रुजति” यहां कर्मस्थ भावक रुज धातु के कर्म में पष्ठी न हो, और ज्वर धातु का निषेध इसलिये है कि “बाल व्वरयति व्वर.” यहां कर्म में पष्ठी न हो ।

१०३-वा०-अज्वरिसताप्योरिति वक्तव्यम् ॥

अ० २ । ३ । ५४ ॥

जहा व्वर धातु के कर्म में पष्ठी का निषेध किया है, वहा सपूर्वक-

† यहां प्रतियत्न अर्थ में ही कृञ् धातु की सुट् का भागम कहा है । एधोदक शब्द कृञ् धातु का कर्म है उस में द्वितीया प्राप्त है तो न हो ।
‡ शेष कर्म के कहने से प्रयोजन यह है कि जिस कर्म में द्वितीया की विवक्षा न हो ।

तापि धातु का भी समझना चाहिये। जैसे—चोरं सन्तापयति दुष्कर्म। यहां इस वाकिक से पष्ठी का निषेध हो के द्वितीया हुई।

१०४-आशिषि नाथः ॥ अ० २ । ३ । ५५ ॥

जो आशीर्वचन अर्थ में वर्तमान नाथ धातु हो तो उस के शेष कर्मकारक में पष्ठी विभक्ति होवे। जैसे—सर्पिषो नाथते, मधुनो नाथते ः यहां आशिप् शब्द से इच्छा ली जाती है। इसलिये कर्म-वाची सर्पिस् शब्द में पष्ठी विभक्ति हुई। आशिपि प्रहण इसलिये है कि “शन्नं नाथते” यहां पष्ठी न हो।

१०५-जासिनिप्रहणनाटक्राथपिपां हिसायाम् ॥

अ० २ । ३ । ५६ ॥

जासि धातु चुरादि गण का नि और प्र ये उपसर्गे साथ वा पृथक् २ पूर्व हो ऐसा हन, नाट, क्राथ, और पिप इन हिसार्थक धातुओं के शेष कर्म से पष्ठी विभक्ति होवे। चोरस्योजासयति। यहां जासि धातु के चोर कर्म में पष्ठी। निप्रहण-चोरस्य निप्रहन्ति, चोरस्य निहन्ति, चोरस्य प्रहन्ति। नाट-असुरस्योन्नाटयति। क्राथ-दुष्टस्य क्राथयति। पिप-दस्योः पिनष्टि इत्यादि। यहां जासि आदि धातुओं का परिगणन इसलिये है कि “दुष्ट हिनस्ति” इत्यादि में पष्ठी न हो। और हिसा प्रहण इसलिये है कि “धौपधं पिनष्टि” यहां हिसा के न होने से पष्ठी न हुई।

१०६-व्यवहृपणोः समर्थयोः ॥ अ० २ । ३ । ५७ ॥

समानार्थक जो वि अथ पूर्वक ह और पण धातु इन के शेष कर्म में पष्ठी विभक्ति हो। जैसे—शतस्य व्यवहरति, शतस्य पणा-

ः घी चाहता है, मीठा चाहता है, यहां घा और मीठा नाथ धातु के कर्म हैं यहां पष्ठी द्वितीया की बोध है।

यति इत्यादि। यहां समर्थ ग्रहण इसलिये है कि “विद्वांसं पणायति”
यहा पण धातु स्तुति अर्थ में है।- इस कारण से इस के कर्म में
पष्ठी नहीं होती।

१०७-दिवस्तदर्थस्य ॥ अ० २ । ३ । ५८ ॥

व्यवहारार्थक दिवु धातु के शेष कर्म में पष्ठी विभक्ति हो। जैसे-
शतस्य दीव्यति इत्यादि। सौ रुपये का व्यवहार करता है।

१०८-विभापोपसर्गे ॥ अ० २ । ३ । ५९ ॥

उपसर्गपूर्वक व्यवहारार्थक दिवु धातु के शेष कर्म में विकल्प
करके पष्ठी विभक्ति हो। शतस्य प्रदीव्यति, शत प्रदीव्यति। यहां
पष्ठी के विकल्प से पक्ष में द्वितीया विभक्ति भी होती है।

१०९-द्वितीया ब्राह्मणे ॥ अ० २ । ३ । ६० ॥

ब्राह्मण ग्रन्थों में व्यवहारार्थ दिवु धातु के कर्म कारक में द्वितीया
विभक्ति हो। गामस्य तदह सभाया दीव्ययु। यहा गौ शब्द कर्म-
वाची है उसमें द्वितीया होती है। अनुपसर्ग दिवु धातु के कर्म कारक
में नित्य पष्ठी विभक्ति प्राप्त है, सो द्वितीया ही हो इसलिये यह सूत्र है।

११०-प्रेष्यब्रुवोर्हविषो देवतासंप्रदाने ॥ अ० २ । ३ । ६१ ॥

जो वह हविष् कर्म, देवता अर्थात् दिव्यगुण होने के लिये दिया
जाता हो तो प्र पूर्वक दिवादिगण वाला इष धातु और ब्रू धातु इन
के हविष् कर्म में ब्राह्मणग्रन्थ विषय में पष्ठी विभक्ति हो। जैसे—
इन्द्राग्निभ्या छागस्य हविषो वपाया मेदसोऽनुब्रूहि ॥ यहा हविष्
कर्म है अन्य पष्ठ्यन्त पद उस के विशेषण हैं। यहां “द्वागं हवि-
र्वेषां मेद. प्रेष्य” ऐसा प्राप्त है सो इस सूत्र से पष्ठी विभक्ति हो गई।

॥ भजा क अर्थ खाने पीने की वस्तु के योग से विजुली और अग्नि
को उपयुक्त कर और सुनकर उपदेश भी कर।

यहां प्र पूवक इप और ध्र धातु का ग्रहण इसलिये है कि "अग्रये छागं हविषो म.गे जुडाध" इत्यादि क कम में पष्ठी न हो। हविष्-ग्रहण इसलिये है कि 'अग्रये समिध प्रेष्य' यहां समिध् कम में पष्ठी न हो। और देवतासप्रदान ग्रहण इसलिये है कि "वालाय पुराडाशं प्रेष्य" यहां देवता क न होन से पष्ठी न हुइ।

१११-वा०-हविषाऽप्रस्थितस्येति वक्तव्यम् ॥

अ० २ । ३ । ६१ ॥

सूत्र से जो हविष् कर्म में पष्ठी कहा है सो प्रास्थित विशेषण हो तो न हो, किन्तु द्विजाया ही हो इन्द्रामिभ्या छागं हविषां मेदः प्रस्थित प्रेष्य। यहा प्रस्थित विशेषण के होन से पष्ठी न हुइ।

११२-चतुर्थ्यर्थे बहुल छन्दसि ॥ अ० २।३।६२॥

पूर्वमूत्रों में ब्राह्मण शब्द से ऐतरेय आदि वेद व्याख्यानों का ग्रहण हाता है और यहां छन्दः शब्द स वेदों का ग्रहण हाता है, इसलिये इस सूत्र में छन्दः ग्रहण किया है। वेद विषय में चतुर्थी के अर्थ में पष्ठी विभक्ति बहुल करके हो। जैसे—दावाघाटस्ते वनस्पतीनाम्। यहा "वनस्पतिभ्यः" एसा प्राप्त था।

११३-वा०-पष्ठ्यर्थे चतुर्थी वक्तव्या ॥ अ० २।३।६३॥

पष्ठी के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति कहनी चादिये। या खर्वेण पिबति 'तस्यै' खर्वो जायत, तस्या खर्वो जायत इति प्राप्ते इत्यादि। यहा 'तस्यै' शब्द में पष्ठी के स्थान में चतुर्थी हुई है।

११४-यजेश्च करणे ॥ अ० २ । ३ । ६३ ॥

वेद विषयक यज धातु के कर्ण कारक में बहुल करके पष्ठी विभक्ति हो। घृतस्य घृतेन वा यजत। यहा कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति प्राप्त था, सो उस का अपवाद होने से घृत शब्द में तृतीया और पष्ठी दोनो होती हैं।

११५-कृत्वोऽर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे ॥ अ० २।३।६४॥

कृत्वसुच् और इस के समानार्थ प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों के प्रयोग में जो कालवाची अधिकरण वाचक शब्द हो तो उस से अधिकरण कारक में पष्ठी विभक्ति हो। यहां सप्तमी विभक्ति प्राप्त है उस का अपवाद यह सूत्र है। जैसे—दिवसस्य पञ्चकृत्वो भुङ्क्ते बालः। एक दिन में यह बालक पांच बार खाता है। दिवसस्य द्विरधीते इत्यादि। एक दिन भर में दो बार पढ़ता है। यहां कृत्वोऽर्थप्रयोग ग्रहण इसलिये है कि “दिनमधीते, अयसः पात्रे भुङ्क्ते” इत्यादि में पष्ठी न हो। काल अधिकरण ग्रहण इसलिये है कि “काष्ठं द्विः करोति” इत्यादि में पष्ठी न हो।

११६-कर्तृकर्मणोः कृति ॥ अ० २।३।६५॥

कृदन्त संबन्धी कर्ता और कर्म कारक में पष्ठी विभक्ति हो। जैसे—देवदत्तस्य प्रज्ञा, देवदत्तस्येज्या, पुरां भेत्ता, कूपस्य खनिता। कर्तृ कर्म ग्रहण इसलिये है कि “दात्रेण ह्येत्ता” इत्यादि में पष्ठी विभक्ति न हो। और कृत् ग्रहण इसलिये है “कृतपूर्वा कटम्” इत्यादि तद्धित के प्रयोग में पष्ठी न हो।

११७-उभयप्राप्ती कर्मणि ॥ अ० २।३।६६॥

पूर्वसूत्र से कृत् युक्त कृता तथा कमे में सर्वत्र पष्ठी प्राप्त है, उस का नियम करने के लिये यह सूत्र है। जिस कृदन्त के योग में कर्ता और कर्म दोनों में एक साथ पष्ठी प्राप्त हो वहाँ कमे में पष्ठी और कर्ता में तृतीया हो। जैसे—ओदनस्य पाको देवदत्तो न। यहाँ ओदन कर्म में पष्ठी और अनभिहित के होने से देवदत्त कर्ता में तृतीया हो गई।

११८-वा०-अकाकारयोः स्त्रीप्रत्यययोः प्रयोगे प्रतिपेवो न * ॥ २।३।६६॥

ॐ यह पार्श्विक “उभयप्रा०” इसी सूत्र का अपवाद है, क्योंकि कृद्योग

जो 'एतुल्' और 'अ' ये स्त्री प्रत्यय जिन के अन्त में हों उन शब्दों के प्रयोग में कर्ता में भी पष्ठी विभक्ति 'हो' अर्थात् दोनों में एक साथ हो जावे। जैसे—भेदिका देवदत्तस्य काष्ठानाम्, चिकीर्षा विष्णुमित्रस्य कटस्य।

११९-वा०-शेषे विभाषा + ॥ २ । ३ । ६६ ॥

शेष कृदन्त स्त्री प्रत्यय के योग में कर्ता में विकल्प कर के पष्ठी विभक्ति हो। और कर्म में तो सूत्र ही से नित्य विधान है। जैसे—शोभना खलु पाणिनेः सूत्रस्य कृति, शोभना खलु पाणिनिना सूत्रस्य कृतिः इत्यादि।

१२०-क्तस्य च वर्तमाने † ॥ अ० २ । ३ । ६७ ॥

जो वर्तमान काल में क्त प्रत्ययान्त शब्द है उस के संबन्ध में पष्ठी विभक्ति हो। जैसे—राज्ञा मतः, राज्ञां बुद्धः, राज्ञां पूजितः। यह विद्वान् राजाओं का मान्य, जाना और सत्कृत है। यहाँ क्त ग्रहण इसलिये है कि "गुरु भजमानः" यहाँ कर्म में पष्ठी न हो और वर्तमान ग्रहण इसलिये है कि "ग्रामं गतः" यहाँ भूतकाल के होने से पष्ठी न हो।

में सामान्य कर के जो पष्ठी का विधान है उस को नियत विषय में दृढ़ करता है।

+ यह अपास विभाषा यों समझनी चाहिये कि शेष स्त्री प्रत्यय के योग में कर्तृशची शब्द से किसी सूत्र कर के पष्ठी प्राप्त नहीं, प्रयुक्त "उभयप्रा०" (का० ११७) इस से कर्म का नियम होने से कर्ता का निषेध तो है।

† क्त प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होने से आगे "न लोका०" (का० १२३) इस सूत्र कर के पष्ठी का निषेध प्राप्त है। इसलिये यह सूत्र उस का शुरुस्तात् अपवाद है।

१२१-वा०-क्तस्य च वर्तमाने नपुंसके भाव उप-
संख्यानम् * २ । ३ । ६७ ॥

जो नपुंसक भाव में क्तप्रत्ययान्त है उस के कर्ता में पष्ठी विभक्ति हो। जैसे—छात्रस्य हसितम्, नटस्य भुक्तम्, मयूरस्य नृत्तम्, इत्यादि। विद्यार्थी का हसना, नट का भोजन, मोर का नाचना देखो।

१२२-अधिकरणवाचिनश्च ॥ अ० २ । ३ । ६८ ॥

अधिकरणवाची क्त प्रत्ययान्त के योग में कर्ता में पष्ठी विभक्ति हो। जैसे—इदमेपामासितम्, इदमेपा यातम् †।

१२३-न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृणाम् ॥ अ० २ । ३ । ६९ ॥

जो कृदन्त के योग में कर्म में पष्ठी प्राप्त है, उसी विषय का यह सूत्र निषेध करता है, इसलिये उसी का अपवाद है। (ल) (उ) (षक) (अठ्यय) (निष्ठा) (खलथे) और (तृन्)। इन कृत् प्रत्ययान्त शब्दों के योग में कर्म में पष्ठी विभक्ति नहीं (ल) अर्थात् जो लकार के स्थान में तिङ्, शकृ, शानच्, कानच्, क्वसु, कि, किन् आदि आदश होते हैं। जैसे—तिङ्-देवदत्त आदानं पचति, देवदत्तेनोदनः पच्यते, ग्रामं गच्छति, ग्रामो गम्यते। इत्यादि। 'शकृ-आदानं पचन्। शानच्-आदानं पचमानः। कानच्-सूय्येगुभयतो दृढज्ञानः। क्वसु-सांमं पपियान। कि किन्-ददिर्गाः। इत्यादि।

❀ ५१ सूत्र में वर्तमान के कहने में नपुंसक भाव में प्राप्ति नहीं, इसलिये यह भी पानिक "न लोका०" (का० १०३) इसी यह्यमाण सूत्र का अपवाद समझना ठीक है।

† 'भाषितम्' घटन का स्थान और 'यातम्' चलने का मार्ग है। 'पचा' यह कर्ता में पष्ठी है और यह सूत्र भी "न लोका०" (का० १२३) इसी अगले सूत्र का अपवाद है।

स-कटं चिकीर्षुः, प्रामं जिगमिषुः, विद्यां पिपठिषुः इत्यादि ।
 उकञ्-सत्यं प्रतिपादुकः । अव्यय-प्रामं गत्वा । ओदनं मुक्त्वा ।
 निष्ठा-क्त और क्तवतु प्रत्ययान्त के योग में पष्ठी न हो । देवदत्तेन
 कृतं पयः । कटं कृतवान् । खलर्थ-ईषद्भोज ओदनो भवता, ईष-
 र्वानं पयो भवता । कृन् प्रत्याहार से शानन्, चानश्, शतृ, कृन्
 इन चार प्रत्ययान्तों का प्रहण होता है । शानन्—सोम पवमानः ।
 चानश्-पतङ्गात्रिग्नान् । शतृ-विद्यां धारयन् । कृन्-लविता यवान्,
 शठिता वेदान् । इत्यादि ।

१२४-वा०-उकप्रतिषेधे कमेर्भाषायामप्रतिषेधः ॥ ❀

२ । ३ । ६६ ॥

वेद से अन्य आर्ष वेदानुकूल ग्रन्थों को भाषा कहते हैं जो
 उक प्रत्ययान्त के योग में पष्ठी का निषेध किया है वहा उक प्रत्य-
 यान्त भाषा विषयक कम धातु के प्रयोग में निषेध न हो, किन्तु
 यष्ठी विभक्ति हो जावे । जैसे—दास्या कामुकः । वृषल्याः कामुकः ।
 दासी और वृषली वेश्या से भोग की इच्छा वाला इत्यादि ।

१२५-वा०-अव्ययप्रतिषेधे तोसुन्लसुनोरप्रतिषेधः ❀ ॥

२ । ३ । ६९ ॥

जो अव्यय के योग में पष्ठी का निषेध किया है, वहां तोसुन्
 और कसुन् प्रत्ययान्त के योग में पष्ठी का निषेध न हो । जैसे—
 तोसुन्-पुग सूर्यस्योदेतोरधेयः, । कसुन्-पुरा क्रूरस्य विस्तपो विरप्
 शिन् इत्यादि ।

❀ ये दोनों वाकिक इसी सूत्र के विषय में निषेध का निषेध करके
 पष्ठी के विधायक हैं । इसलिये “न लोका०” इस के अपवाद हैं ।

१२६-वा०-द्विषः शतुर्वावचनम् * ॥२।३।६६॥

द्विष धातु से शतृ प्रत्ययान्त के योग में पष्ठी विभक्ति विकल्प करके हो। जैसे—चोरस्य द्विषन्, चोरं द्विषन्। तृन् प्रत्याहार में शतृ प्रत्यय के होने से निषेध प्राप्त था। उसका विकल्प करने के लिये यह तीसरा वार्तिक है।

१२७-अकेनोर्भविष्यदाधमरण्ययोः ॥ अ० २।३।७० ॥
अक और इन् प्रत्ययान्त शब्द के कर्म में पष्ठी विभक्ति न हो।

१२८-वा०-अकस्य भविष्यतीन आधमरण्ये च † ॥

२।३।७० ॥

अकान्त के योग में भविष्यत् काल और इन् के योग में आध-मरण्य तथा भविष्यत् काल अर्थ लगते हैं। जैसे—यवान् लावको व्रजति। यहा अक के योग में केवल भविष्यत् ही है और “ग्राम गमी” यहां इन्नन्त के योग में भविष्यत्काल में और “शतं दायी” “सहस्रं दायी” यहा आधमरण्य है। इत्यादि। यहां भविष्यत् और आधमरण्य में निषेध इसलिये है कि “यवाना लावक” यहा पष्ठी का निषेध न हो, किन्तु पष्ठी हो जावे।

१२९-कृत्याना कर्तरि वा ॥ अ० २।३।७१ ॥

कृत्य प्रत्ययान्त के कर्ता में विकल्प करके पष्ठी और पक्ष में एवीया होवे। जैसे—ब्राह्मणेन ब्राह्मणस्य वा पठितव्यम्, देवदत्तेन

ॐ इस वार्तिक में अमास विभाषा इसलिये है कि “न लोका०” (का० १२३) इससे संध्या पष्ठी का निषेध हो चुका है, उस का यह विकल्प से विधान करता है।

† यह भी वार्तिक “कर्म०” [का० ११६] इसी का अपवाद है। क्योंकि कर्म में पष्ठी इसी से प्राप्त है।

देवदत्तस्य वा आसितव्यम् इत्यादि । यहां कर्तरि प्रहण इसलिये है कि "वक्तव्यः श्लोकः" यहां कर्म में पष्ठी न हो । इस सूत्र में महाभाष्यकार ने यांग विभाग करके दो अर्थ किये हैं । एक उभयप्राप्त कृत्य प्रत्ययान्त के योग में पष्ठी न हो । जैसे—ग्राममाकष्टव्या शारा देवदत्तेन इत्यादि । दूसरा कृत्य प्रत्यय के योग में कर्ता में पष्ठी विकल्प करके हो । इसके उदाहरण सूत्र की व्याख्या में लिख चुके हैं ।

१३०—तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम् ॥

अ० २ । ३ । ७२ ॥

पूर्वसूत्र में विकल्प प्रहण था फिर दूसरी धार करने का प्रयोजन यह है कि यहां कर्ता की अनुवृत्ति न आवे । तुल्य और इस के पर्यायवाची शब्दों के योग में कर्म में विकल्प करके तृतीया और पक्ष में पष्ठी विभक्ति हो, तुला और उपमा शब्द को छोड़ के । जैसे—तुल्यः सदृशो वा देवदत्तेन देवदत्तस्य वा विष्णुमित्रः, इत्यादि । यहां तुला और उपमा शब्द का निषेध इसलिये है कि "तुलोपमा वा परमात्मनो नास्ति" यहां परमात्मा शब्द से तृतीया न हुई, शेष के होने से पष्ठी हो गई ।

१३१—चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैः ॥

अ० २ । ३ । ७३ ॥

जो आशीर्षचन अर्थ में वर्तमान आयुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, अर्थ और हित हैं इन शब्दों के योग में विकल्प करके चतुर्थी और पक्ष में पष्ठी विभक्ति होवे । जैसे—[आयुष्य-] आयुष्यं शिष्याय शिष्यस्य वा, मद्र-मद्रं बालाय बालस्य वा, भद्र-भद्रं पुत्राय पुत्रस्य वा, कुशल-कुशलं देवदत्ताय देवदत्तस्य वा, सुख-सुखं परिडत्ताय परिडत्तस्य वा । अथे-अर्थो देवदत्ताय देवदत्तस्य वा, हित-हितं माणवकाय माणवकस्य वा इत्यादि । यहां आशीर्षचन प्रहण इसलिये

है कि "आयुष्यमस्य ब्रह्मचर्यम्" इत्यादि में चतुर्थी विभक्ति न हो ।
यह शप कारक पूरा हुआ ।

[७-अधिकरणकारक]

१३२-आधारोऽधिकरणम् ॥ अ० १ । ४ । ४५ ॥

जिस में पदार्थ धरे जाते हैं वह आधार कहाता है । सो एक की अपेक्षा में दूसरा आधार बन जाता है । पशुपूरे परमेश्वर में पहुँच के समाप्ति हो जाती है । जो आधार कारक है वह अधिकरण संज्ञक हो । इसका फल—

१३३-सप्तम्यधिकरणे च ॥ अ० २ । ३ । ३६ ॥

अधिकरण तीन प्रकार का होता है । इसको प्रमाण सहित पूर्व लिख चुके हैं । अधिकरण में और चकार से दूरवाची तथा समीपवाची शब्दों से भी सप्तमी विभक्ति होवे । जैम—व्यापक—दक्षिण्युतम्, तिलेषु तैलम् ऋ इत्यादि । औपश्लेषिक—कटे शोते, खट्वायां शोते । पीठ आस्त्रे † इत्यादि । वैपयिक—ते शकुनयः, श्रोत्रे शब्दो विषयते ‡ इत्यादि । आकाश के विषय [होने से] यहाँ ख शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई है । अब आगे वाचिक लितोंगे ।

१. प्रत्य के प्रारम्भ में उपक्रम प्रकरण में वृष्ट ४ । यु० मी०

ऋ दही और तिलों के साथ भवयवों में धी और तेल व्याप्त रहता है इस कारण इस को व्यापक कहते हैं ।

† भटाई, खटिया और आसन पर बैठने वाले का उसमें भक्ति निकट सम्बन्ध होता है, इसलिये इस अधिकरण को औपश्लेषिक कहते हैं ।

‡ पशियों के उड़ने का विषय आकाश और कान का विषय शब्द है, इस कारण यह वैपयिक अधिकरण कहाता है ।

१३४-वा०-सप्तमीविधाने क्तस्येन्विषयस्य कर्मण्युप-

संख्यानम् ॥ अ० २ । ३ । ३६ ॥

क्त प्रत्ययान्त शब्द से जहां इन प्रत्यय होता है वहां कर्म कारक में सप्तमी विभक्ति हो । जैसे-असावधीती व्याकरणे ऋ, परिगणितौ व्याज्ञिक इत्यादि ।

१३५-वा०-साध्वसाधुप्रयोगे च † ॥ २ । ३ । ३६ ॥

साधु और असाधु शब्द के प्रयोग में भी सप्तमी विभक्ति हो । जैसे-साधुर्देवदत्तो मातरि, असाधव आर्येषु दान्यवः इत्यादि ।

१३६-वा०-कारकार्हाणां च कारकत्वे ॥ २ । ३ । ३६ ॥

जहां कारक अपने कृत्य को ठीक ठीक प्राप्त हों वहां उनसे सप्तमी विभक्ति हो । जैसे-ऋद्धेषु मुञ्जानेषु दग्धिना आसतं इत्यादि । संपन्न पुरुष अन्ध अन्धे पदाथे भागत और दरिद्र वैठे देखते हैं ।

१३७-वा०-अकारकार्हाणां चाकारकत्वे ॥ २ । ३ । ३६ ॥

जहां अयोग्य कारक अपनी अयोग्यता को ठीक २ प्राप्त हों वहां सप्तमी विभक्ति हो । मूर्खेष्वामीनेषु ऋद्धा मुञ्जत, वृषलेष्वासीनेषु ब्राह्मणास्तरान्त इत्यादि । यहां मूर्ख और वृषल अपनी अयोग्यता को प्राप्त होते हैं, वही में सप्तमी हुई ।

१३८-वा०-तद्विपर्यासे च ॥ २ । ३ । ३६ ॥

और जहां इन कर्मों के बदलने में अर्थात् अच्छों को बुरों की योग्यता और बुरों को अच्छों की योग्यता हो वहां पूर्व प्रयुक्त शब्दों

ऋ यहां अभीत शब्द क्त प्रत्ययान्त इन् विषयक है उस के कर्म व्याकरण शब्द में सप्तमी होती है ।

† यहां से जो वार्तिक है, वे किसी के अपवाद नहीं, किन्तु अपूर्व विधायक हैं । क्योंकि वहां किसी सूत्र वा वार्तिक से सप्तमी प्राप्त नहीं है ।

में सप्तमी हो जैसे—ऋद्धेष्वासीनेषु मूखा मुखते, ब्राह्मणेष्वासीनेषु
बृपलास्तरन्ति इत्यादि ।

१३६-वा०-निमित्तात् कर्मसयोगे ॥ २ । ३ । ३६ ॥

कर्म सयोग में जिस निमित्त के लिये वह कर्म किया जाता है
उन निमित्तवाची शब्दों से सप्तमी विभक्ति हो । जैसे—

चर्मणि द्वापिनं हन्ति दन्तयोर्हन्ति कुञ्जरम् ।

केशेषु चमरीं हन्ति सीसि पुष्कलको हत ॥

(चर्मणि०) चर्म के लिये गैंडे को मारता है (दन्त०) दातों
के लिये हाथी को मारता है (केशेषु०) केशों के लिये चमरी अर्थात्
जहली सुरा गौ को मारता है और (सीसि पुष्कलको०) कस्तूरी
की चाहना कर्के पस्तूरिया मृग को मारता है, इस कारण चर्म
आदि शब्दों से सप्तमी विभक्ति हो जाती है ॥

१४०-यस्य च भावेन भावलक्षणम् ॥ अ० २।३।३७ ॥

जिस प्रिया से क्रिया का लक्षण किया जाय उस में सप्तमी
विभक्ति हो । जैसे—गोषु दुष्टमानासु गतो दुग्धास्वागतः † । यहाँ
भावेन प्रदण इसलिये है कि “या जटिल स मुहसे” इत्यादि में
सप्तमी न हो ।

१४१-पट्टी चानादरे ॥ अ० २ । ३ । ३८ ॥

अनादर अर्थ में जिस प्रिया से प्रिया का लक्षण किया जाय
वहा पट्टी विभक्ति और चकार से सप्तमी भां हो । जैसे—आहूय-

॥ गैंडे भादि को मारे बिना चाम भादि की प्राप्ति नहीं हो सकती,
विर दान भादि वस्तु देव देने, इस कारण चाम भादि उक्त क मारने से
विभक्ति है ।

† यहाँ दोहनकर से ममक क्रिया का लक्षण दिया जाता है, इस से
दोहन क्रिया में सप्तमी हुई ।

मानस्याहूयमाने वा गतः । आहूयमान अर्थात् युलाते दृष्ट का तिर-
स्कार करके चला गया । यहां आहूयमान शब्द में पष्ठी और सप्तमी
विभक्ति हुई हैं ।

१४२-स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतैश्च ।।

अ० २ । ३ । ३९ ॥

स्वामिन्, ईश्वर, अधिपति, दायाद, साक्षिन्, प्रतिभू और प्रसूत
इन शब्दों के योग में पष्ठी और सप्तमी विभक्ति हों । जैसे—स्वामिन्-
गवां स्वामी, गोपु स्वामी । ईश्वर-पृथग्व्या ईश्वरः, पृथग्व्यामीश्वरः ।
अधिपति-ग्रामस्याधिपतिः, ग्रामेऽधिपतिः । दायाद-क्षेत्रस्य क्षेत्रे वा
दायदः । साक्षिन्-देवदत्तस्य देवदत्ते वा साक्षी । प्रतिभू-धनस्य धने
वा प्रतिभूः । प्रसूत-गवां प्रसूतः, गापु प्रसूतः । इस सूत्र में स्वामिन्-
आदि शब्दों के योग में शेष कारक के होने से सर्वत्र पष्ठी प्राप्त थी,
सो सप्तमी भी हो जावे इसलिये यह सूत्र है ।

१४३-आयुक्तकुशलाभ्यां चासेवायाम् ॥ अ० २ । ३ । ४० ॥

जो आसेवा अथे में वर्तमान आयुक्त और कुशल शब्द हैं, उनके
योग में पष्ठी और सप्तमी विभक्ति हो । जैसे—आयुक्तः पठनस्य
पठने वा, कुशलो लेखनस्य लेखने वा । यहां आसेवा ग्रहण इसलिये
है कि "आयुक्तो वृषभः शकटे" इत्यादि में पष्ठी न हो । अधिकरण
में सप्तमी तो प्राप्त ही थी, पष्ठी होने के लिये यह सूत्र है ।

१४४-यतश्च निर्धारणम् ॥ अ० २ । ३ । ४१ ॥

जो समुदायवार्त्ता जाति आदि शब्दों से एक का पृथक् करना
है उसको निर्धारण कहते हैं जिससे निर्धारण अर्थात् किसी को

† यह चकार पष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का भाकर्षण होने
के लिये है

पृथक् किया जावे उस से पष्ठी, सप्तमी विभक्ति हों। जैसे—ब्राह्मणाना ब्राह्मणेषु वा देवदत्तः। श्रेष्ठतम, इससे यहां ब्राह्मण शब्द में पष्ठी, सप्तमी हो गई।

१४५—पञ्चमी विभक्ते ॥ अ० २। ३। ४२ ॥

पूर्व सूत्र से निर्धारण अर्थ में पष्ठी, सप्तमी विभक्ति प्राप्त है। उसका अपवाद यह सूत्र है। निद्धारण में जिसका विभाग किया जाय उसमें पञ्चमी विभक्ति हो। जैसे—पाटलिपुत्रेभ्यः सांकाश्या आढ्यतराः। इत्यादि जो पूर्वसूत्र से निर्धारण होता है वह समुदाय से एक ही का पृथक् भाव समझना और इस सूत्र से एक से दूसरे का विभाग होता है।

१४६—साधुनिपुणाम्यामर्चायां सप्तम्यप्रतेः ॥

अ० २। ३। ४३ ॥

जो पूजा अर्थात् सत्कारपूर्वक सेवा करने अर्थ में वर्तमान साधु और निपुण शब्द हों ता इन के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होवे, परन्तु प्रति के योग में इस अर्थ में भी न हो। जैसे—मातरि साधुः, पितरि साधुः, मातरि निपुणः, पितरि निपुणः इत्यादि। यहां अर्चा ग्रहण इसलिये है कि “साधुर्देवदत्तस्य पुत्रः” इत्यादि में न हा जाय। प्रति का निषेध इसलिये है कि “साधुर्देवदत्तो मातरं प्रति” यहां प्रति के योग में सप्तमी न हो।

१. इसका भूमिप्राय यह है कि सजातीयों में किसी को पृथक् करने में पूर्व (१४४) सूत्र की प्रवृत्ति होती है, और जहां सर्वदा प्रार्थक्य रहता है वहां भेद दिखाने के लिये इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। यद्यपि पाटलिपुत्र और सांकाश्या के रहने वाले प्राणिरूप से एक जाति के हैं, तथापि पाटलिपुत्र और सांकाश्या के भेद से उनका सदा ही भेद रहता है। जहां भेद भेद दोनों होता है, वहां पूर्वसूत्र (१४४) की प्रवृत्ति होती है। ३०मी०

१४७-वा०-अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम् ॥

अ० २ । ३ । ४३ ॥

जो प्रति के योग में सप्तमी का निषेध किया है सो प्रति आदि अन्य शब्दों के योग में भी समझा जावे । जैसे—साधुर्देवदत्तो मातर परि, मातरमनु, इत्यादि के योग में भी सप्तमी विभक्ति न हा ।

१४८-प्रसितोत्सुकाम्या तृतीया च ॥ अ० २ । ३ । ४४ ॥

ओ अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति प्राप्त है उसका अपवाद यह सूत्र है । प्रसित और उत्सुक शब्दों के योग में तृतीया और सप्तमी विभाक्त हों । जैसे—शै केशुपु वा प्रसित, मात्रा मातरि वा प्रसित, सत्येन सत्ये वा प्रसित । प्रसित कहत हैं जो उस में अतिप्रसक्त हो । गानेन गान वात्सुक. । उत्सुक कहत हैं जो किसा को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा हो ।

१४९-नक्षत्रे च लुपि ॥ अ० २ । ३ । ४५ ॥

यहा उस नक्षत्रवाची शब्द का प्रहण है । क जहा काल अर्थ में प्रत्यय का लुप हा जाता है । लुबन्त नक्षत्र से तृतीया और सप्तमी विभाक्त हों । जैसे—पुष्येण पुष्ये वा कार्यमाग्भेत त्यादि । पुष्य नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन कार्य का आरम्भ करे ।

अब जो अधिकरण सज्ञा के विशेष सूत्र हैं, सा लिखते हैं—

१५०-अधिशीङ्स्थासा कर्म ॥ अ० १ । ४ । ४६ ॥

अधिकरण सज्ञा का अपवाद यह सूत्र है जा अधिपूर्वक शीङ्, स्था और आस धातु वा आधार कारक है वह कर्म सज्ञक हा । कर्मकारक म द्वितीया कह चुके हैं । जैसे—खट्वाग्निशेते, भूमि-मग्निशेते । खट और भूमि में साते हैं । जैसे—सभामग्निशेते, सभामग्निशेते । सभा में बैठा है । यहा अधि उपसर्ग का प्रहण इस-लिये है कि "खट्वाग्निशेते, सभामग्निशेते" इत्यादि में न हो ।

१५१-अभिनिविशश्च ॥ अ० १ । ४ । ४७ ॥

यहां मण्डूकप्लुतगति मान के “परिक्रयणे०” (का० ५३) इस सूत्र से विकल्पर की अनुवृत्ति आती है। जो अभि और नि पूर्वक विश धातु का आधार कारक है वह निरूप्य करके कर्म सज्ञक हो, पक्ष में अधिकरण सज्ञा हो जावे। यह कर्मप्रवचनीय गति और उपसर्ग रुद्धा का अपवाद है। नह्यपवादविषयमुत्सर्गोऽभिनिविशते, नह्यपवादविषय उत्सर्गोऽभिनिविशते । यहा अपवाद विषय शब्द से कर्म सज्ञा पक्ष में द्वितीया और अधिकरण-सज्ञा पक्ष में सप्तमी विभक्ति हो जाती है। तथा-सन्मार्गमभिनिविशते, सन्मार्गोऽभिनिविशते इत्यादि।

१५२-उपान्वध्याड्वसः ॥ अ० १ । ४ । ४८ ॥

यह सूत्र भी अधिकरण सज्ञा का अपवाद है। जो उप, अनु, अधि और आङ्, उपसर्ग पूर्वक वस धातु का आधार कारक है वह कर्म सज्ञक हो। पर्वतमुपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति वा, प्राममुपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति वा इत्यादि। पर्वत और प्राम के समीप वा उन के बीच में वास करता है।

यह अधिकरण कारक का प्रकरण और ये सातों कारक पूरे हुए। अब इस के आगे कर्मप्रवचनीय का प्रकरण लिखेंगे, क्योंकि यह भी कारक से ही सम्बन्ध रखता है।

१५३-कर्मप्रवचनीयाः ॥ अ० १ । ४ । ८३ ॥

यहा से आगे कर्मप्रवचनीय का अधिकार है।

सज्ञा करने का प्रयोजन यही है कि थोड़े अक्षरों के कहने से बहुत अर्थ समझा जावे। जैसे—शयी, पवत, स्य, चन्द्र, पृथिवी आदि के कहने से बड़े बड़े अर्थ समझे जाते हैं।

(प्रश्न) कर्मप्रवचनीय इतनी बड़ी संज्ञा क्यों की ?

(उत्तर) भा०—अन्वर्था संज्ञा यथा विश्वायते, कर्म प्रोक्त-
वन्तः कर्मप्रवचनीया । जिस से यौगिक संज्ञा समझी जावे । जो
शब्द क्रिया को कह चुका हो उस को कर्मप्रवचनीय कहते हैं ।

१५४—कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया ॥ अ० २।३।८ ॥

जहां जहां कर्मप्रवचनीय शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति हैं
वहां वहां इसी सूत्र से होवे । जैसे—शाकल्यस्य संहितामनु प्रावर्षत्
इत्यादि । यहां संहिता शब्द से द्वितीया विभक्ति हुई है ।

१५५—अनुर्लक्षणे ॥ अ० १ । ४ । ८४ ॥

इस सूत्र में लक्षण शब्द हेतु का वाची है । उस हेतु अर्थ में
तृतीया विभक्ति थी, उसका अपवाद होने के लिये इस सूत्र का
आरम्भ है । नहीं तो (लक्षणेत्थ०) इस आगे के सूत्र से कर्मप्रव-
चनीय संज्ञा सिद्ध ही थी । जो लक्षण अर्थ में वर्तमान अनु शब्द
हो तो वह कर्मप्रवचनीय संज्ञक हो । जैसे—शाकल्यस्य संहितामनु
प्रावर्षत् इत्यादि । यहां संहिता शब्द में द्वितीया हुई है ।

१५६—तृतीयार्थे ॥ अ० १ । ४ । ८५ ॥

जो तृतीया विभक्ति के अर्थ में वर्तमान अनु शब्द है उस की
कर्मप्रवचनीय संज्ञा हो जैसे—नदीमनुगच्छन्ति तृणानि । नदी के
जल के साथ तृण चलते हैं, इत्यादि यहां भी नदी शब्द से द्वितीया
विभक्ति हुई ।

१५७—हीने ॥ अ० १ । ४ । ८६ ॥

इस सूत्र में हीन शब्द छोटे का वाची है । सो एक की अपेक्षा
में एक छोटा और बड़ा होता ही है, जो हीन अर्थ में वर्तमान अनु
हो तो उसकी कर्मप्रवचनीय संज्ञा हो । जैसे—अनु यास्कं नैरुक्ताः,
अनु गोतमं नैयायिकाः, अनु शाकटायनं चैयाकरणा । यहां यास्क

आदि शब्दों की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने से उन शब्दों से द्वितीया विभक्ति होती है ।

१५८-उपोऽधिके च ॥ अ० १ । ४ । ८७ ॥

जो अधिक और चकार से हीन अर्थ में भी वर्तमान उप शब्द हो तो उस की कर्मप्रवचनीय संज्ञा हा । इस का फल—

१५९-यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी ॥

अ० २ । ३ । ६ ॥

द्वितीया विभक्ति का अपवाद यह सूत्र है । जिससे अधिक और जिस का ईश्वर वचन अर्थात् बड़ों के बीच में अधिक सामर्थ्य कहना हो वहा कर्मप्रवचनीय शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति हो जैसे—प्रजागामुप राजा ॥ अधिक भ्रःण इसलिये है कि—उप शाक-टायनं वैयाकरणाः † । यहां न हो इत्यादि ।

१६०-अपपरो वर्जने ॥ अ० १ । ४ । ८८ ॥

वर्जन कहते हैं निपे र का । जो वर्जन अर्थ में वर्तमान अप और परि शब्द हैं वे कर्मप्रवचनीय सज्ञक हो ।

१६१-आह् मर्यादावचने ॥ अ० १ । ४ । ८९ ॥

मर्यादा उस को कहते हैं कि यहां तक यह वस्तु है । उस का पहना, मर्यादा वचन कहाता है, जो मर्यादा वचन अर्थ में वर्तमान आह् शब्द है, उस की कर्मप्रवचनीय संज्ञा हो । इन दोनों का फल—

॥ यहां प्रजा के बीच राजा का अधिक सामर्थ्य है इसलिये उप की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होकर उस के योग में प्रजा शब्द से सप्तमा विभक्ति हुई है ।

† शाकटायन ने भ्रूप वैयाकरण न्यून हैं । यहां अधिक भ्रं के न होने से द्वितीया ही होती है ।

और स्मरण आप ने किया। यहां कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने से उपसर्गकाये पत्व नहीं हुवा। पूजा ग्रहण इसलिये है कि "सुपित्तं कि स्वया" क्या तूने अच्छा सींचा, इत्यादि में कर्मप्रवचनीय संज्ञा नहीं होती।

१६६—अतिक्रमणे च ॥ अ० १ । ४ ९५ ॥

। जो अतिक्रमण अर्थात् उल्लङ्घन और पूजा अर्थ में वर्तमान अति शब्द हो तो वह कर्मप्रवचनीय संज्ञक होवे। जैसे—अतिक्रमण—अतिसक्तिमेव भवता। ठीक २ नहीं सींचा किन्तु कीच कर दी। पूजा—अतिसेवितो गुरुस्त्वया। तूने गुरु की अति सेवा की। यह पूजा कहाती है। इसका फल यह है कि पत्व का निषेध हो जाता है। यहां इन दो अर्थों का ग्रहण इसलिये है कि 'सुष्ठुर्तं मया'। कोई अभिमान करता है कि मैंने बड़ी अच्छी स्तुति की, इत्यादि में कर्मप्रवचनीय संज्ञा के न होने से पत्व का निषेध न हुआ।

१७०—अपिः पदार्थसभावान्ववसर्गगर्हासमुचयेषु ॥

अ० १ । ४ । ६६ ॥

। जो पदार्थ, संभावना, अन्ववसर्ग, गर्हा और समुच्चय इन पांच अर्थों में वर्तमान पद उसके योग में अपि शब्द की कर्मप्रवचनीय संज्ञा हो। जैसे—सपिपाऽपि स्यात्। कुछ घृत भी हाना चाहिये। सम्भारना = सम्भार होना—अपिसिन्धेद् वृत्तशतम्। सम्भव है कि यह मनुष्य सौ वृत्त तक सींच सके। अन्ववसर्ग = आज्ञा करना—अपिसिद्धिः। तू सींच। गर्हा = निन्दाकरना—धिक्ते जन्म यत्पापाणामपि स्तौपि। सरं मनुष्यजन्म का धिक्कार है, जो तू पत्थरों की भी

१. कर्मप्रवचनीय संज्ञा उपसर्ग संज्ञा की वाचक है, उपसर्ग संज्ञा न होने से पत्व नहीं होता। पु० मी०।

स्तुति करता है । समुच्चय क्रियाओं का इकट्ठा होना अपि-
सेवस्व, अपिस्तुहि । सेवन भी कर स्तुति भी कर । इन सब अर्थों में
अपि शब्द की उपसर्ग सज्ञा न होने के लिये कर्मप्रवचनीय संज्ञा
की है जिससे उक्त प्रयोगों में मूढेन्य प्रकार न हो जावे । यहां
पदार्थादि अर्थों का ग्रहण इसलिये है कि “अपिकृत्य” इत्यादि में
कर्मप्रवचनीय संज्ञा होके ल्यप् का निषेध न हो ।

१७१-अधिरीश्वरे ॥ अ० । १ । ४ । ६७ ॥

इस सूत्र में ईश्वर शब्द से समर्थ मनुष्य का ग्रहण समझना
चाहिये । जो ईश्वर अर्थ में वर्तमान अपि शब्द है उसको कर्मप्रवचीय
सज्ञा हो । अधिग्रामे त्रित्रियः, यह त्रित्रिय ग्राम में समर्थ अर्थात् उसका
अधिष्ठाता है । यहां कर्मप्रवचनीय संज्ञा के होने से छ सप्तमी
विभक्ति हो जाती है । यहां ईश्वर ग्रहण इसलिये है कि “स्वत्वाम-
धिरोते” यहां कर्मप्रवचनीय संज्ञा के नहीं होने से द्वितीया विभक्ति
हुई है ।

१७२-विभाषा कृञि ॥ अ० १ । ४ । ९८ ॥

जो कृञ् धातु के प्रयोग में युक्त अधि शब्द हो तो वह विकल्प
करके कर्मप्रवचनीय संज्ञक हो । अधिकृत्वा अधिकृत्य, यहां जिस
पक्ष में कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है वहां † समास के न होने से

छ (सप्तमी विभक्ति) यस्मादधिकं यस्य चेधरवचनं तत्र सप्तमी ।
यह सूत्र पूर्व पृष्ठ (सव्या १५९) लिख आये हैं ।

† यहां कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है, वहां गति संज्ञा नहीं होने पाती,
उसके न होने से “गतिश्च” [अष्टा० १ । ४ । ५९] इससे समास भी
नहीं होता, समास के न होने से “समासेऽनन्तरेणैकवो रूपम्”
[भा० १५३२] इससे रूप भी नहीं होता ।

क्त्वा के स्थान में ल्यप् नहीं होता । और जिस पक्ष में कर्मप्रवचनीय संज्ञा नहीं होती, उसमें समास हो के क्त्वा के स्थान में ल्यप् आदेश हो जाता है, इसके अन्य भी बहुत प्रयोजन हैं ।

इति श्रीमत्स्वामिदयानन्दसरस्वतीव्याख्याकृतोऽष्टाध्याय्यां कारकीयोऽयं ग्रन्थः समाप्तः ॥

वसुरामाङ्कचन्द्रेऽब्दे नभस्यस्यासिते दले ।

अष्टम्यां बुधवारेऽयं ग्रन्थः पूर्तिं गतः शुभः ॥

संवत् १९३८ भाद्र.वदी बुधवार के दिन यह कारकीय ग्रन्थ श्रीयुत स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने पूरा किया ।

आर्यसमाज के नियम

- १—सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है ।
- २—ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्त्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है ।
- ३—वेद सभ सत्य विद्याओं का पुस्तक है । वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परमधर्म है ।
- ४—सत्य के प्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिये ।
- ५—सब काम धर्मानुसार, अर्थात् सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिये ।
- ६—संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना ।
- ७—सभ से प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्त्तना चाहिये ।
- ८—अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये ।
- ९—प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिये, किन्तु सब की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये ।
- १०—सभ मनुष्यों को सामाजिक मर्यादितकारी नियम पालने में परमन्त्र रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब मग्न रहें ॥

॥ ओ३म् ॥

अथ वेदांगप्रकाशः

सामासिकः

प्रकाशक—

आर्य साहित्य मण्डल लि०, अजमेर.

॥ ओ३म् ॥

अथ वेदाङ्गप्रकाशः

★ तत्रत्यः पञ्चमो भागः ★

सामासिकः

❀ पाणिनीयाष्टाध्याय्यां चतुर्थो भागः ❀

श्रीमत्स्वामिदयानन्दसरस्वतीकृतव्याख्यासहितः ।

श्रीपण्डितयुधिष्ठिरमीमांसकेन संशोध्य
टिप्पणीभिरलंकृत



पठनपाठनव्यवस्थायां सप्तमं पुस्तकम्

प्रकाशक—

श्याय साहित्य मण्डल लिमिटेड, अजमेर

प्रथमावृत्ति

१०००

सन् २०१३

दयानन्दाब्द १३१

मूल्य

₹२) आने

विषय सूची

विषय		पृष्ठ
१. समाज की उपक्रमणिका	•••	१
२. अव्ययीभाव समास	•	४
३. तत्पुरुष समास	••••	११
४. बहुव्रीहि समास	••	४३
५. द्वन्द्व समास	••	५९
६. एकवद्भाव प्रकरण	•	६३
७. एकशेष प्रकरण	•••	६८
८. उत्तरपदादेश प्रकरण	••••	७५

मुद्रक—

शिरीशचन्द्र शिवहरे एम० ए०

दी फ़ाइन आर्ट मिडिंग प्रेस, अजमेर.

अथ सामासिक भूमिका

समास उसे कहते हैं कि जिसमें अनेक पदों को एक पद में जोड़ देना होता है। जब अनेक पद मिल के एक पद हो जाता है - तब पद और एक स्वर होता है। पर [यह] समासविद्या के जाने बिना कुछ विदित नहीं हो सकता। इसलिये समासविद्या -अवश्य जाननी चाहिये।

समास चार प्रकार का होता है

एक अव्ययीभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा बहुव्रीहि और चौथा -द्वन्द्व। अव्ययीभाव में पूर्वपदार्थ, तत्पुरुष में उत्तरपदार्थ, बहुव्रीहि में अन्य पदार्थ और द्वन्द्व में उभय अर्थात् सब पदों के अर्थ प्रधान -रहते हैं। जिसका अर्थ मुख्य हो वही प्रधान कथना है।

अव्ययीभाव के दो भेद होते हैं। एक पूर्वपदाव्ययीभाव दूसरा उत्तरपदाव्ययीभाव। तत्पुरुष नव प्रकार का होता है। द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पञ्चमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, द्विगु, नव् और कर्मधारय। बहुव्रीहि दो प्रकार का है। एक तद्गुणसंविज्ञान, दूसरा अतद्गुणसंविज्ञान। द्वन्द्व भी तीन प्रकार का होता है। एक इतरेतरयोग, दूसरा समाहार और तीसरा एकशेष^१।

१. वस्तुतः एकशेष द्वन्द्व समास का भेद नहीं है, क्योंकि द्वन्द्व समास का विधान अष्टाध्यायी के द्वितीयाध्याय के द्वितीय पाद में किया है और एकशेष का समास प्रकरण से बाहर प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद

इस प्रकार से ४ समासों के १६ सोलह भेद समझने योग्य हैं । और इनमें से अव्ययीभाव, तत्पुरुष और बहुव्रीहि लुक् और अलुक् भेद से दो दो प्रकार के होते हैं । इनके उदाहरण आगे आवेंगे । इन समासों को यथार्थ जानने से सर्वत्र मिले हुए पद, पदार्थ और वाक्यार्थ जानने में अति सुगमता होती है और समस्त पदयुक्त संस्कृत बोलना तथा दूसरे का कहा समझ भी सकता है । यह भी व्याकरण विद्या की अवयव विद्या है जैसी कि सन्धि, विषय और नामिक विद्या लिख आये । यहां जो पठनपाठन के लिये एक उदाहरण वा प्रत्युदाहरण लिखा है इसे देख इसके समान अन्य उदाहरण और प्रत्युदाहरण भी ऊपर से पढ़ने पढ़ाने चाहिये ।

इसके आगे प्रकृत जो कुछ लिखा जाता है वह सब “समर्थः पदविधिः” इस सूत्र के भाष्यस्य वचन हैं जिसको [विशेष] जानने की इच्छा हो वह उक्त सूत्र के महाभाष्य में देख लेवे । “सापेक्षमसमर्थं भवतीति” जो एक पद के साथ अपेक्षा करके युक्त हो वह समर्थ होता है और जो अनेक पदों के साथ आकर्षित होता है वह प्रायः समास के योग्य नहीं होता । जो सापेक्ष असमर्थ होता है ऐसा कहा जावे तो “राजपुरुषो दर्शनियः” यहां वृत्ति प्राप्त न होगी । यह दोष नहीं, क्योंकि यहां प्रधान सापेक्ष है, प्रधान सापेक्ष का भी समास होता है अतः जहां प्रधान सापेक्ष है वहां वृत्ति अर्थात् समास होगा । [यदि प्रधान सापेक्ष का समास होता है तो जहां अप्रधान (गौण) सापेक्ष होगा वहां समास नहीं होगा । यथा—] देवदत्तस्य गुरुकुलम् । यह दोष नहीं, यहां पछी गुरुकुल समुदाय की अपेक्षा करती है । [यदि] जहां पछी समुदाय की अपेक्षा

में । परगुह्य और एकदोष दोषों के विग्रह में चकार की समासता होने से एकदोष को इन्द्र के साथ पदा है । यु० मी० ।

नहीं करती वहां समास भी नहीं होता तो “किमोदनः शालिनाम्” (यह कौन से शाली अर्थात् चावलों का ओदन है ऐसे अर्थ में) किम् का ओदन के साथ समास प्राप्त नहीं होगा इसलिये—

वा०--स विशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य वा विशेषणं न प्रयुज्यत इति वक्तव्यम् ॥

अनेक विशेषण युक्त विशेष्य का समास और समस्त का विशेषण के साथ योग होता नहीं। सविशेषण जैसे ‘ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः’ यहां राजा का विशेषण ऋद्ध होने से पुरुष के साथ राजन् शब्द का समास नहीं होता। वृत्त = राजपुरुषः। इस समस्त राजन् शब्द के साथ ऋद्ध विशेषण का योग भी नहीं हो सकता ॐ।

समास समर्थों का होता है। समर्थ किसको कहते हैं? पृथक् पृथक् अर्थ वाले पदों के एकार्थीभाव को। यहां अगले वाक्यों में पृथक् पृथक् अर्थ वाले पद हैं। जैसे—राज्ञः पुरुषः। इस वाक्य में “राज्ञः” और “पुरुषः” ये दोनों पद अपने अपने अर्थ के प्रतिपादन करने में समर्थ हैं, और समास होने से इनका एकार्थीभाव हो जाता है। यथा—राजपुरुष इत्यादि प्रयोगों में समास कृत क्या विशेष

* अर्थात् वही असमर्थ होता है कि जिसका सम्बन्ध अनेक पदों के साथ हो। जैसे राजन् शब्द का सम्बन्ध ऋद्ध और पुरुष के साथ होने से समास न हुआ, वैसे सर्वप्रथम समझना चाहिये। और जहां अर्थ की प्रतीति होती है वहां तो सविशेषण और वृत्त का भी विशेषण के साथ योग होता है। जैसे ‘देवदत्तस्य गुरुकुलम्’ यहां कुल के साथ समास और देवदत्त का सम्बन्ध भी हो गया।

है। विभक्ति का लोप^१ अव्यवधान^२ यथेष्ट परस्पर असम्बन्ध^३ एक स्वर^४ एक पद^५ और एक विभक्ति^६ रहती है।

एकार्थीभाव पक्ष में समर्थे पद का अर्थ-संगतार्थः समर्थः, संसृष्टार्थः समर्थः इति। जैसे 'संगतं घृतम्' ऐसा कहने से मिला हुआ अर्थ विदित होता है। वैसे 'संसृष्टोऽग्निरिति' ऐसा कहने से भी उक्त ही अर्थ विदित होता है। और जहां व्यपेक्षा सामर्थ्य होता है वहां "संप्रोक्तितार्थः समर्थः" और "संबद्धार्यः समर्थः" इति यहां अनेक पदों का सम्बन्धमात्र प्रयोजन है इस व्यपेक्षा में अनेक पद अनेक स्वर अनेक विभक्ति वर्तमान रहती हैं। इसलिये समास विद्या का समझ लेना सब मनुष्यों को अत्यन्त उचित है।

इति भूमिका

१. जैसे वाक्य में 'राजः पुरुषः' में पृथक् पृथक् विभक्ति होती है वैसे समास में नहीं होती। मध्य की विभक्ति का लोप होता है।
२. जैसे वाक्य में 'राजः ऋद्धस्य पुरुषः' में बीच में 'ऋद्धस्य' का व्यवधान है वैसे समास में नहीं होता।
३. वाक्य में परस्पर यथेष्ट सम्बन्ध होता है—'राजः पुरुषः, पुरुषो राजः' वैसे समास में नहीं होता। समास में नियम से राज का पूर्व प्रयोग होता है।
४. वाक्य में 'राजः पुरुषः' दोनों पदों का पृथक् पृथक् स्वर होता है, समास में दोनों का एक स्वर हो जाता है।
५. वाक्य में 'राजः पुरुषः' दो पद होते हैं, समास में 'राजपुरुषः' एक पद बन जाता है।
६. वाक्य में पृथक् पृथक् पद होने से विभक्ति भी पृथक् पृथक् होती है, समास में एक विभक्ति होती है।

ओ३म्

अथ सामासिकः

अथ सामासिकःः प्रारभ्यते । तत्र समासाश्चत्वारः—
प्रथमोऽऽयधीभावः, द्वितीयस्तपुरुषः, तृतीयो बहुव्रीहिः,
चतुर्थश्च द्वन्द्वः ।

१-समर्थः पदविधिः † ॥ २ । ३ । १ ॥

‡ समर्थपदयोरयं विधिशब्देन सर्वविभक्तयन्तः समासः ।

समर्थस्य विधिः समर्थविधिः, समर्थयोर्विधिः समर्थविधिः,
समर्थानां विधिः समर्थविधिः, समर्थाद् विधिः समर्थविधिः,
समर्थे विधिः समर्थविधिः । पदस्य विधिः पदविधिः, पदयो-
र्विधिः पदविधिः, पदानां विधिः पदविधिः, पदाद् विधिः पद-
विधिः, पदे विधिः पदविधिः । समर्थविधिश्च समर्थविधिश्च
[समर्थविधिश्च] समर्थविधिश्च समर्थविधिश्च समर्थविधयः ।
पदविधिश्च पदविधिश्च [पदविधिश्च] पदविधिश्च पदविधिश्च

ः समासानां व्याख्यानो ग्रन्थः सामासिकः । जित्प्रथमसमासो
की व्याख्या हो उसका नाम सामासिक है ।

† यह मूल एक पद भी। अनेक पदों के सम्बन्ध में साधुत्व
विधायक है ।

‡ जो पद भागे व्याख्या लिखी जाती है वह सब महाभाष्य की है ।

पदविवयः । समर्थविधयश्च पदविधयश्च समर्थः पदविधिः ।
पूर्वः समास उत्तरपदलोपी यादृच्छिकी च विभक्तिः । सामर्थ्यं
द्विविधम्—एकार्थीभाव व्यपेक्षा च ।

यह महाभाष्य का बचन है । जिसमें भिन्न-पदों का एकपद,
अनेक स्वर का एकस्वर, अनेक विभक्तियों का एक विभक्ति हो
जाता है, उसको एकार्थीभाव और एकपद का अनेक पदों के साथ
सम्बन्ध होने को व्यपेक्षा कहते हैं । सां [एकार्थीभाव सामर्थ्ये
समास में और व्यपेक्षा सामर्थ्ये] प्रत्ययविधान और पराङ्गवद्भाव में
जाननी चाहिये । समास का प्रयोजन यह है कि अनेक पदों का
एकपद, अनेक विभक्तियों की एक विभक्ति और अनेक स्वरों का
एक स्वर होना । “वृत्तिस्तर्हि कस्मान्न भवति—महत्कष्ट श्रित
इति । सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य वा विशेषण न प्रयुज्यत
इति” । यहाँ महत् शब्द विशेषण और कष्ट विशेष्य है । फिर
विशेषण सहित जो कष्ट है सा श्रित के साथ समास को प्राप्त नहीं
होता और जो समास कर भी लें ता भी कष्ट का श्रित के साथ
विशेषण का योग नहीं हो सकता । यहाँ वृत्ति नाम समास का है ।
इस सूत्र के उदाहरण तथा प्रत्युदाहरण आगे कहेंगे ।

२—सुग्रामन्त्रिते पराङ्गवत् स्वरे ॥ २ । १ । २ ॥

जो आमन्त्रित पद परे हो तो पूर्व सुवन्त को पराङ्गवद्भाव स्वर
विधि करने में होवे, अर्थात् आमन्त्रित पद का जो स्वर है वही पूर्व
सुवन्त का स्वर हो जावे । सत्रोधन पद के परे सुवन्त पूर्व पद के
स्थान में पराङ्गवत् अर्थात् सत्रोधन पद का जो स्वर है वही स्वर हो
जाता है । कुरुडेनाटन्, परशुना वृश्चन्, मद्राणा राजन्, कश्मीराणा
राजन्, मगधाना राजन् । सुषिति किम्—पीड्ये पीड्यमान ।
आमन्त्रित इति किम्—गेहे गार्थे । परप्रहण किम्—पूर्वस्य माभूत्,

देवदत्तस्य कुरुडेनाटन् । स्वर इति किम्-कूपे सिञ्चन्, चर्म^१ नमन् ।
पत्वण्ण्व प्रनि पराङ्गवन्न भवति ।

३-सुवन्तस्य पराङ्गवद्भावे समानाधिकरणस्योपसंख्यान-
अनन्तरत्वात् ॥ २ । १ । २ ॥

जैसे—तीक्ष्णया सूच्या सीव्यन्, तीक्ष्णेन परशुना वृश्चन् ।

४-वा०-अव्ययानां प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥

उच्चैरधीयान । नीचैरधीयान ॥

५-प्राक् कडारात् समासः ॥ २ । १ । ३ ॥

जो इस सूत्र से आगे “कडाराः कर्मधारये”^२ यह सूत्र है वहां
सक समास का अधिकार जानना योग्य है ।

६-सह सुपा ॥ २ । १ । ४ ॥

सहग्रहणं योगविभागार्थम् । सह सुप् समस्यते । केन सह ?
समर्थन । अनुव्यचलत्, अनुविशत् । ततः सुपा-[सुपा] च सह
सुप् समस्यते । अधिकारश्च लक्षणं च । यस्य समासस्यान्यल्लक्षणं
नास्ति, इदं तस्य लक्षणं भविष्यति । उदाहरणम्—अजाकृपाणीयम् ।
पुनरुत्स्यूतं वासो दयम्, पुनर्निष्कृतो रथः । ऐसा जानना कि जिस
[समास] का विधायक कोई सूत्र न होवे उस समास का सिद्धि
करने वाला यह सूत्र है । यहां से आगे तीन पद का अधिकार है ।
सो ये हैं—सुप्, सह और सुपा ।

७-वा०-इवेन सह समासो विभक्त्यलोपः पूर्वपद-
श्रुतिस्वरत्वश्च वक्तव्यम् ।

जैसे—वाससीइय, कन्येइव ।

८-अव्ययीभावः ॥ २ । १ । ५ ॥

यहां से आगे जो समास कहेंगे, उसकी अव्ययीभाव संज्ञा जानना चाहिये । पूर्वपदार्थप्रधानोऽव्ययीभावः । अव्ययीभाव समास में पूर्वपद का अर्थ प्रधान होता है ।

६-अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिवृद्धार्थाभावात्त्या-
ऽसम्प्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चाद्यथाऽऽनुपूर्व्ययौगपद्यसादृश्यसंपत्ति-
साकृत्याऽतवचनेषु ॥ २ । १ । ६ ॥

विभक्ति से लेके अन्त शब्द पर्यन्त १६ (सोलह) अर्थ हैं उनमें वर्तमान जो अव्यय हैं सो सुबन्त के साथ समास पावें, वह अव्ययीभाव संज्ञक हो । वचन शब्द का विभक्ति आदि सबके साथ योग जानना । विभक्ति—'स्त्रीष्वधिमृत्य कथा प्रवर्तते [अधि स्त्री, अधि-कुमारी यहां] 'अव्ययीभावश्च' (अष्टा० २।४।१८ ॥ सामा० ३२४) इस सूत्र से नपुंसक लिङ्ग होता है ।

१०-ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य ॥ १ । २ । ४७ ॥

जो नपुंसक लिङ्ग अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक हो तो उसके अच् को ह्रस्व हो । अधिस्त्रि, अधिकुमारि इत्यादि । नपुंसक इति किम्-प्रामणीः, सेनानीः । प्रातिपदिकस्येति किमर्थम्-कारणं तिष्ठतः-
कुड्ये तिष्ठतः ।

["ह्रत्ताद्धतसमासाश्च" (ना० ४) से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वादि की उत्पत्ति होकर—अधिस्त्रि-सु-

११-अव्ययीभावाश्च ॥ १ । १ । ५५ ॥

अव्ययीभावसमास की अव्यय संज्ञा होती है । अव्यय संज्ञा होकर—

१२-अव्ययादात्सुपः ॥ २ । ४ ॥

अव्यय संज्ञक से परे आप् लुप् का लोप होता है । सुप् लोप

होकर—अबिलि ।] समीपवचने—कुम्भस्य समीपम् उपकुम्भम्, उपमणिकम्, उपशालम् । [सुप् का लुक् प्राप्त होने पर—]

१३-नाव्ययीभावादतोऽम् त्वपञ्चम्याः ॥२।४।८३॥

अदन्त अव्ययीभाव समास से सुप् का लुप् न हो, किन्तु उसको अम् आदेश हो जाय पंचमी को वर्ज के । जैसे—उपराजम्, अधिराजम्, “अनञ्” [सा० ३५] इति टच् । उपमणिकं तिष्ठति, उपमणिकं पश्य, उपकुम्भं पश्यति । अपञ्चम्या इति किम्-उप कुम्भादानय ।

१४-तृतीयासप्तम्योर्बहुलम् ॥ २ । ४ । ८४ ॥

अदन्त अव्ययीभाव समास से तृतीया और सप्तमी को अम् आदेश बहुल करके हो, अर्थात् पञ्च में लुक् हो । जैसे उपकुम्भं कृतम्, उपकुम्भेन कृतम्, उपकुम्भं निषेहि, उपकुम्भे निषेहि ।

समृद्धि—मद्राणां समृद्धिः सुमद्रम्, सुमगधं वर्तते । व्यृद्धि = ऋद्धि का न होना—गवदिकानामृद्धेरभावः दुग्गेवदिकम्, दुर्यवनम् वर्तते । अर्थाभाव = वस्तु का अभाव—मक्षिकाणामभावो निमेषिकम्, निमेषकम् वर्तते । अत्ययः = नाशः—अतीतानि हिमानि यं समयं निहिमम्, निःशीतं वर्तते । असंप्रति अर्थात् इस समय न हो । संप्रति क्षुन्नस्ति अतिक्षुधम्, अतितैसुकम् । शब्दप्रादुर्भाव = शब्द का प्रकाश होना । [इति पाणिनि, तत्पाणिनि । पश्चात्—] रथानां पश्चात्—अनुरथं पादातम् । योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्तिः सादृश्यं चेति यथाथाः । अनुरूपम्, यह रूप के योग्य है । [वीप्सा-] अर्थमर्थं प्रतीति प्रत्यर्थम् । पदार्थानतिवृत्ति—यथाशक्ति, यथाबलमित्यादि । आनुपूर्व्यम्—अनुक्रमम्, अनुभूयेषु प्रविशन्तु भवन्तः । योगपद्य = एककालम्—सचक्र धेहि, युगपच्चक्रं धेहीत्यर्थः । सादृश्य = नाम समान—सदृशः सख्या ससखि । संपत्तिः अच्छे प्रकार प्राप्ति—मद्राणः

संपत्तिः सव्रह्म, सधनम् देवदत्तस्य । साकल्य नाम सब—तुपेण सह
मुङ्क्ते सतुपम्, सवुसम् । अन्तरचन—

१५—ग्रन्थान्ताधिके च ॥ ६ । ३ । ७९ ॥

जो ग्रन्थ उत्तर पद परे हो तो ग्रन्थान्त में तथा अधिक अथे में
वर्तमान जो सह शब्द है उसको स आदेश हो । सव्योतिषमधीते,
समुहूर्त्तम्, ससप्तहं व्याकरणमधीते, सभाष्यम्, सामान्यधीते ।
अधिके—सद्रोणा खारी, समाप कापोपण ।

१६—अव्ययीभावे चाकाले ॥ ६ । ३ । ८२ ॥

अव्ययीभाव समास में कालवाची भिन्न उत्तरपद परे हो तो
सह को स आदेश हो । सचक्रम्, सवुसम् । अकाल इति किम्—
सह पूर्वाह्नम् ।

१७—यथा सादृश्ये ॥ २ । १ । ७ ॥

जो सादृश्य भिन्न अर्थ में अव्यय सो सुबन्त के संग समास को
प्राप्त हो, सो समास अव्ययीभाव सङ्गक हो । यथावृद्धं ब्राह्मणाना-
मन्त्रयस्व, ये ये वृद्धाः यथावृद्धम्, यथाऽध्यापकम् । असादृश्य इति
किम्—यथा देवदत्तस्तथा यज्ञदत्त ।

१८—यावद्वधारणे ॥ २ । १ । ८ ॥

जो अवधारण अर्थ में वर्तमान अव्यय सो सुबन्त के संग
समास पावे, [सो अव्ययीभाव सङ्गक हो] । यावद्वमत्र ब्राह्मणा-
नामन्त्रयस्व, यावन्त्यमत्राणि सभवन्ति पंच पङ् वा तावत्
आमन्त्रयस्व । अवधारण इति किम्—यावदसं तावद्भुक्तम्, नाव-
धारयामि क्रियन्मया मुक्तमिति ।

१९—सुप्रतिना मात्रार्थे ॥ २ । १ । ६ ॥

मात्रा विन्दुः स्तोत्रमल्पमिति पर्यायाः । जो मात्रार्थ में वर्तमाना

प्रति उसके साथ सुबन्त समास पावे, सा अव्ययीभाव संज्ञक हो । अस्यत्र किञ्चिच्छक-शाकप्रति, सूपप्रति, ओदनप्रति । मात्राथे इति किम्—वृत्त प्रति विद्यातत विद्युन् । सुबिति वर्तमान पुनः सुब्रह्मण-मव्ययनिवृत्त्यथेम् ।

२०—अक्षशलाकासख्याः परिणा ॥ २ । १ । १० ॥

जो अक्ष, शलाका और सख्यावाची शब्द एक द्वि त्रि इत्यादि परि के साथ समास को प्राप्त हों, वह अव्ययीभाव संज्ञक समास है । अक्षेण परिकाडन्त इति अक्षपाग, शलाकापरि, एकपरि, द्विपरि, त्रिपरि ।

२१—अक्षशलाकयोश्चैकत्रचनान्तयोरिति वक्तव्यम् ॥

२ । १ । १० ॥

इह मामूत्—अक्षभ्या वृत्तमक्षेवृत्तम् ।

२२—वा०—कितवव्यवहार इति वक्तव्यम् ॥२।१।१०॥

इह मामूत्—अक्षेणेन न तथा वृत्त शटकेन तथा पूर्वमति ।

२३—विभाषा ॥ २ । १ । ११ ॥

अधिकार । इसके आगे जो जो समास कहेंगे सो सा विभाषा करके होंगे अथात् पक्ष में विमद् भी रहेगा । जहा जहा रि०' ऐसा संकेत करें वहा वहा विकल्प जानना ।

२४—अपपरिग्रहिरञ्चवः पञ्चम्या ॥ २ । १ । १२ ॥

जो अप परि ग्रहिस और अञ्चु का सुबन्त के साथ समास विकल्प करके होता है वह अव्ययीभाव कहाता है । जैसे—अपत्रिगर्तं वृष्टा देव', अप त्रिगर्तेभ्यो वा, [परित्रिगर्तम्, परि त्रिगर्तेभ्यो वा]

१. इस ग्रन्थ में जहाँ जहाँ '१३०' देखा संकेत था, वही वही सुगमता के लिये हमन पाठ पूरा कर दिया है । ६० मा० ।

प्रामाद् बहिर्बहिप्रामम्, बहिप्रामात् । बहिश्शब्दयोगे पञ्चमीभावस्यै-
तद्व ज्ञापकम् । [प्राप्राम, प्राप्रामाद्वा] ।

२५—आहमर्यादाभिविधोः ॥ २ । १ । १३ ॥

जो मर्यादा और अभिविधि अर्थ में आह पञ्चम्यन्त सुबन्त के
सङ्ग विकल्प करके समास को प्राप्त होता है, सो समास अव्ययी-
भाव सङ्गक हावे । [मयादा—] पाटलिपुत्र वृष्टो देव, आपाटलि-
पुत्रात् । अभिविधि—आकुमार यश पाणिने, आकुमारैर्म्य ।

२६—लक्षणोनाभिप्रती आभिमुख्ये ॥ २ । १ । १४ ॥

जो आभिमुख्य अर्थ हो तो लक्षण अथात् चिह्नवाची सुबन्त
के साथ अभि और प्रति विकल्प करके समास का प्राप्त हों, वह
अव्ययीभाव समास हो । जैसे—अभ्यभि शलभा पतन्ति, अभिमभि,
प्रत्यभि, अभि प्रति । आभिमुख्ये किम्—दश प्रति गत ।

२७—अनुर्यत्समया ॥ २ । १ । १५ ॥

समया नाम समीपता । जिसके समीप को अनु कहता हो उसी
लक्षणवाची सुबन्त के साथ विकल्प करके समास पावे, सो
अव्ययीभाव सङ्गक हो । जैसे—अनुवनमशनिर्गत, अनुवृत्तम् । अनु
रिति किम्—वन समया । यत्समयति किम्—वृत्तमनु विधातत विद्युत् ।

२८—यस्य चायाम ॥ २ । १ । १६ ॥

आयामो दैर्घ्यम् । जिसके लम्बेपन को अनु कहता हो उसी
लक्षणवाची सुबन्त के सङ्ग विकल्प करके समास पावे, सो अव्ययी
भाव सङ्गक हा । अनुगह वाराणसी, अनुयमुन मथुरा । यमुनाऽऽ-
यामेन मथुराऽऽयामो लक्ष्यत । आयाम इति किम्—वृत्तमनुविधातते
विद्युत् ।

२९—तिष्ठदुगुप्रभृतीनि च ॥ २ । १ । १७ ॥

जो तिष्ठद्गु आदि शब्द निपातन किये हैं वे अव्ययीभाव संज्ञक हों। तिष्ठद्गु कालविशेषः। जैसे—तिष्ठन्ति गावा यस्मिन् काले दोहनाय स तिष्ठद्गु कालः, वहद्गु, आयतीगवम्।

३०—वा०—खलेयवादीनि प्रथमान्तान्यन्यपदार्थे समस्यन्त इति वक्तव्यम्।

जैसे—खलेवयम्, खलेयुसम्, लूनयवम्, लूयमानयवम्, पूतयवम्, संहितयुसम्, संहियमाणधुसम्। एते कालशब्दाः। समभूमि, समपदाति, सुपमम्, विपमम्, निष्पमम्, दुष्पमम्, अपसमम्, [आयतीसम्] प्राहणम्, प्रथम्, प्रमृगम्, प्रदक्षिणम्, अपरदक्षिणम्, सप्रति, असंप्रति, पापसमम्, पुण्यसमम्। इच्छम यतिद्वारे। दण्डादण्ड, मुसलामुसलि, नखानणि।

३१—पारे मध्ये पष्ठ्या वा ॥ २। १। १८ ॥

जो पार और मध्य शब्द पष्ठ्यन्त सुबन्त के सङ्ग विकल्प करके समास पावें, सो समास अव्ययीभाव संज्ञक हा। और एकारान्त निपातन भी किया है। जैसे—पारं गङ्गायाः पारंगङ्गम्, मध्यं गङ्गायाः मध्येगङ्गम्। पष्ठ्यसमास पक्षे—गङ्गापारम्, गङ्गामध्यम्। यहां फिर “वा” प्रहण का प्रयोजन यह है कि पक्ष में पष्ठ्य समास हो के वाक्य भी रह जावे। जैसे—गङ्गाया पारम्, गङ्गाया मध्यम्।

३२—संख्या वंश्येन ॥ २। १। १६ ॥

जो वंश्यवाची सुबन्त के साथ संख्यावाची सुबन्त विकल्प करके समास पावें, सो अव्ययीभाव संज्ञक हों। जैसे—द्वौ मुनी व्याकरणस्य वश्यौ द्विद्वुनि व्याकरणस्य ऋ, त्रिमुनि व्याकरणस्य †।

ॐ दो मुनि भयोन् पाणिनि और पतञ्जलि।

† तीन मुनि भयोन् पाणिनि, व्यासायन और पतञ्जलि।

३३-नदीभिश्च ॥ २ । १ । २० ॥

जो सखावाची सुबन्त नदीवाची सुबन्तों के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हारें सो अव्ययीभाव सङ्ग हो। जैसे—सप्तगङ्गम्, द्वियमुनम्, पञ्चनदम्, सप्तगोदावरम्।

३४-अव्ययीभावे शरत्प्रमृतिभ्यः ॥ ५ । ४ । १०७ ॥

। अव्ययीभाव समास में शरत् आदि प्रातिपदिकों से टच् प्रत्यय होवे। जैसे—शब्दः समीपम् उपशब्दम्, प्रतिशब्दम्, उपविषाशम्, प्रतिविषाशम्। अव्ययीभाव इति किम्—परमशरत्।

३५-अनश्च ॥ ५ । ४ । १०८ ॥

अन् जिसके अन्त में हो उस सुबन्त में टच् प्रत्यय हो। जैसे—राज्ञ समाप उपगजम्, आत्मनि अधि इति अभ्यात्मम्, प्रत्यात्मम्।

३६-नपु सकादन्यतरस्याम् ॥ ५ । ४ । १०९ ॥

अबन्त नपुसक सुबन्त से अव्ययीभाव समास में समासान्त टच् प्रत्यय विकल्प करके हो। चर्म चमे प्रति इति प्रतिचर्मम्, प्रतिचमे, उपचमेम्, उपचर्म।

३७-नदीपौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः ॥ ५ । ४ । ११० ॥

नदी, पौर्णमासी, आम्रहायणी, य तीन प्रातिपदिक जिनके अन्त में हों, उन समस्त समुदायो से अव्ययीभाव समास में समासान्त टच् प्रत्यय विकल्प करके हो। जैसे—नद्याः समीप उपनदम्, उपनदि; उपपौर्णमासम्; उपाम्रहायणम्, उपाम्रहायणि।

३८-भयः ॥ ५ । ४ । १११ ॥

भय प्रत्याहार जिनके अन्त में हो उस सुबन्त से अव्ययीभाव समास में समासान्त टच् प्रत्यय विकल्प करके हो। जैसे—उप समिधम्, उपममिन्, उपटपदम्, उपटपन्; अतिक्षुधम्, अतिक्षुन्।

३६-गिरेश्च सेनकस्य ॥ ५ । ४ । ११२ ॥

सेनक आचार्य के मत में गिरि शब्दान्त प्रातिपदिक से अव्ययीभाव समास में समासान्त टच् प्रत्यय विकल्प करके हो। जैसे—अन्तर्गिरम्, अन्तर्गिरि; उपगिरम्, उपगिरि। अव्ययीभाव समास में इतने समासान्त प्रत्यय होते हैं।

४०-अन्यपदार्थे च संज्ञायाम् ॥ २ । १ । २१ ॥

जो संज्ञा हो तो अन्य पदार्थ में वर्तमान जो सुबन्त सो नदी-वर्चा सुबन्त के साथ समास पावे। जैसे—उन्मत्तगङ्गं नाम देशः, लोहितगङ्गं नाम देशः, कृष्णगङ्गं नाम देशः; शनैर्गङ्गं नाम देशः। अन्य पदार्थ इति किम्—कृष्णवेणुः। संज्ञायामिति किम्—शीघ्रगङ्गो देशः।

इत्यव्ययीभावः समासः सप्तः ॥

अथ तत्पुरुषः

४१-तत्पुरुषः ॥ २ । १ । २२ ॥

यहां में लेके बहुव्रीहि समास से पूर्व पूर्व तत्पुरुष समास का अधिकार है। उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषः। तत्पुरुष समास में उत्तरपद का अर्थ प्रधान होता है।

४२-द्विगुश्च ॥ २ । १ । २३ ॥

द्विगु समास भी तत्पुरुष संज्ञक होता है। द्विगोस्तत्पुरुषत्वे समासान्ताः प्रयाजनम्।

* ४३-समासान्ताः ॥ ५ । ४ । ६८ ॥

ॐ यह समासान्त का प्रकरण (क्रमाङ्क ४३.७५) तत्पुरुष समास के अन्त में अर्थात् क्रमाङ्क १९९ के अनन्तर होना चाहिये। पु० मी० ।।

अब जो प्रत्यय कहेंगे वे समासान्त होंगे अर्थात् उनका समास के ही साथ प्रहण किया जायगा। जैसे—पञ्चराजी, दशराजी; पञ्चराजम्, दशराजम्; त्रयहः, त्रयहः, पञ्चगवम्, दशगवम्।

४४—गोरतद्धितलुकि ॥ ५ । ४ । ६२ ॥

तद्धितलुक् को वर्ज के गो शब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त टच् प्रत्यय हो। जैसे—परमगवः, उत्तमगवः, पञ्चगवम्। अतद्धितलुकीति किम्। पञ्चभिर्गोभिः क्रीतः पञ्चगुः, दशगुः। तद्धितप्रहणं किम्—सुबलुकि प्रतिषेधो माभूत्। जैसे—राजगवमिच्छति राजगवीयति। लुप्रहणं किम्—तद्धित एव माभूत्, पञ्चम्यो गोभ्य आगतं पञ्चगवरूप्यम्, पञ्चगवमयम्।

४५—ऋक्पूर्वचूःपथामानक्षे ॥ ५ । ४ । ७४ ॥

जो अक्षसम्बन्धी अर्ध न हो तो ऋक्, पुर, अप्, धुर् और पथिन् ये जिनके अन्त में हों उन प्रातिपदिकों से समासान्त अकार प्रत्यय हो। जैसे—अविद्यमाना ऋक् यस्मिन् सोऽनुचो ब्राह्मणः, बह्वृचः; ब्राह्मणपुरम्, नान्दीपुरम्; द्विगेता आपो यस्मिन् तद् द्वीपम्, अन्तरीपम्, समीपम्; राज्ञां धूः राजधुरा, महाधुरा; देवपथ, जलपथः। अनक्ष इति किम्—अक्षस्य धूः अक्षधूः। दृढधूरक्षः।

४६—अच् प्रत्यन्ववपूर्वात् सामलोमः ॥ ५ । ४ । ७५ ॥

१. वादिकाकार ने “अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियां भाष्यते” (महा० २ । ४ । ३०) के नियम से “द्विगोः” (स्त्रै० ४५) से ङीप् किया है। महाभाष्यकार ने “द्विगुश्च” (अष्टा० २ । १ । २२) सूत्र पर “पञ्चराजम्, दशराजम्” उदाहरण दिये हैं। उनसे प्रतीत होता है कि महाभाष्यकार को यहाँ “पाप्रादिभ्यः प्रतिषेधः” (महा० २ । ४ । ३०) शक्ति से ङीत्व का अभाव मानते हैं। प्राथकार ने यहाँ दोनों प्रकार के उदाहरण देकर दोनों पक्ष दर्शा दिये हैं। पु० मी० ।

जो प्रति, अनु और अव पूर्वक सामन् और लोमन् प्रातिपदिक हों तो उनसे समासान्त अच् प्रत्यय हो । [जैसे-] प्रतिसामम्, अनुसामम्, अवसामम्, प्रतिलोमम्, अनुलोमम्, अवलोमम् ।

४७-अक्षणोऽदर्शनात् ॥ ५ । ४ । ७६ ॥

दर्शन भिन्न अथ में अक्षि शब्द से समासान्त अच् प्रत्यय हो ; जैसे—पुष्कराक्षम्, उदुम्बराक्ष । अदर्शनादिनि क्रिम्-ब्राह्मणाक्षि ।

४८-ब्रह्महस्तिभ्या वर्चसः ॥ ५ । ४ । ७८ ॥

ब्रह्मन् और हस्तिन् शब्द से परे जो वर्चस् उससे समासान्त अच् प्रत्यय हो । जैसे—ब्रह्मणो वर्चः ब्रह्मवर्चसम्, हस्तिनो वर्चः हस्तिवर्चसम् ।

४९-वा०-पल्ल्यराजभ्याञ्चेति वक्तव्यम् ॥

पल्ल्यवर्चसम्, राजवर्चसम् ।

५०-अवसमन्धेभ्यस्तमसः ॥ ५ । ४ । ७९ ॥

अव, सम् और अन्ध शब्द से परे जो तमस् उससे समासान्त अच् प्रत्यय हो । जैसे—अवगतं नाम प्राप्त तम. अवतमसम्, सम्यक्तम. सन्तमसम्, अन्धन्तम अन्धतमसम् ।

५१-असौवसीयःश्रेयसः ॥ ५ । ४ । ८० ॥

जा अस् शब्द से परे वसीयस् और श्रेयस् शब्द हों तो उनसे समासान्त अच् प्रत्यय हों । असौवसीयसम्, अभ्येयसम् ।

५२-अन्वयतसाद्रहसः ॥ ५ । ४ । ८१ ॥

[अनु, अव और तप्त शब्द से परे जो रहस्, उससे समासान्त अच् प्रत्यय हो । [जैसे—] अनुरहसम्, अवरहसम्, तप्तग्रहसम् ।

५३-प्रतेस्त्रसः सप्तमीस्थात् ॥ ५ । ४ । ८२ ॥

जो प्रति से परे सप्तमीस्थ वग्स्, उससे समासान्त अच् प्रत्यय

राजन्, अहन् और सखि इन प्रातिपदिकों से परे समासान्त टच् प्रत्यय हो। जैसे—महाराजः, मद्रराजः; परमाहः, उत्तमाहः; देवसखः, राजसखः, ब्रह्मसखः।

६३—अप्राख्यायामुरसः ॥ ५ । ४ । ६३ ॥

अप्राख्या अर्थ में उरस् शब्दान्त तत्पुरुष समास से टच् प्रत्यय हो। जैसे—अश्वानामुरः अश्वोरसम्, हस्त्युरसम्। अप्राख्यायामिति किम्—देवदत्तस्योरः देवदत्तोरः।

६४—अनोदमायस्सरसां जातिसञ्ज्ञयोः ॥ ५ । ४ । ९४ ॥

जाति और संज्ञा के विषय में अनस्, अश्मन् और अयस् सरस् शब्दाभ्त तत्पुरुष से समासान्त टच् प्रत्यय हो। जैसे—उपानसमिति जातिः, महानसमिति संज्ञा, अमृताश्ममिति जातिः, पिण्डाश्म इति संज्ञा; कालायसमिति जातिः, लोहितायसमिति संज्ञा; मण्डूकसरसमिति जातिः, जलसरसमिति संज्ञा। जातिसंज्ञयोरिति किम्—सदनः, सदश्मा, उत्तमायः, सःसरः।

६५—ग्रामकौटाभ्यां च तक्ष्णः ॥ ५ । ४ । ९५ ॥

ग्राम और कौट से उत्तर जो तक्षन् उससे टच् प्रत्यय हो। ग्रामस्य तक्षा ग्रामतक्षः, कौटस्य तक्षा कौटतक्षः। ग्रामकौटाभ्यां चेति किम्—राजस्तक्षा [राजतक्षा]।

६६—अतिः शुनः ॥ ५ । ४ । ९६ ॥

अति से उत्तर अन्, तदन्त जो तत्पुरुष उससे समासान्त टच् प्रत्यय हो। जैसे—अतिक्रान्तः आनमतिश्रः धराहो, जबवानित्यर्थः। अतिश्र. सेवकः, सुष्ठु स्वामिमक्तः इत्यर्थः।

६७—उपमानादप्राणिषु ॥ ५ । ४ । ६७ ॥

प्राणि भिन्न अर्थ में उपमानाची अन् शब्द से टच् प्रत्यय हो।

जैसे—आकर्षः श्वेव आकर्षश्च, फलकश्च । “उपमितं व्याघ्रादिभिः
[मा० १३८] इति समासः । उपमानादिति किम्—न श्वा अश्वा
लांष्टः । अप्राणिध्विति किम् । वानरः श्वेव वानरश्वा ।

६७—उत्तरमृगपूर्वाच्च सकथनः ॥ ५ । ४ । ६८ ॥

उत्तर, मृग, पूर्व और चकार से उपमानपूर्वक जो सकथिन्,
तदन्त तत्पुरुष से समासान्त टच् प्रत्यय हो । उत्तरसकथम्, मृग-
सकथम्, पूर्वसकथम् । उपमान—फलकमिव सकथि फलकसकथम् ।

६८—नावो द्विगोः ॥ ५ । ४ । ९९ ॥

नौ शब्दान्त द्विगु से समासान्त टच् प्रत्यय हो । द्वे नावौ समा-
हृते द्विनावम्, त्रिनावम्, द्वे नावौ धनमस्य द्विनावधनः, पञ्च-
नावप्रियः, द्वाभ्यां नाभ्यामागतं द्विनावरूप्यम्, द्विनावमयम् । द्विगो-
रिति किम्—राजनौः । अतद्वितलुकीत्येव—पञ्चभिर्नौभिः क्रीतः
पञ्चनौः । दशनौः ।

६९—अर्धाच्च ॥ ५ । ४ । १०० ॥

जो अर्ध से परे नौ शब्द हो तो उससे समासान्त टच् प्रत्यय
हो । अर्धं नावः अर्धनावम् ।

७०—स्वार्याः प्राचाम् ॥ ५ । ४ । १०१ ॥

प्राचीन आचार्यों के मत में अर्ध से उत्तर स्त्री और स्त्री
शब्दान्त द्विगु, इनसे समासान्त टच् प्रत्यय हो । अर्धं स्वार्याः
अर्धस्वारम् । अध्वारी । द्वे स्वार्यौ समाहृते द्विस्वारम्, द्विस्वारिः
त्रिस्वारम्, त्रिस्वारि ।

७१—द्वित्रिभ्यामञ्जलेः ॥ ५ । ४ । १०२ ॥

द्वि और त्रि शब्द से परे जो अञ्जलि उससे समासान्त टच्
प्रत्यय हो । द्वात्रिभ्यां समाहृतौ द्वयञ्जनम्, त्र्यञ्जलम् । द्विगोरि-
त्येव—द्वयोरञ्जलिः द्वयञ्जलिः । अतद्वितलुकीत्येव । द्वाभ्यामञ्जलिभ्यां
क्रीतः द्वयञ्जलि, त्र्यञ्जलिः । प्राचामित्येव—द्वयञ्जलिद्विय ।

७२-अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि ॥ ५ । ४ । १०३ ॥

नपुंसकलिङ्ग वाची जो अनन्त और असन्त तत्पुरुष उससे समासान्त टच् प्रत्यय हो, वेद के विषय में । [अन्नन्तात्-] हस्ति-चर्म जुहोति । वृषभवर्मेऽभिपिञ्चति । असन्तात्-देवच्छन्दसानि, मनुष्यच्छन्दसानि । अनसन्तादिति किम्-बिल्बदारु जुहोति । नपुंसकादिति किम्-सुत्रामाण पृथिवी दामनेहसम् । अनसन्तान्न-पुंसकाच्छन्दसि वा षचनम् । ब्रह्मसाम, देवच्छन्दः, ब्रह्मसामम्, देवच्छन्दसम् ।

७३-ब्रह्मणो जानपदाख्यायाम् ॥ ५ । ४ । १०४ ॥

ब्रह्मन् शब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त टच् प्रत्यय हो जानपद की आख्या अर्थ में । सुराष्ट्रेषु ब्रह्मा सुराष्ट्रब्रह्मः, अवन्तिब्रह्मः, पञ्चाल-ब्रह्मः । जानपदाख्यायामिति किम्-द्वब्रह्मा नारदः ।

७४-कुमहद्भ्यामन्यतरस्याम् ॥ ५ । ४ । १०५ ॥

कु और महत् से परे जो ब्रह्मन् शब्द मो अन्त में जिसके, वस्तु तत्पुरुष से समासान्त टच् प्रत्यय हो । कुब्रह्मः, कुब्रह्मा; महाब्रह्म, महाब्रह्मा । ब्राह्मणपर्यायो ब्रह्मन्शब्दः ।

७५-द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्तैः ॥

२ । १ । २४ ॥

द्वितीयान्त समर्थ जो सुयन्त मो श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न इन सुयन्तो के संग विकल्प करके समास पाये, मो समास तत्पुरुष संज्ञक हो छ । कष्टं श्रितः कष्टश्रितः, नरकश्रितः, कान्तारमतीतः कान्तारतीतः, नरकं पतितः नरकपतितः, प्राप्तं गतः प्राप्तगतः, व्यमनमत्यस्तः व्यसनात्यस्तः, सुगमं प्राप्तः सुगम-प्राप्तः, सुगमापन्नः सुगमापन्नः । समर्थमहगुं किमर्थम् । परय देवदत्त

छः वहाँ से भागे द्वितीया तत्पुरुष समास क्या ।

कष्ट, श्रितो विष्णुमित्रो गुरुकुलम् । यहा कष्ट शब्द का सम्बन्ध पर्य क्रिया के साथ है [और श्रित का विष्णुमित्र के साथ], इसलिये समास नहीं होता ।

७६-वा०-श्रितादिषु गमिगाम्यादीनामुपसङ्ख्यानम् ॥

२ । १ । २४ ॥

ग्राम गमी ग्रामगमी, ग्रामं गामी ग्रामगामी, ओदनं बुभुक्षुः ओदनबुभुक्षु ।

७७-स्वयं क्तान्त ॥ २ । १ । २५ ॥

स्वयं सुबन्त का क्तान्त सुबन्त के संग विकल्प करके जो समास हो, सो समास तत्पुरुष संज्ञक हो । जैसे—स्वयंघौतौ/पादौ, स्वयं-विलीनमाज्यम् । एकपद्यमैरुस्वये च समासत्वाद् भवति ।

७८-खट्वाक्षेपे ॥ २ । १ । २६ ॥

क्षेप नाम निंदा का है । द्वितीयान्त खट्वा सुबन्त, क्तान्त सुबन्त के संग विकल्प करके समास को प्राप्त हो, सो समास तत्पुरुष संज्ञक हो । जैसे—खट्वारोदणं चेद् विमार्गप्रस्थानस्योपलक्षणम्, सर्व एत्रायमविनीत खट्वारूढ इत्युच्यते । खट्वारूढो जाल्म, खट्वाप्लुत । अपथप्रास्थत इत्यर्थे । क्षेप इति किम्—खट्वामारूढः ।

७९-सामि ॥ २ । १ । २७ ॥

यद् सामि अव्यय अर्थ का पर्याय है । जैसे—सामिकृतम्, सामिपीतम्, सामिमुक्तम् ।

८०-कालाः ॥ २ । १ । २८ ॥

जो द्वितीयान्त कालाधी सुबन्त शब्द क्तान्त सुबन्त के साथ विकल्प करके समास पावे, सो तत्पुरुष संज्ञक हो । जैसे—परमु-

हूर्त्ताश्चराचराः । ते कदाचिद्दहर्गच्छन्ति, कदाचिद्रात्रिम् । अहरति-
सृता मुहूर्त्ताः, अहस्सक्रान्ताः, रात्र्यतिसृता मुहूर्त्ताः, रात्रिसंक्रान्ताः,
मासप्रमितश्चन्द्रमाः, मासं प्रमातुमारव्यः प्रतिपच्चन्द्रमा इत्यथे ।

८१-अत्यन्तसंयोगे च ॥ २ । १ । २६ ॥

द्वितीयान्त कालवाची सुबन्त के संग समास पावे अत्यन्त
संयोग अथे में, [सो तत्पुरुष संज्ञक हो] । अत्यन्त संयोग नाम
सर्वसंयोग का है । जैसे = मुहूर्त्तं सुखम् मुहूर्त्तेसुखम्, सर्वरात्र-
कल्याणी, सर्वरात्रशोभना ।

८२-तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन * ॥२।१।३०॥

जो तृतीयान्त सुबन्त तत्कृत अथोत् तृतीयार्थकृत गुण वचन के
साथ समास हो, तथा तृतीयान्त सुबन्त का अर्थ सुबन्त के संग भी
समास हो, सो तृतीया तत्पुरुष हो । उपादानेन विकलः उपादान-
विकलः, किरिणा काणः किरिकाणः, शङ्कुजया खण्डः शङ्कुला-
खण्ड, धान्येनार्थः धान्यार्थः । तत्कृतेनेति किम्—अक्षणा काणः
गुणवचनेनेति किम्—गोभिर्धपावान् । समर्थप्रदणं किम्—स्व विष्ट
शङ्कुलाया, खण्डो धावति मुसलेन ।

८३-पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनिपुणमिश्रदलक्ष्यैः ॥

२ । १ । ३१ ॥

१. मुहूर्त्तं दो पदी अर्थात् लगभग ४८ मिनट का होता है । दिन
रात के ३० मुहूर्त्तों में ३ मुहूर्त्त प्रातः और ३ मुहूर्त्त सायं काल के देवे
होने हैं जो कभी दिन में उपशीत होने हैं कभी रात में अर्थात् जब दिन
बढ़ा होता है तब दिन में निकलते हैं और जब रात पदी होती है तब
रात में । पु० मी० ।

२. पदी में भागे तृतीया तत्पुरुष समास का आरम्भ जानो ।

तृतीयान्त सुबन्त का पूर्व, सदृश, सम, ऊनार्थ, कलह, निपुण, मित्र और श्लक्ष्ण सुबन्तों के साथ समास हो, सो तृतीया तत्पुरुष हो। जैसे—मासेन पूर्वः मासपूर्वः, संवत्सरपूर्वः; पित्रा सदृशः पितृसदृशः, पित्रा समः पितृसमः; मापेणोनं मापोनम्, कार्पापणोनम्; मासविकलम्, कार्पापणविकलम्; असिकलहः, वाक्कलहः; वाग्निपुणः, शास्त्रानपुणः, गुडमिश्रः, तिलमिश्रः; आचारश्लक्ष्णः।

८४-वा०-पूर्वादिष्ववरस्योपसंख्यानम् ॥२।१।३१॥

मासेनावरः मासावरः, संवत्सरावरः।

८५-कर्तृकरणे कृता बहुलम् ॥ २ । १ । ३२ ॥

कर्ता और करण अर्थ में जो तृतीयान्त सुबन्त सो कृदन्त के साथ कहीं कहीं समास को प्राप्त होते हैं, वह तृतीया तत्पुरुष समास होता है। जैसे अहिना दष्टः अहिदष्टः, देवदत्तेन कृतम् देवदत्तकृतम्, नखैर्निभिन्नः नखनिभिन्नः। कर्तृकरणे किम्—मित्राभिदधितः। बहुलप्रहणं किम्—दानेण लूनवान्। परशुना छिन्नः। इह समासो न भवति। इह च भवति—पादहारको, गलेचोपकः।

८६-कृत्यैरधिकार्थवचने ॥ २ । १ । ३३ ॥

कर्ता और करण कारक में जो तृतीयान्त सो कृत्य प्रत्ययान्त सुबन्त के सङ्ग विकल्प करके समास को प्राप्त हो, अधिकार्थ वचन हो तो, वह तृतीया तत्पुरुष समास होता है। स्तुति निन्दायुक्त वचन को अधिकार्थ वचन कहते हैं जैसे—कर्ता—वाक्पेया नदी, अलेहः रूपः। करण—वाष्पच्छेद्यानि वृणानि, घनघान्यो गुडः, कशा-वाह्यो दुष्टः।

८७-वा०-कृत्यप्रहणे यणयतोर्ग्रहणम्।

इह मा भूत्—काठेः पाठव्या इति।

८८—अन्नेन व्यञ्जनम् ॥ २ । १ । ३४ ॥

जो तृतीयान्त व्यञ्जन वाची सुबन्त का अन्न वाची सुबन्त के साथ समास हो सो तृतीया तत्पुरुष हो । जिससे अन्न का सस्कार किया जाय उसको व्यञ्जन कहते हैं । जैसे—दध्ना उपसिक्त ओदनः दध्मोदनः, क्षीरौदनः ।

९९—भक्ष्येण मिश्रीकरणम् ॥ २ । १ । ३५ ॥

मिश्रीकरण वाची तृतीयान्त सुबन्त भक्ष्यवाची सुबन्त के सङ्ग में विकल्प करके समास पावे, सो तृतीया तत्पुरुष हो । जैसे—
-गुढेन मिश्रा घाना गुढधाना, घृतेन मिश्र शाकं घृतशाकम् ।

६०—ओजः सहोम्भस्तममस्तृतीयायाः ॥ ६ । ३ । ३ ॥

तृतीयान्त ओजस्, सहस्, अम्भस्, तमस् शब्दों से परे तृतीया का अलुक् हो, जो उत्तरपद परे हो तो । जैसे—ओजसाकृतम्, सहसाकृतम्, अम्भसाकृतम्, तमसाकृतम् ।

६१—वा०—पु सानुजो जनुपान्थो विकृताक्ष इति चोपसङ्ख्यानम् ॥ ६ । ३ । ३ ॥

पुंसानुजे, जनुपान्थ, विकृताक्षः ।

६२—मनसः सज्ञायाम् ॥ ६ । ३ । ४ ॥

जो सज्ञा विषय मे उत्तरपद परे हो तो तृतीयान्त मनस् से परे तृतीया का अलुक् हो । जैसे—मनसादत्ता, मनसागुप्ता, मनसारागः ।

९३—आज्ञायिनि च ॥ ६ । ३ । ५ ॥

जो आज्ञायिन् उत्तरपद परे हो तो तृतीयान्त मनस् से परे तृतीया का अलुक् हो । जैसे—मनसाज्ञायी ।

६४—आत्मनश्च पूरणे ॥ ६ । ३ । ५ ॥

[पूरण प्रत्ययान्त उत्तर पद के परे रहने पर आत्मन् से परे तृतीया का अट्क् हो ।] आत्मनापष्टः, आत्मनापश्चमः ।

६५-चतुर्थी तदर्थार्थवलिहितसुखरक्षितैः ॥२१॥३६॥

जो तदर्थ अथात् विकृतिवाची चतुर्थ्यन्त सुबन्त [के लिये जो सुबन्त, तथा] अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित सुबन्तों के साथ [चतुर्थ्यन्त सुबन्त विकल्प करके] समास को प्राप्त हो, सो चतुर्थी तत्पुरुष कहावे ॐ । जैसे—यूपाय दारु यूपदारु, कुण्डलाय हिरण्यं कुण्डलहिरण्यम् । [तदर्थप्रहणेन] इह न भवति—रन्धनाय स्थाली, अण्डननायोल्लखलमिति ।

६६-वा०-अर्थेन नित्यसमासवचनं सर्वलिङ्गता च चतुर्व्या ॥ २ । १ । ३६ ॥

जैसे—ब्राह्मणार्थं पय, ब्राह्मणार्था यवागूः, ब्राह्मणार्थः कम्बलः । कृमिभ्यो बलिः कृमिबलिः, गोहितम्, मनुष्यहितम्, गोसुखम्, गोरक्षितम्, अश्वरक्षितम् ।

९७-वैयाकरणाख्याया चतुर्थ्याः ॥ ६ । ३ । ७ ॥

जो उत्तरपद परे हो तो वैयाकरणों की आख्या अर्थात् संज्ञा विषय में आत्मन् शब्द से परे चतुर्थी का अलुक् हो । आत्मनेभाषा, आत्मनेपदम् ।

६८-परस्य च ॥ ६ । ३ । ८ ॥

जो वैयाकरणों की आख्या अर्थ में उत्तरपद परे हो तो पर शब्द से परे चतुर्थी का अलुक् हो । जैसे—परस्मैपदम्, परस्मैभाषा ।

६९-पञ्चमी भयेन ॥ २ । १ । ३७ ॥

जो पञ्चम्यन्त सुबन्त, भय सुबन्त के मद्ग समास को प्राप्त हो, सो पञ्चमी तत्पुरुष हो † । जैसे—वृकेभ्यो भयं वृकभयम्, श्वोरभयम्, दस्युभयम् ।

ॐ यहाँ से चतुर्थी तत्पुरुष समास का आरम्भ समझना ।

† यहाँ से पञ्चमी तत्पुरुष का आरम्भ है ।

१००-वा०-मयभीतभीतिभीभिरिति वक्तव्यम् ॥

जैसे-वृकेश्यो भीतः वृकभीतः, वृकभीतिः, वृकभीः ।

१०१-अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पशः ॥२।१।३८॥

जो पञ्चम्यन्त प्रातिपदिक, अपेत अपोढ मुक्त पतित और अपत्रस्त इन सुबन्तों के साथ समास होता है, सो पञ्चमी तत्पुरुष हो । जैसे-सुखादपेतः सुखपेतः, दुःखापेतः, कल्पनापोढः, कृच्छ्रान्मुक्तः, चक्रमुक्तः, वृक्षपतितः, नरकापत्रस्तः । अल्पशः अर्थात् अल्पशः पञ्चमी समास पावे, सब पञ्चमी नहीं । इससे 'प्रासादात् पतितः, भोजनादपत्रस्तः' इत्यादि में नहीं होता ।

१०२-स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणि क्तेन ॥२।१।३९॥

जो स्तोक अन्तिक दूर और इनके अथे वाले पञ्चम्यन्त हैं वे कान्त सुबन्त के साथ समास पावें, सो पञ्चमी तत्पुरुष हो ।

१०३-अलुगुत्तरपदे ॥ ६ । ३ । १ ॥

अलुक् और उत्तरपद इन दो पदों का अधिकार किया है ।

१०४-पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ॥ ६ । ३ । २ ॥

'स्तोक आदि प्रातिपदिकों से परे उत्तरपद हो तो पञ्चमी विभक्ति का लुक् न हो । जैसे-स्तोकान्मुक्तः, स्वरूपान्मुक्तः, अन्तिकादागतः, समीपादागतः, अभ्याशादागतः, दूरादागतः, विप्रकृष्टादागतः, कृच्छ्रान्मुक्तः, कृच्छ्राह्वयः, क्लेशान्मुक्तः ।

१०५-वा०-शतसहस्रौ परेणेति वक्तव्यम् ॥२।१।३९॥

शतात्परं परशताः, सहस्रात्परं परसहस्राः । राजदन्तादित्वात्
[सा० २९२] परनिपातः । निपातनात् सुहागमः ।

१०६-सप्तमी शौण्डैः ॥ २ । १ । ४० ॥

जो सप्तम्यन्त सुबन्त शौरड आदि सुबन्तों के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हो, सो सप्तमी तत्पुरुष हो ॥ जैसे—
अक्षेपु शौरडः अक्षशौरडः, अक्षधूर्तः, अक्षकितवः ।

१०७—सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च ॥ २ । १ । ४१ ॥

जो सिद्ध, शुष्क, पक्व और बन्ध, सुबन्तों के संग सप्तम्यन्त सुबन्त का समास होता है, सो सप्तमी तत्पुरुष होता है । जैसे—
सांकाश्यसिद्धः, ग्रामसिद्धः, आतपशुष्कः, छायाशुष्कः, पयःपक्वः,
तैलपक्वः, घृतपक्वः, स्थालपक्वः; चक्रबन्धः, गृहबन्धः ।

१०८—ध्वाङ्क्षेण क्षेपे ॥ २ । १ । ४२ ॥

जो क्षेप अर्थात् निन्दा अर्थ में सप्तम्यन्त सुबन्त, ध्वाङ्क्षवाची सुबन्त के साथ समास पावे, सो सप्तमी तत्पुरुष हो ।

१०९—वा०—ध्वाङ्क्षेणेत्यर्थग्रहणं कर्तव्यम् ॥

[यहां ध्वाङ्क्ष शब्द से उसके पर्यायवाचियों का ग्रहण करना चाहिये ।] जैसे—तीर्थे ध्वाङ्क्ष इव तीर्थेध्वाङ्क्षः, अनवस्थित इत्यर्थः ।
तीर्थकाकः, तीर्थनायकः । क्षेप इति किम्—तीर्थे ध्वाङ्क्षस्तिष्ठति ।

११०—कृत्यैर्ऋणे ॥ २ । १ । ४३ ॥

ऋण अर्थ जाना जाय तो सप्तम्यन्त सुबन्त कृत्य प्रत्ययान्त के साथ समास पावे । मासे देयमृणम्, संवत्सरदेयम्, [ऋण ग्रहण, अवश्य करने योग्य के उपलक्षण के लिये है । इससे यहां भी होता है—] पूर्वोद्दे गेयं साम, प्रातरभ्येयोऽनुवाकः । ऋण इति किम्—
मासे देया भित्ता ।

१११—सञ्ज्ञायाम् ॥ २ । १ । ४४ ॥

सञ्ज्ञा अर्थ में जो सप्तम्यन्त सुबन्त, [वह] सुबन्त के सह

॥ यहां से आगे सप्तमी तत्पुरुष का अधिकार बला है ।

समास पावे सो सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे—अरण्ये-
तिलकाः, अरण्येमाषाः, वनेकिंशुकाः। हलदन्तात् सप्तम्याः
सञ्ज्ञायाम् [सा० ११६] इत्यलुक्।

११२-क्तेनाहोरात्रावयवाः ॥ २ । १ । ४५ ॥

जो दिन और रात्रि के अवयववाची सप्तम्यन्त सुबन्त प्राति-
पदिक, क्तान्त सुबन्त के साथ समास को प्राप्त हों, सो सप्तमी
-तत्पुरुष समास हों। जैसे—पूर्वाङ्कृतम्, अपराङ्कृतम्, पूर्वेगत्र-
कृतम्, पररात्रकृतम्। अवयवग्रहणं किम्—अहनि भुक्तम्,
रात्रौ कृतम्।

११३-तत्र ॥ २ । १ । ४६ ॥

जो तत्र सप्तम्यन्त सुबन्त, क्तान्त सुबन्त के साथ समास पावे,
सो सप्तमी तत्पुरुष हो। जैसे—तत्रभुक्तम्, तत्रपीतम्, तत्रमृतः।

११४-क्षेपे ॥ २ । १ । ४७ ॥

जो क्षेप नाम निन्दा अर्थ में सप्तम्यन्त सुबन्त, क्तान्त सुबन्त
के साथ समास पावे, सो सप्तमी तत्पुरुष हो। अवतप्तेनकुलस्थितम्
सर्पतन्, उदकेविशीर्णम्, प्रवाहेमूत्रितम्, भस्मनिद्रुतम्। निष्कलं
यत्क्रियन् तदेवात्रोच्यते। तत्पुष्पे कृति बहुलम् [सा० १२३]
इत्यलुक्।

११५-पात्रेसंमितादयश्च ॥ २ । १ । ४८ ॥

पात्रेसंमित आदि शब्द निपातन क्रिये हैं क्षेप अर्थ में, सो सप्तमी
-तत्पुरुष जानना। पात्रेसंमिताः, पात्रेबहुलाः, उदरकृमिः इत्यादि।

११६-हलदन्तात्सप्तम्याः संज्ञायाम् ॥ ६ । ३ । ६ ॥

हलन्त और अदन्त प्रातिपदिक से परे सप्तमी का अलुक् हो,
जो संज्ञा विषय में उच्चरपद परे हो तो। जैसे—युधिष्ठिरः, त्वधिसारः।

अदन्तात्—अरण्येतिलकाः । अरण्यमापकाः । वनेकिशुकाः
वनेहरिद्रकाः । विनेधल्वजकाः । पूर्वाद्धेस्फोटकाः । कूपेपिशाचकाः ।
[हलदन्तादिति किम्—] नद्यां कुक्कुटिकाः नदीकुक्कुटिकाः । भूम्यां
पाशाः भूमिपाशाः । संज्ञायामिति किम्—अक्षशौरहः ।

११७—वा०—हृद्द्युभ्यां डेः ॥ ६ । ३ । ६ ॥

जो उत्तरपद परे हो तो हृद् और दिव् से परे सप्तमी का अलुक्
हो । जैसे—हृदिसृक्, दिविसृक् ।

११८—कारनाम्नि च प्राचां हलादौ ॥ ६ । ३ । १० ॥

करनाम ह्लादि उत्तरपद परे हो तो प्राचीनों के मत में हलन्त
और अदन्त से परे सप्तमी का अलुक् हो । जैसे—सूपेशाणः,
मुकटेकार्पापणम्, हलेद्विपदिका, हलेत्रिपदिका । कारनाम्नीति किम्—
अभ्यहिते पशुः । प्राचामिति किम्—यूथे पशुः यूथपशुः । हलादाविति
किम्—अविकटे उरणः अविकटोरणः । हलदन्तादित्येव—नद्यां
दोहनी नदीदोहनी ।

११९—मध्याद् गुरौ ॥ ६ । ३ । ११ ॥

मध्येगुरुः ।

१२०—वा०—अन्ताच्चेति वक्तव्यम् ॥ ६ । ३ । ११ ॥

अन्तेगुरुः ।

१२१—अमूर्धमस्तकात् स्वाज्ञादकामे ॥ ६ । ३ । १२ ॥

जो कामवजित उत्तर पद परे हो तो मूर्ध और मस्तरु भिन्न
हलन्त और अदन्त से परे सप्तमी का अलुक् हो । जैसे—करटे
कालो यस्य सः करटे षालः, उगमिलोमा, उदरेमणिः । अमूर्धमस्त-
कादिति किम्—मूर्धेशिरः, मस्तरुशिरः । अकाम इति किम्—
मुझे कामो यस्य मुत्तकामः । न्याज्ञादिति किम्—अक्षशौरहः ।
हलदन्तादिति किम्—अङ्गुलिप्राणः, अङ्गुलिपतिः ।

१२२-बन्धे च विभाषा ॥ ६ । ३ । १३ ॥

जो घबन्त बन्ध उत्तरपद परे हो तो विकल्प करके हलन्त और अदन्त से परे सप्तमी का अलुक् हो। जैसे—हस्ते बन्धः हस्तबन्धः, चक्रे बन्धः चक्रबन्धः।

१२३-तत्पुरुषे कृति बहुलम् ॥ ६ । ३ । १४ ॥

तत्पुरुष समास में कृदन्त उत्तरपद परे हो तो सप्तमी का अलुक् बहुल करके हो [अर्थात् कहीं हो कहीं न हो]। स्तम्भेरमः, कर्णे-जपः। न च भवति—सुरचरः, मद्रचरः।

१२४-प्रावृट्शरत्कालदिवा जे ॥ ६ । ३ । १५ ॥

जो ज उत्तरपद परे हो तो प्रावृट्, शरत्, काल, दिव, इनसे परे सप्तमी का अलुक् हो। जैसे—प्रावृषिजः, शरदिजः, कालेजः, दिविजः।

१२५-विभाषा वर्षक्षरशरवरात् ॥ ६ । ३ । १६ ॥

इन शब्दों से परे विकल्प करके सप्तमी का अलुक् हो। वर्षेजः, वर्षजः, क्षरेजः, क्षरजः, वरेजः, वरजः।

१२६-वकालतनेषु कालनाम्नः ॥ ६ । ३ । १७ ॥

जो ङ घसंज्ञक प्रत्यय, काल और तन प्रत्यय परे हों तो कालवाची से सप्तमी का अलुक् हो। जैसे—पूर्वाद्धेतरे पूर्वाद्धेतरे, पूर्वाद्धेतमे, पूर्वाद्धेतमे; पूर्वाद्धेकाले, पूर्वाद्धेकाले; पूर्वाद्धेतने, पूर्वाद्धेतने। कालनाम्न इति किम्—शुक्लतरे, शुक्लतमे। हलन्तादिति किम्—रात्रितरयाम्।

१२७-शयवासवासिध्वकालात् ॥ ६ । ३ । १८ ॥

जो शय, वास, वासि, ये उत्तरपद परे हों तो विकल्प करके

ॐ वरधमपी धः [भटा० १ । १ । १६] इस सूत्र से तत्पु और तमपु की घ संज्ञा है।

सप्तमी का अलुक् हो। खेशय, खशय; ग्रामेवास., ग्रामवास.; ग्रामेवासी, ग्रामवासी। अकालादिति किम्—पूर्वाद्देशयः। हलदन्तादित्येव—भूमिशयः।

१२८—नेन्सिद्धवघ्नातिषु च ॥ ६ । ३ । १९ ॥

जो इन् प्रत्ययान्त सिद्ध और वघ्नाति ये उत्तरपद परे हों तो सप्तमी का अलुक् न हो, अर्थात् लुक् हो। स्थण्डिलशायी, साकार्य-सिद्ध, चक्रबन्धक, चरकबन्धकः।

१२९—स्थे च भाषायाम् ॥ ६ । ३ । २० ॥

जो स्थ उत्तरपद परे हो तो लोक में सप्तमी का अलुक् न हो। जैसे—समस्थ, विपमस्थ। भाषायामिति किम्—वृष्णोऽस्याखरेषुः [यजुः २ । १ ।]

१३०—पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन ॥ २ । १ । ४९ ॥

पूर्वकाल यह अर्थ का ग्रहण है। पूर्वकाल, एक, सर्व, जरत्, पुराण, नव और केवल, सुबन्त शब्द समानाधिकरण सुबन्त के साथ समास पावे ॥ जैसे—पूर्व स्नात. पश्चादनुलिप्त, स्नातानुलिप्तः कृष्टसमीकृतम्, दग्धप्ररूढम्, एका चासौ शाटी च एकशाटी, सर्वे च ते वेदाश्च सर्ववेदाः, जरद्यासौ वैद्यश्च जरद्वेद्य, पुराणाश्रम्, नना-द्रम्, केवलान्म्। समानाधिकरणेनेति किम्—एकस्याः शाटी।

१३१—दिक्संख्ये संज्ञायाम् ॥ २ । १ । ५० ॥

संज्ञा के विषय में दिक् और संख्यावाचो शब्द समानाधिकरण के साथ समास पावे। समानाधिकरण की अनुवृत्ति पाद की समाप्ति

॥ यह समास बहुधा प्रथमा विभक्ति में आता है इसलिये [इसे] प्रथमा तापुदय और कर्मधारय समास भी कहते हैं।

पयेन्त जाननी । [दिक्-] पूर्वेपुकामशर्मा, अपरेपुकामशर्मा ।
संख्या—पञ्चाम्नाः, सप्तर्षयः । संज्ञायामिति किम्—उत्तरा. वृत्ताः,
पञ्च ब्राह्मणाः ।

१३२—तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च ॥ २ । १ । ५१ ॥

दिग्वाची शब्द और संख्यावाची शब्द तद्धित अर्थ में तथा
उत्तरपद परे हो और समाहार अर्थ में समानाधिकरण के साथ समास
को प्राप्त हों । पूर्वस्या शालायां भवः पौर्वशालः औत्तरशालः,
आपरशालः । उत्तरपदे—पूर्वा शाला प्रिया यस्य स पूर्वशालाप्रियः,
अपरशालाप्रियः । संख्यातद्धितार्थे—पाञ्चनापितिः, पाञ्चकपालः ।
उत्तरपदे—पञ्चगवधनः । समाहारे पञ्चपूली, दशपूली, पञ्चकुमारि,
दशकुमारि, दशमामी, अष्टाध्यायी ।

१३३—संख्यापूर्वो द्विगुः ॥ २ । १ । ५२ ॥

जा तद्धितार्थोत्तरपद समाहार में संख्या पूर्व समास है, सो द्विगु
संज्ञक होता है । पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पञ्चकपालः । द्विगालु
गनपत्ये [स्त्रै० १६१] इति लुक् । ऐसे ही समासान्त तथा ङीप्
इत्यादि कार्य जानने चाहिये । पञ्चनावप्रियः, पञ्चपूली ।

१३४—कुत्सितानि कुत्सनैः ॥ २ । १ । ५३ ॥

जो कुत्सितवाची सुबन्त का कुत्सनवचन सुबन्तों के साथ समास
हो, सो तत्पुरुष संज्ञक हो । जैसे—वैयाकरणवसूचिः, निष्प्रतिभ
इत्यर्थः । याज्ञिककितवः, अयाध्ययाजनवृष्णापरः । मीमांसाक-
दुर्दुरुद्धः, नास्तिकः । कुत्सितानीति किम्—वैयाकरणश्चौरः । कुत्सनै-
रिति किम्—कुत्सितो ब्राह्मण ।

१. भाषो द्विगो । मा० ६८ । पु० मी० ।

२. द्विगोः [स्त्रै० ४५] । पु० मी० ।

१३५-पापाणके कुत्सितैः ॥ २ । १ । ५४ ॥

जो पाप और अणक सुबन्त का कुत्सित सुबन्तों के साथ समास हो, सो सामानाधिकरण हो । जैसे—पापनापित, पाप-कुलाल, अणकनापितः, अणककुलाल ।

१३६-उपमानानि सामान्यवचनैः ॥ २ । १ । ५५ ॥

जो उपमानवाची सुबन्त का सामान्य वचन सुबन्तों के साथ समास हो, सो सामानाधिकरण तत्पुरुष हो । शश्वीश्यामा शश्वीश्यामा इवदत्ता, कुमुदश्येनी, हंसगद्गदा, घन इव श्यामः घनश्यामो इवदत्तः । उपमानानिति किम्—देवदत्ता श्यामा । सामान्यवचनैरिति किम्—पर्वता इव बलाहकाः ।

१३७-उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे ॥ २ । १ । ५६ ॥

जो उपमित अथोत् उपमेय वाची सुबन्त का व्याघ्रादि सुबन्तों के साथ समास हो, सो सामानाधिकरण तत्पुरुष हो । पुरुषोऽयं व्याघ्र इव पुरुषव्याघ्रः, पुरुषसिंह, सिंह इव ना नृसिंहः । सामान्या-प्रयोग इति किम्—पुरुषो व्याघ्र इव शूरः ।

१३८-विशेषणं विशेष्येण बहुलम् ॥ २ । १ । ५७ ॥

जो विशेषणवाची सुबन्त का विशेष्यवाची सामानाधिकरण सुबन्त के साथ समास हो सो सामानाधिकरण तत्पुरुष हो । नीलञ्च तद्दुत्पलञ्च नीलोत्पलम्, रत्नोत्पलम् । बहुलवचनं व्यवस्थार्थम् । क्वचिन्नित्यसमास एव—कृष्णसर्पे, लोहितशालि । क्वचिन्न भवत्येव-रामो जामदग्न्यः, अर्जुनः कार्तवीर्यः । क्वचिद्विकल्पः—नीलमुत्पलं, नीलोत्पलम् ।

१३९-पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमवीराश्च ॥

२ । १ । ५८ ॥

पूर्व, अपर, प्रथम, चरम, जघन्य, समान, मध्य, मध्यम और वीर, जो इन सुबन्तों का सामानाधिकरण सुबन्तों के साथ समास हो, सो सामानाधिकरण तत्पुरुष हो। पूर्वश्चासौ पुरुषश्च पूर्वपुरुषः, अपरपुरुषः, प्रथमपुरुषः, चरमपुरुषः, जघन्यपुरुषः, समानपुरुषः, मध्यपुरुषः, मध्यमपुरुषः, वीरपुरुषः।

१४०—श्रेण्यादयः कृतादिभिः ॥ २ । १ । ५६ ॥

श्रेणि आदि सुबन्तों का कृत आदि सुबन्तों के साथ समास हो, सो सामानाधिकरण तत्पुरुष हो।

१४१—वा०—श्रेयादिषु च्यर्थवचनम् ॥ २ । १ । ५९ ॥

जैसे—अश्रेणयः श्रेणयः कृताः श्रेणीकृता वशिजो वसन्ति। च्यन्तानां तु कुगतिप्रादयः [सा० १८५] इत्यनेन नित्यसमासः।

१४२—क्तेन नञ्विशिष्टेनानञ् ॥ २ । १ । ६० ॥

जो नञ् रहित क्तान्त सुबन्त का नञ् विशिष्ट क्तान्त सुबन्त सामानाधिकरण के साथ समास हो, सो सामानाधिकरण तत्पुरुष हो। जैसे—कृतं च तदकृतं च कृताकृतम्, मुक्तामुक्तम्, पीतापीतम्, वदितानुदितम्, अशितानशितेन जीवति, क्लिष्टाक्लिष्टेन वर्तते।

१४३—वा०—कृतापकृतादीनामुपसंख्यानम् ॥ २ । १ । ६० ॥

कृतापकृतम्, मुक्तविमुक्तम्, पीतविपीतम्, गतप्रत्यागतम्, यातानुयातम्, क्रयाक्रयिका, पुटापुटिका, फलाफलिका, मानोन्मानिका।

१४४—वा०—समानाधिकरणाधिकारे शाकपार्थिवादीनामुपसंख्यानमुत्तरपदलोपश्च ॥ २ । १ । ६० ॥

शाकप्रधानः पार्थिवः शाकपार्थिवः, कुतपसौश्रुतः, अजातौत्वलिः।

१४५—सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः ॥ २ । १ । ६१ ॥

जो सत्, महत्, परम, उत्तम, उत्कृष्ट सुवन्तों का पूज्यमान सुवन्तों के साथ समास हो, सो समानाधिकरण तत्पुरुष हो । जैसे—सत्पुरुष, महापुरुष, परमपुरुष, उत्तमपुरुष, उत्कृष्टपुरुष । पूज्यमानैरिति किम्—उत्कृष्टो गौ कदेमात् ।

१४६-वृन्दारकनागकुञ्जरैः पूज्यमानम् ॥ २।१।६२॥

जो वृन्दारक नाग कुञ्जर सुवन्तों के साथ पूज्यमान अर्थों के वाचक सुवन्त का समास हो सो समानाधिकरण तत्पुरुष हो । गोवृन्दारक, अश्ववृन्दारक, गानाग, अश्वनाग, गोकुञ्जर, [अश्व-कुञ्जर] पूज्यमानमिति किम्—सुधीमो नाग ।

१४७ कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने ॥ २।१।६३ ॥

जो जाति के परिप्रश्न अर्थ में वर्तमान कतर कतम प्रत्ययान्त सुवन्त का समानाधिकरण सुवन्त के साथ समास हो सा समानाधिकरण तत्पुरुष हो । जैसे—कतरकठ, कतरकलाप, कतमकठ, कतमकलाप । जातिपरिप्रश्न इति किम्—कतरा भवता देवदत्त, कतमो भवता देवदत्त ।

१४८-किं क्षेपे ॥ २।१।६४ ॥

किम् शब्द का क्षेप अर्थ में सुवन्त के साथ समास हो, सो समानाधिकरण तत्पुरुष हो । जैसे—किराजा यो न रक्षति, किसखा योऽभिद्रुहति, किंगौ यो न वहति ।

१४९-किम. क्षेपे ॥ ५।४।७० ॥

क्षेप अर्थ में जो किं शब्द उससे समासान्त प्रत्यय न हो । [इससे] किराजा आदि उदाहरणों में टच प्रत्यय न हुआ ।

१ अनेक भेद वाली कठ कलाप जाति में आप कौन सी कठ या कलाप जाति के हैं, यह प्रश्न है । पु० मी० ।

१५०—पोटायुवतिस्तोककतिपयगृष्टिधेनुवशावेहद्वक्त्रयणी-
प्रवृत्तश्रोत्रियाध्यापकधूर्तैर्जातिः ॥ २ । १ । ६५ ॥

जो पोट, युवति, स्तोक, कतिपय, गृष्टि, धेनु, वशा, वेहद्व-
क्त्रयणी, प्रवृत्त, श्रोत्रिय, अध्यापक, धूर्त इन सुबन्तों का जाति
वाची सुबन्तों के साथ समास होता है वह [सामानाधिकरण]
तत्पुरुष हो। जैसे—इभा चासौ पोटो च इभपोटा, इभयुवति,
अमिस्तोक, उदश्रित्कतिपयम्, गोगृष्टिः, गोधेनुः, गोवशा, गोवेहद्व-
गोवक्त्रयणी, कठप्रवृत्ता, कठश्रोत्रियः, कठाध्यापकः, कठधूर्तः ।
जातिरिति किम्—देवदत्तः प्रवृत्ता ।

१५१—प्रशंसावचनैश्च ॥ २ । १ । ६६ ॥

जातिवाची सुबन्त प्रशंसावाची सुबन्तों के साथ समास को
प्राप्त हो सो सामानाधिकरण तत्पुरुष हो। जैसे—गोप्रकाण्डम्,
अश्वप्रकाण्डम्; गोमतल्लिका, [अश्वमतल्लिका]; अश्वमचर्चिका ।
जातिरिति किम्—कुमारीमतल्लिका ।

१५२—युवा खलतिपलितवलिनजरतीभिः ॥ २ । १ । ६७ ॥

खलति, पलित, बलिन और जरती, इन सुबन्तों के साथ युवन्
सुबन्त समास को प्राप्त हो, सो [सामानाधिकरण] तत्पुरुष हो।
युवाखलतिः युवखलतिः, युवतिः खलती युवखलतीः, युवा पलितः
युवपलितः, युवतिः पलिता युवपलिता, युवा बलिन युवबलिनः,
युवतिर्पतिना युवपलिना, युवाभ्रन् युवभ्रन्, युवतिर्जरती युवजरती।

१५३—कृत्यतुत्याख्या अजात्या ॥ २ । १ । ६८ ॥

कृत्य प्रत्ययान्त और तुन्य तथा तुन्य के समानार्थ जो सुबन्त
सो जातिपरिज्ञेय सुबन्त के साथ समास पावे, सो सामानाधिकरण

तत्पुरुष कर्मधारयसमास हो । जैसे—भोज्यं च तदुष्णञ्च भोज्योष्णम्, भोज्यलवणम्, पानीयशीतम् । तुल्याख्या—तुल्यश्वेतः, तुल्यमहान् ; सदृशश्वेतः, सदृशमहान् । अजात्येति किम्—रक्षणीयो मनुष्यः ।

१५४—वर्णो वर्णेन ॥ २ । १ । ६६ ॥

वर्ण विशेषवाची समानाधिकरण सुबन्त के साथ वर्ण विशेषवाची सुबन्त समास पावे, सो समानाधिकरण तत्पुरुष हो । कृष्णसारङ्गः, लोहितसारङ्गः, कृष्णशबलः, लोहितशबलः ।

१५५—कुमारः श्रमणादिभिः ॥ २ । १ । ७० ॥

कुमार शब्द, श्रमण आदि सुबन्तों के साथ समास पावे सो समानाधिकरण तत्पुरुष हो । कुमारी श्रमणा कुमारश्रमणा, कुमारी प्रव्रजिता कुमारप्रव्रजिता, कुमारी कुलटा कुमारकुलटा इत्यादि ।

१५६—चतुष्पादो गर्भिण्या ॥ २ । १ । ७१ ॥

चतुष्पादवाचा सुबन्त गर्भिणी सुबन्त के साथ समास पावे सो [समानाधिकरण] तत्पुरुष हो । जैसे—गोगर्भिणी, अजागर्भिणी, महिषीगर्भिणी ।

१५७—वा०—चतुष्पाज्जातिरिति वक्तव्यम् ॥ २ । १ । ७१ ॥

[जातिरिति किम्—] इह माभूत्—कालाक्षी गर्भिणी । स्वतिमती गर्भिणी । चतुष्पाद इति किम्—ब्राह्मणी गर्भिणी ।

१५८—मयूरव्यंसकादयश्च ॥ २ । १ । ७२ ॥

मयूरव्यंसक आदि शब्द निपातन किये हैं, सो समानाधिकरण तत्पुरुष हों । जैसे—मयूरव्यंसक, छात्रव्यंसक ।

॥ इति समानाधिकरणः कर्मधारयस्तत्पुरुषः समास ॥

अथैकाधिकरणस्तत्पुरुषः ॥

१५९—पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे ॥२।२।१॥

पूर्व, अपर, अधर, उत्तर ये सुबन्त एकदेशवाची अर्थात् अवयववाची सुबन्त के साथ समास पावें, [और वह तत्पुरुष समास हो] एक ऋ अधिकरण अर्थात् एक द्रव्य वाच्य हो तो। पष्ठी-समासापवादोऽयं योगः । पूर्वं कायस्य पूर्वकायः, अपरकायः, अधरकायः, उत्तरकायः । एकदेशिनैति किम्—पूर्वं नाम्नेः कायस्य । एकाधिकरण इति किम्—पूर्वं द्वात्राणामामन्त्रय ।

१६०—अर्थं नपुंसकम् ॥ २ । २ । २ ॥

जो नपुंसक लिङ्ग अर्थ शब्द, एकदेशी एकाधिकरण सुबन्त के साथ समास को प्राप्त हो सो तत्पुरुष हो । जैसे—अर्द्धं पिप्पल्याः अर्द्धपिप्पली, अर्द्धकौशातकी । नपुंसकमिति किम्—ग्रामाधेः, नगरार्धः । एकदेशिनैत्येव—अर्थं ग्रामस्य देवदत्तस्य । एकाधिकरण इत्येव—अर्थं पिप्पलीनाम् । [समभागवाची नपुंसक और अवयववाची पुंलिङ्ग होता है] ।

१६१—द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याण्यन्यतरस्याम् ॥२।२।३॥

द्वितीय, तृतीय, चतुर्थे और तुर्ये ये सुबन्त एकदेशि एकाधिकरण सुबन्त के साथ समास को प्राप्त हों, सो तत्पुरुष हो । द्वितीयं भिद्यायाः द्वितीयभिद्या, पष्ठीसमासः पद्ये—भिद्याद्वितीयं वा । तृतीयं भिद्यायाः तृतीयभिद्या, भिद्यातृतीयं वा । चतुर्थं भिद्यायाः चतुर्थेभिद्या, भिद्याचतुर्थं वा । एकदेशिनैत्येव—द्वितीयं भिद्यायाः भिद्युक्त्वात् । एकाधिकरण इत्येव—द्वितीयं भिद्याणाम् ।

१६२—प्रास्तापन्ने च द्वितीयया ॥ २ । २ । ४ ॥

❧ अनेक शब्द समास हो के एक ही परार्थ के वाचक हो ।

प्राप्त और आपन्न सुबन्त, द्वितीयान्त सुबन्त के साथ-समास को प्राप्त हों। जैसे—प्राप्तो जीविकाम् प्राप्तजीविक, जीविकाप्राप्त इति वा; आपन्नो जीविकाम् आपन्नजीविकः, जाविकापन्न इति वा।

१६३—कालाः परिमाणिना ॥ २ । २ । ५ ॥

कालवाची सुबन्त परिमाणवाची सुबन्त के साथ समास को प्राप्त हो सो तत्पुरुष हो। जैसे—मासो जातोऽस्य स 'मासजातः, संवत्सरजात, द्वयहजातः, त्रयहजातः।

१६४—नञ् ॥ २ । २ । ६ ॥

नञ् समर्थ सुबन्त के साथ समास पावे सो, नञ् तत्पुरुष हो। जैसे—न ब्राह्मणः अब्राह्मणः, अयृपलः।

१६५—तस्मान्नुडचि ॥ ६ । ३ । ७४ ॥

तस्मात् नाम लोप हुये नञ् के नकार से परे अजादि उत्तरपद को नुट् का आगम हो। [जैसे—] न अच् अनच्, न अश्चः अनश्च, न उष्ट्रः अनुष्ट्रः इत्यादि।

१६६—नञस्तत्पुरुपात् ॥ ५ । ४ । ७१ ॥

जो नञ् से परे राज आदि शब्द सो अन्त में जिस तत्पुरुष के उससे समासान्त प्रत्यय न हों। [जैसे—] अराजा, असखा, अगौः। तत्पुरुपादिति किम्—अनृचो माणवकः, अधुरं शकटम्।

१६७—पथो विभापा ॥ ५ । ४ । ७२ ॥

जो नञ् से परे पथिन् शब्द सो जिस तत्पुरुष के अन्त में हो उससे समासान्त प्रत्यय विकल्प करके हो। [जैसे—] अपथम्, अपन्थाः।

१६८—ईषदकृता ॥ २ । २ । ७ ॥

जो सुबन्त ईपत् 'शब्द कृत् वर्जित सुबन्त के साथ समास को प्राप्त हो, वह तत्पुरुष समास हो ।

१६६-वा०—ईपद् गुणवचनेनेति वक्तव्यम् ॥२।२।७॥

ईपत्कडारः, ईपत्पिङ्गलः, ईपद्विकारः, ईपदुन्नत, ईपत्पीतम् ।
गुणवचनेनेति किम्—ईपद् गार्ग्यः ।

१७०-पष्ठी ॥ २ । २ । ८ ॥

पष्ठन्त सुबन्त समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प करके समास पावे, सो पष्ठी तत्पुरुष ॐ जानो । राज्ञः पुरुष राजपुरुषः, राज्ञो पुरुषो राजपुरुषो, राज्ञा पुरुषा राजपुरुषा, राज्ञ. पुरुषो पुरुषा वा; ब्राह्मणकन्बलः ।

१७१-वा०—कृद्योगा च पष्ठी समस्यत इति वक्तव्यम् ॥

२ । २ । ८ ॥

जैसे—इध्मद्रश्चनः, पलाशशातनः । किमर्थमिदमुच्यते ? प्रति-पदविधाना पष्ठी न समस्यत इति वक्ष्यति, [सा० १७३] तस्यायं पुरस्तादपकर्षः ।

१७२-याजकादिभिश्च ॥ २ । २ । ९ ॥

पष्ठन्त याजक आदि शब्द सुबन्तों के साथ समास पावे सो पष्ठी तत्पुरुष हो । जैसे—ब्राह्मणयाजक, क्षत्रिययाजक ।

† [१७३-वा०—प्रतिपद विधाना च पष्ठी न समस्यत इति वक्तव्यम् ॥ २ । २ । १० ॥

जिस पष्ठी का विशेष निर्देश करके विधान किया है उसका समास नहीं होता । जैसे—सर्पियो ज्ञानम्—मधुना ज्ञानम् ।]

ॐ यहाँ से आगे पष्ठीतत्पुरुष का प्रकरण समाप्त हो जाहिये ।

† पूर्व सूत्र (प्रमात्र १०१) की व्याख्या में लिखा है—“प्रतिपद

१७४-पष्ठ्या आक्रोशे ॥ ६ । ३ । २१ ॥

आक्रोशे अर्थात् निन्दा अर्थ में उत्तरपद परे हो तो पष्ठी का अलुक् हो । जैसे-चौरस्यकुलम् । आक्रोश इति किम्-त्राशणकुलम् ।

१७५-वा०-पष्ठीप्रकरणे वाग्दिकूपश्यद्गुधो युक्ति-
दण्डहरेषु यथासख्यमलुग्वक्तव्यः ॥ ६ । ३ । २१ ॥

जैसे-वाचोयुक्ति, दिशोदण्डः, पश्यतोहरः ।

१७६-वा०-आमुष्यायणामुष्यपुत्रिकामुष्यकुलिकेति
चालुग् वक्तव्यः ॥ ६ । ३ । २१ ॥

अमुष्या अपत्यम् आमुष्यायण, नडादित्वात् [छैण० १७६]
फक् । अमुष्य पुत्रस्य भाव आमुष्यपुत्रिका, मनोद्वादित्वाद् [अ०
५ । १ । १३१] बुञ् । तथा आमुष्यकुलिकेति ।

१७७-वा०-देवाना प्रिय इत्यत्र च पष्ठ्या अलुग्-
वक्तव्यः ॥ ६ । ३ । २१ ॥

जैसे-देवानाप्रिय ।

१७८-वा०-शेषपुच्छलाङ्गूलेषु शुनः सज्ञाया पष्ठ्या
अलुग वक्तव्य ॥ ६ । ३ । २१ ॥

जैसे-शुन शेष, शुन पुच्छ, शुनोलाङ्गूल ।

१७९-वा०-दिवश्च दासे पष्ठ्या अलुग् वक्तव्यः ॥
६ । ३ । २१ ॥

विधान पष्ठी के समास का निषेध करेंगे, परन्तु यह निषेध मुद्रित ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं होता । सम्भव है छेहकादि के प्रमाद से नष्ट हो गया हो । अतएव हमने यह कोष्ठान्तर्गत पाठ बदाया है । शु० भी० ।

दिवोदासाय गायति ।

१८०—पुत्रेऽन्यतरस्याम् ॥ ६ । ३ । २२ ॥

पुत्र उत्तरपद परे हो तो आक्रोश अर्थ में षष्ठी [का] अलुक् विकल्प करके हो । जैसे—दास्या पुत्रः, दासीपुत्रो वा । आक्रोश इति किम्—ब्राह्मणीपुत्रः ।

१८१—ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः ॥ ६ । ३ । २३ ॥

ऋकारान्त विद्यासम्बन्धी और ऋकारान्त योनि सम्बन्धियों से परे षष्ठी का अलुक् हो । जैसे—होतुरन्तेवासी, होतुःपुत्रः; पितुरन्तेवासी, पितुःपुत्रः । ऋत इति किम्—आचार्यपुत्रः, मातुलपुत्रः ।

१८२—विभाषा स्वसृपत्योः ॥ ६ । ३ । २४ ॥

ऋकारान्त विद्यासम्बन्धी और ऋकारान्त योनिसम्बन्धियों से स्वसृ तथा पति उत्तरपद परे हो तो विकल्प करके षष्ठी का अलुक् हो । जैसे—मातुःष्वसा, मातुःस्वसा, मातृष्वसा; पितुःष्वसा, पितुःस्वसा, पितृष्वसा, दुहितुःपतिः, दुहितृपतिः; ननान्दुःपतिः, ननान्दृपतिः ।

१८३—नित्यं क्रीडाजीविकयोः ॥ २ । २ । १७ ॥

क्रीडा और जीविका अर्थ में षष्ठी सुबन्त के साथ नित्य समास पावे । जैसे—क्रीडा-वदालकमुष्पमखिका, वारणमुष्पमचारिका जीविका—दन्तलेखकः, पुस्तकलेखकः । क्रीडाजीविकयोरिति किम्—औदनस्य भोजकः । छ

१८४—कुगतिप्रादयः ॥ २ । २ । १८ ॥

कु, अव्यय, गतिसंज्ञक और प्रादि गणस्थ शब्द समर्थ सुबन्त के साथ समास को प्राप्त हों । जैसे—कु—कुत्सितः पुरुषः सुपुरुषः । गति—धरतीकृतम्, यदूरीकरोति । प्रादयः—

छ यहाँ एक षष्ठीतापुरुष भाषा, इसके भागे पुनः [साधारण] अपुनः का प्रकरण जका है ।

१८५-वा०-दुर्निन्दायाम् ॥ २ । २ । १८ ॥

दुष्पुरुष, दुष्कृतम् ।

१८६-वा०-स्वतीपूजायाम् ॥ २ । २ । १८ ॥

सु और अति ये पूजा अर्थ में ही समास को प्राप्त हों । शोभनः पुरुष सुपुरुषः, अतिपुरुष, अतिस्तुतम् ।

१८७-वा०-श्राडीपदर्थे ॥ २ । २ । १८ ॥

आपिङ्गलः आकडार, आवद्धम् ।

१८८-वा०-प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया ॥ २ । २ । १८ ॥

प्रगत आचार्यः प्राचार्यः, प्रान्तेवासी ।

१८९-वा०-अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया ॥

२ । २ । १८ ॥

अतिक्रान्तः सट्त्वाम् अतिखट्वः, अतिमाल ।

१९०-वा०-अवादयः क्रुष्टाद्यर्थे तृतीयया ॥ २ । २ । १८ ॥

अवक्रुष्टः कोकिलया अवकोकिल ।

१९१-वा०-पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या ॥ २ । २ । १८ ॥

परिग्लानोऽध्ययनाय पर्यध्ययन, अलं कुमार्थं अलकुमारि ।

१९२-वा०-निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या ॥ २ । २ । १८ ॥

निष्क्रान्तः कौशम्या. निष्कौशाम्बि, निर्वाणसि, निष्क्रान्तः समायाः नि सभ ।

१९३-वा०-प्रादिप्रसङ्गे कर्मप्रवचनीयाना प्रतिषेधो

वक्तव्यः ॥ २ । २ । १८ ॥

वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्, साधुर्देवदत्तो मातरं प्रति ।

१६४-उपपदमतिङ् ॥ २ । २ । १९ ॥

जो तिङ् वर्जित उपपद है सो समर्थ सुबन्त के साथ नित्य समास को प्राप्त हो, सो तत्पुरुष समास हो । जैसे—कुम्भकार, नगरकार, इत्यादि ।

१६५-न पूजनात् ॥ ५ । ४ । ६९ ॥

पूजन वाची से परे समासान्त प्रत्यय न हो । जैसे—सुराजा, अतिराजा, सुसखा, अतिसखा, सुगौः, अतिगौः ।

१९६-अमैवाव्ययेन ॥ २ । २ । २० ॥

जो उपपद [का] अव्यय के साथ समास हो तो अम् अव्यय ही के साथ हो, अन्य के सह नहीं । स्वादुंकारं मुहृक्ते, लवणंकारं मुहृक्ते, सपन्नंकारं मुहृक्ते । अमैवेति किम्—नेह भवति कालो भाक्तम् । एवकारकरणमुपपदविशेषणार्थम् । अमैव यत्तुल्यविधान-मुपपद तस्य समासो यथा स्यात्, अमा चान्येन च यत्तुल्यविधानं तस्य मा भूत्—अप्रे मुक्त्वा, अप्रे भोजम् ।

१६७-तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतरस्याम् ॥ २ । २ । २१ ॥

“उपदंशश्चतृतीयायाम्”^१ यहां से ले के जो उपपद हैं वे अम् अव्यय के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हों सो तत्पुरुष समास हो । मूलकोपदंशं मुहृक्ते, मूलकेनोपदंशं मुहृक्ते; उच्चैःकारं समाचष्टे, उच्चैःकारेण वा । अमैवेत्येव—पर्याप्तिवचनध्वलमर्थेषु^२ । पर्याप्तो भोक्तुम्, प्रभुर्भोक्तुम्, समर्थो भोक्तुम् ।

१६८-क्त्या च ॥ २ । २ । २२ ॥

१, भा० १५८९ । पु० मी० ।

२, भा० १३४३ । पु० मी० ।

तृतीया प्रभृति शब्द क्त्वा प्रत्यय के साथ समास विकल्प करके प्राप्त हो । उच्चैःकृत्य, उच्चैःकृत्वा । ॐ

१६६-शेषो बहुव्रीहिः ॥ २ । २ । २३ ॥

शेष अर्थात् उक्त समासों को छोड़ के जो आगे समास कथन करते हैं सो बहुव्रीहि है । यह अधिकार सूत्र भी है ।

२००-अनेकमन्यपदार्थे ॥ २ । २ । २४ ॥

जो अन्य-पद के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबन्त, सो सुबन्त के सङ्ग समास को प्राप्त हो, उसको बहुव्रीहि जानो । † विशाले नेत्रे यस्य स विशालनेत्रः, बहु धनं यस्य स बहुधनो बहुधनको वा पुरुषः । एक प्रथमा विभक्ति के अर्थ को छोड़ कर सब विभक्ति के अर्थों में बहुव्रीहि समास होता है । प्राप्तमुदकं यं ग्रामं स प्राप्नोदको ग्रामः, ऊढो रथो येन स ऊढरथोऽनड्वान्, उपहृतमुदकं यस्मै स उपहृतो-दकोऽतिथि, उद्धृत आदनो यस्याः सा उद्धृतौदना स्थाली, अच्-अन्ते यस्य स अजन्तो धातुः, वीराः पुरुषा यस्मिन् ग्रामे स वीर-पुरुषो ग्रामः । परन्तु प्रथमा के अर्थ में नहीं होता है—वृष्टे मेघे गतः । अनेकप्रहणं किम्—बहूनामपि यथा स्यात्, सुसूक्ष्मजटकेशः इत्यादि ।

२०१-वा०-बहुव्रीहिः समानाधिकरणानामिति

वक्तव्यम् ॥ २ । २ । २४ ॥

ॐ यहाँ तक कुगति भीर प्राप्ति प्रयुक्त तत्पुरुष समास भाषा, इसके भागे बहुव्रीहि का अधिकार पछा है ।

† इस बहुव्रीहि समास के विग्रह में प्रथमा और अन्य पदार्थ में द्वितीया आदि विभक्तियों के प्रयोग होते हैं जैसे नेत्र शब्द प्रथमा और यस्य शब्द से पढ़ी हुई है जैसे सर्वत्र समसो ।

३३ व्याधिकरणानां माभूत्—पञ्चभिर्मुक्तमस्य ।

२०२-वा०-अव्ययानां च बहुव्रीहिर्वक्तव्यः ॥ २।२।२४ ॥

[उच्चैर्मुखं यस्य] उच्चैर्मुखः, नीचैर्मुखः ।

२०३-वा०-सप्तम्युपमानपूर्वपदस्योत्तरपदलोपश्च ॥

२।२।२४ ॥

कण्ठे स्थितः कालो यस्य कण्ठेकालः, वरसिलोमा, वृष्टस्य मुख-
मित्त्व मुखं यस्य स वृष्टमुखः, खरमुखः ।

२०४-वा०-समुदायविकारपष्ठचाश्च बहुव्रीहिस्तत्परपद-
लोपश्चेति वक्तव्यम् ॥ २।२।२४ ॥

केशानां संघातः केशसंघातः, केशसंघातश्चूडाऽस्य स केशचूडः,
सुवर्णविकारोऽलंकारोऽस्य स सुवर्णोऽलंकारः ।

२०५-वा०-प्रादिभ्यो घातुजस्योत्तरपदलोपश्च वा
बहुव्रीहिर्वक्तव्यः ॥ २।२।२४ ॥

प्रपतितं पर्णमस्य प्रपर्णः, प्रपतित पलाशमस्य प्रपलाशः ।

२०६-वा०-नञोऽस्त्यर्थानां बहुव्रीहिर्वा चोत्तरपद-
लोपश्च वक्तव्यः ॥ २।२।२४ ॥

अविद्यमानः पुत्रो यस्य सोऽपुत्रः, [अविद्यमान पुत्रः,] अविद्य-
माना भार्या यस्य सोऽभार्यः, अविद्यमानभार्यः ।

२०७-वा०-सुवधिकारेऽस्तिक्षीरादीनां बहुव्रीहि-
र्वक्तव्यः ॥ २।२।२४ ॥

अस्तिक्षीरा माद्वणी । अस्त्यादयो निपाताः ।

२०८-स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंस्कादनूद् समानाधिकरणे
स्त्रियामपूरणीप्रियादिषु ॥ ६।३।३४ ॥

भाषित पुमान् येन स भाषितपुंस्कः, तस्मात् । भाषितपुंलिङ्ग से^१
रे ऊङ्वजित जो स्त्री शब्द उसको पुंवात् हो अर्थात् उसका पुंलिङ्ग
सदृश रूप होता है समानाधिकरण स्त्रीलिङ्ग वाची उत्तरपद परे
तो, परन्तु पूरणी तथा प्रियादि को छोड़ के । दर्शनीया भार्याः
स्य स दर्शनीयभार्यः, रूपवद्भार्यः, शललक्षणचूडः, पूर्णा विद्या यस्याः
स पूर्णविद्या, विदिता नीतियया सा विदितनीति, सुशिक्षिता वाणी
स्याः सा सुशिक्षितवाणी । स्त्रिया इति किम्—भ्रामणि ब्राह्मणकुलं
ःप्रिस्य भ्रामणिवृष्टिः । भाषितपुंस्कादिति किम्—खट्वाभार्यः ।
प्रनूडिति किम्—ब्रह्मबन्धुभार्यः । समानाधिकरण इति किम्—
कल्याण्या माता कल्याणीमाता । स्त्रियामिति किम्—कल्याणीप्रधान-
नेषां कल्याणीप्रधाना इमे । अपूरणीति किम्—कल्याणी पश्चमी
शासां ताः कल्याणीपश्चमा रात्रयः, कल्याणीदशमाः ।

२०९—प्रधानपूरणीग्रहणं कर्तव्यम् ॥ ६ । ३ । ३४ ॥

इह माभूत् । कल्याणपश्चमीकः पक्ष इति । अप्रियोदिव्रिति
किम्—कल्याणीप्रियः ।

२१०—दिङ्नामान्यन्तराले ॥ २ । २ । २६ ॥

जो अन्तराल अर्थ में दिक् नाम सुबन्त शब्द, सुबन्त के साथ
समास को प्राप्त हों, सो बहुव्रीहि समास हो । मध्य कोण को
अन्तराल कहते हैं । दक्षिणस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोर्यदन्तरालं दिक् सा
दक्षिणपूर्वा दिक्, पूर्वोत्तरा, उत्तरपश्चिमा, पश्चिमदक्षिणा ।

[२११—वा०—सर्वनामो वृत्तिमात्रे पुं वद्भावो वक्तव्यः

॥ २ । २ । २६ ॥

स्त्री लिङ्गवाची सर्पनाम शब्द का समासादि सय वृत्तियों में

पुं-द्वाव कहना चाहिये । इस वर्तिक से दक्षिणा आदि पूर्वपदों को पुं-द्वाव हो जाता है ।]

२१२—संख्ययाऽव्ययासन्नादूराधिकसङ्ख्याः सङ्ख्येये ॥

२ । २ । २५ ॥

जो संख्येय में वर्तमान अव्यय, 'आसन्न, दूर, अधिक और सङ्ख्या, सुबन्त के साथ समास पावे, वह समास बहुव्रीहि हो । अव्यय—दशानां समीपे उपदशाः, उपविंशाः [आसन्न-] आसन्न-दशाः । [अदूर-] अदूरप्रामा वृत्ताः । [अधिक-] अधिकविंशाः । संख्या—द्वौ वा त्रयो वा द्वित्राः, त्रिचतुराः, द्विदशाः । संख्येयेति किम् । पञ्च ब्राह्मणाः । अव्ययासन्नादूराधिकसंख्या इति किम्—ब्राह्मणा-पञ्च । संख्येय इति किम्—अधिका विंशतिर्गवाम् ।

२१३—बहुव्रीहौ संख्येये ङजबहुगणात् ॥५।४।७३॥

जो संख्येय में वर्तमान बहुव्रीहि उससे समासान्त ङच् प्रत्यय हो । जैसे—उपदशाः, उपविंशाः, उपत्रिंशा, आसन्नदशा, अदूर-दशा । संख्येय इति किम् । चित्रगु, शबलगुः । अबहुगणादिति किम्—उपबहवः, उपगणाः ।

२१४—ङच्प्रकरणे संख्यायास्तत्पुपस्योपसंख्यानं

कर्त्तव्यं निस्त्रिंशद्वर्धम ॥ ५ । ४ । ७३ ॥

निर्गतानि त्रिंशत । निस्त्रिंशानि वर्षाणि देवदत्तस्य । निश्चत्वारि-
शानि यज्ञदत्तस्य । निर्गतस्त्रिंशताङ्गुलिभ्यो निस्त्रिंश खड्गः ।

२१५—तत्र तेनेदमिति सरूपे ॥ २ । २ । २७ ॥

इदम् अर्थ में सप्तम्यन्त सरूप और वृत्तीयान्त सरूप, सुबन्त के साथ समास पावे, सो बहुव्रीहि हो ।

२१६—इच् कर्मव्यतिहारे ॥ ५ । ४ । १२७ ॥

कर्म के व्यतिहार अर्थ में जो बहुव्रीहि उससे समासान्त इच् प्रत्यय हो। और तिष्ठद्गुप्रभृति में "इच् [कर्मव्यतिहारे" गण-सूत्र] पढ़ा है इसलिये अव्यय जानना। केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तं केशकेशि, दण्डैर्दण्डैः प्रहृत्येदं युद्धं प्रवर्तते तत् दण्डादण्डिड ।

२१७-अन्येषामपि दृश्यते ॥ ६ । ३ । १३७ ॥

जिस शब्द को दीर्घादेश विधान कहीं न किया हो उसको दीर्घत्व इस सूत्र से जानिये। केशकेशि, दण्डादण्डिड इत्यादि।

२१८-द्विदण्डयादिभ्यश्च ॥ ५ । ४ । १२८ ॥

इच् प्रत्ययान्त द्विदण्डिड, द्विसुसलि इत्यादि निपातन किये हैं।

२१९-तेन सहेति तुल्ययोगे ॥ २ । २ । २८ ॥

तुल्य योग अर्थ में सह शब्द तृतीयान्त सुबन्त के साथ समास पावे, सो बहुव्रीहि हो।

२२०-वोपसर्जनस्य ॥ ६ । ३ । ८२ ॥

जो उपसर्जन अर्थ में वर्तमान सह शब्द उसको स आदेश विकल्प करके हो। पुत्रेण सहागतः पिता सपुत्रः, सहपुत्र; सच्छात्र आषायेः, सहच्छात्रो वा; सकर्मकरः, सहकर्मकरो वा। तुल्ययोग इति किम्—सहैव दशभिः पुत्रैर्भारं वहति गर्दभी। उपसर्जनस्येति किम्—सहश्रवा, सहयुष्वा।

२२१-प्रकृत्याशिष्यगोवत्सहलेषु ॥ ६ । ३ । ८३ ॥

आशीर्वाद अर्थ में उत्तरपद परे हो तो गो, वत्स और हल इनको वर्ज के सह शब्द प्रकृति करके रहे अर्थात् स आदेश न हो। स्वस्ति देवदत्ताय सहपुत्राय, सहच्छात्राय, सहामाताय। आशिषीति किम्—स नुगाय दस्यवे दण्डं दद्यात्, सहानुगाय वा। अगोवत्स-

हलैष्विति किम्—स्वस्ति भवते सहगवे, सगवे; सहवत्साय, सवत्साय; सहहलाय, सहलाय । बोपसर्जनस्य [सा० २२०] इति पत्ते भवत्येव समासः ।

२२२—समानस्य छन्दस्यमूर्धप्रभृत्युदकेषु ॥ ६।३।८४ ॥

जो मूर्ध प्रभृति और उदके वर्जित उत्तरपद परे हो तो समान शब्द को स आदेश हो । अनुभ्राता सगभ्ये, अनुसखा अयूध्य । अमूर्ध-प्रभृत्युदकेष्विति किम्—समानमूर्धा, समानप्रभृतयः, समानोदका ।

२२३—बहुव्रीहौ सकथ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात् पच् ॥

५।४।११३ ॥

बहुव्रीहि समास में स्वाङ्गात्वाची सकथि और अक्षि शब्द से समासान्त 'पच्' प्रत्यय हो । जैसे—दीर्घसक्थ, कल्याणाक्षः, लोहितान् । जो स्त्री हो तो पित् होने से ङीप् प्रत्यय होता है—दीर्घे-सक्थी, कल्याणाक्षी इत्यादि । बहुव्रीहाविति किम्—परमसक्थि, परमाक्षि । सकथ्यक्ष्णोरिति किम्—दीर्घजानु, सुबाहुः । स्वाङ्गादिति किम्—दीर्घसक्थि शकटम्, स्थूलाक्षिरिक्षु ।

२२४—अङ्गुलेर्दारुणि ॥ ५।४।११४ ॥

दारु अर्थ में अङ्गुलि शब्दान्त बहुव्रीहि समास से समासान्त 'पच्' प्रत्यय हो । द्वे अङ्गुली यस्य द्वयङ्गुलम्, त्र्यङ्गुलम्, चतुरङ्गुल दारु । दारुणीति किम्—पञ्चाङ्गुलिर्हस्त ।

२२५—द्वित्रिम्या प मर्धन् ॥ ५।४।११५ ॥

द्वि और त्रि से परे मूर्धन् शब्द से बहुव्रीहि समास में समासान्त 'प' प्रत्यय हो । जैसे—द्विमूर्धः, त्रिमूर्धः । द्वित्रिभ्यामिति किम्—उच्चैर्मूर्धा ।

२२६—अप् पूरणीप्रमाणयोः ॥ ५।४।११६ ॥

जो पूरण प्रत्ययान्त और प्रमाणी शब्दान्त बहुव्रीहि उससे समासान्त अप् प्रत्यय हो । जैसे—कल्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणाम्, ताः कल्याणीपञ्चमा रात्रयः, कल्याणीदशमा रात्रयः, स्त्री-प्रमाणी यत्र ते स्त्रीप्रमाणाः कुटुम्बिन, भार्याप्रधाना इत्यर्थः ।

२२७—वा०—प्रज्ञानपूर्णीग्रहणं कर्त्तव्यम् ॥५।४।११६॥

इह मामूत्—कल्याणीपञ्चमी अस्मिन् पक्षे कल्याणपञ्चमीकः [पक्षः] ।

२२८—वा०—नेतुर्नक्षत्र उपसंख्यानम् ॥५।४।११६॥

मृगो नेता आसां रात्रीणां वा मृगनेत्रा रात्रयः, पुष्यनेत्राः । नक्षत्र इति किम्—देवदत्तनेत्रकाः ।

२२९—वा०—छन्दसि च नेतुरुपसंख्यानम् ॥५।४।११६॥

बृहस्पतिनेत्रा देवा, सोमनेत्राः ।

२३०—मासात् मृतिप्रत्ययपूर्वपदात् ठञ्विधिः ॥

५ । ४ । ११६ ॥

पञ्चको मासोऽस्य पञ्चकमासिकाः कर्मकारः, दशकमासिकः ।

२३१—अन्तर्बहिर्ग्या च लोमनः ॥ ५ । ४ । ११७ ॥

शन्तद् और बहिस् शब्द से परे जो लोमन् शब्द तदन्त बहुव्रीहि से समासान्त अप् प्रत्यय हो । जैसे—अन्तर्गतानि लोमान्यस्थान्त-लौमः प्रावार, बहिर्गतानि लोमान्यस्य स बलिर्लौमः पटः ।

२३२—अञ् नासिकायाः संज्ञायामसं चास्पृतात् ॥

५ । ४ । ११८ ॥

१. यहाँ "मोऽप्यास्यमृतपः" (श्लो० ५१५) सूत्र से मृति अर्थ में ऋन् प्रत्यय होता है । पु० मी० ।

नासिकान्त बहुव्रीहि समास से अच् प्रत्यय हो संज्ञा अर्थ में और नासिका के स्थान में नस् आदेश हो । दुरिव नासिकाऽस्य दुरणसः, चाद्भ्रूणसः, गानसः संज्ञायामिति क्रिम्—दृङ्नासिकः । अस्थूलादिति क्रिम्—अधूननासिको वराहः ।

२३३—वा०—खुरखराभ्यां नस् वक्तव्यः ॥ ५।४।११८ ॥

खुरणाः, खरणाः । पक्ष में अच् प्रत्यय भी इष्ट है—खुरणसः, खरणसः ।

२३४—उपसर्गाच्च ॥ ५।४।११९ ॥

। उपसर्ग से परे जो नासिका शब्द तदन्त बहुव्रीहि से समासान्त अच् प्रत्यय हो और नासिका को नस् आदेश भी हो । जैसे—उन्नता नासिका अस्य स उन्नस, भगता नासिका अस्य प्रणसः ।

२३५—त्रा०—वेर्गो वक्तव्यः ॥ ५।४।११९ ॥

वि पूर्वक नासिका के स्थान में प्र आदेश और अच् प्रत्यय भी हो । विगता नासिका अस्य स विप्रः ।

२३६—सुप्रातसुश्वसुदिवशारिकुञ्जचतुरश्रैणीपदाजपदप्रोष्ठ-
पदाः ॥ ५।४।१२० ॥

इसमें सुप्रात इत्यादि बहुव्रीहि समास और अच् प्रत्ययान्त निपातन क्रिये हैं । जैसे—शोभनं प्रातरस्य सुप्रातः, शोभनं अंऽस्य सुभ्रः, शोभनं दिवा अस्य सुदिवः, शारिख कुञ्जिरस्य शारिकुञ्जः, चतस्राऽश्रयोऽस्य स चतुरश्रः, एण्य इत्र पादावस्य एणोपदः, अजस्येव पादावस्य अजरदः, प्र ष्टा गौस्तस्येव पादावस्य प्रोष्ठपदः ।

२३७—नजूदु.सुभ्यो हलीसकूप्योरन्यतरस्याम् ॥

५।४।१२१ ॥

नजूदुम् और सु इन से परे जो हलि और सक्थि तदन्त बहु-

ब्रीहि से समासान्त अच् प्रत्यय विकल्प करके हो। जैसे—अविद्य-
माना हलिस्य अहलः, अहलिः; दुर्हलः, दुर्हलिः; सुहलः, सुहलिः;
अविद्यमानं सक्थस्य असक्थः, असक्थिः; दुःसक्थः, दुःसक्थिः;
सुसक्थः, सुसक्थिः।

२३८—नित्यमसिच् प्रजामेधयोः ॥ ५ । ४ । १२२ ॥

नच् दुस् और सु से परे जो प्रजा और मेधा तदन्त षट्ब्रीहि
से नित्य ही समासान्त असिच् प्रत्यय हो। जैसे—अविद्यमाना
प्रजाऽस्य अप्रजाः, दुःप्रजा, सुप्रजाः, अविद्यमाना मेधाऽस्य अमेधाः,
दुर्मेधा, सुमेधाः। नित्य प्रहण इसलिये है कि पूर्वसूत्र के विकल्प से
इस प्रयोग न हों।

२३९—बहुप्रजाश्छन्दसि ॥ ५ । ४ । १२३ ॥

बहुप्रजाः यह वेद में निपातन किया है। छन्दसीति किम्—
बहुप्रजो प्राक्षणः।

२४०—धर्मादिनिच् केवलात् ॥ ५ । ४ । १२४ ॥

केवल अर्थात् एक ही शब्द से परे जो धर्म शब्द उससे समा-
सान्त अनिच् प्रत्यय हो। जैसे—कल्याणो धर्मोऽस्य कल्याणधर्मा,
प्रियधर्मा। केवलादिति किम्—परमः स्वो धर्मोऽस्य परमस्वधर्मः।

२४१—जम्भा सुहरितृणसोमेभ्यः ॥ ५ । ४ । १२५ ॥

सु, हरित, तृण और सोम शब्द से परे यह जम्भा शब्द [कृत्व-
समासान्त] निपातन किया है, जम्भा नाम मुख्य दांतों का और
शाने योग्य वस्तु का भी है। शोभनो जम्भोऽस्य सुजम्भा देवदत्तः,
हरितजम्भा, तृणजम्भा, सोमजम्भा।

में । लुब्ध नाम व्याध का है । दक्षिणोर्मे व्रणमस्त्र दक्षिणोर्मा मृगः *
 ईमें व्रणमुच्यते, दक्षिणमङ्ग व्रणितमस्य व्याधेनेत्यर्थ । लुब्धशोभ, इति
 किम्—दक्षिणोर्मे शकटम् ।

२४३—प्रसंभ्या जानुनीहुः ॥ ५ । ४ । १२६ ॥

प्र और सम् से परे जानु शब्द को समासान्त हु आदेश हो ।
 जैसे—प्रकृष्टे स्तृष्टे च जानुनी अस्य प्रहः, सङ्गुः ।

२४४—ऊर्ध्वाद् विभाषा ॥ ५ । ४ । १३० ॥

ऊर्ध्व शब्द से परे जानु शब्द को विकल्प करके हु आदेश हो ।
 जैसे—ऊर्ध्वे जानुनी अस्य ऊर्ध्वङ्गुः, ऊर्ध्वजानुः ।

२४५—ऊधसोऽनङ् ॥ ५ । ४ । १३१ ॥

ऊधस् † शब्दान्त बहुव्रीहि को समासान्त अनङ् आदेश हो ।
 जैसे—ऊधमिवोधोऽस्याः ऊधोऽध्नी, घटोऽध्नी गौः ॥

२४६—वा०—ऊधसोऽनङि स्त्रीग्रहणं कर्तव्यम् ॥

५ । ४ । १३१ ॥

इह माभूत्—महोधाः पर्जन्य, घटोधो धैनुकम् ।

२४७—धनुपक्ष ॥ ५ । ४ । १३२ ॥

धनुप् शब्दान्त बहुव्रीहि को अनङ् आदेश हो । जैसे—‡ शार्ङ्गं
 धनुरस्य शार्ङ्गधन्वा, गायत्रीधन्वा, पुष्पधन्वा, अधिव्यधन्वा ।

२४८—वा संज्ञायाम् ॥ ५ । ४ । १३३ ॥

ॐ मिस मृग के दक्षिण पार्श्व में बाण आदि म छत किया हो,
 ऊधको दक्षिणोर्मा कहते हैं, क्योंकि ईमें छत वा नाम है ।

† यशों के ऊपर भी वृष का स्थान अर्थात् पुन है उसको वधस्
 कहते हैं ।

‡ शार्ङ्गं आदि धनुष विशेष के नाम हैं ।

सङ्गाविषय मे धनुः शब्दान्त बहुव्रीहि को विकल्प करके अन्तः
आदेश हा । जैसे— ऋ शतधनुः, शतधन्वा, दृढधनुः, दृढधन्वा ।

२४९—जायाया निष् ॥ ५ । ४ । १३४ ॥

जायान्त बहुव्रीहि को समासान्त निष् आदेश हो । युवति-
र्जायाऽस्य युवजानिः, पृथ्वजानिः ।

२५०—गन्धस्येदुत्पृतिसुसुरभिभ्यः ॥ ५ । ४ । १३५ ॥

उत्, पृति, सु और सुभि शब्दों से परे गन्ध शब्द को समा-
सान्त इत् आदेश हो । उद्गतो गन्धाऽस्य उद्गन्धिः, पृतिगन्धिः,
सुगन्धिः, सुभिगन्धिः । यतेभ्य इति किम्—तीव्रगन्धो वातः ।

२५१—वा०—गन्धस्येत्त्वे तदेकान्तग्रहणम् ॥ ५ । ४ । १३५ ॥

गन्ध शब्द को इत्त्व विधान में उसी का अवयव हो तो इत्त्व
होता है [इससे] यहा नहीं होता † । शोभनो गन्धोऽस्य सुगन्ध
आपणः ।

२५२—अत्याख्यायाम् ॥ ५ । ४ । १३६ ॥

अल्प अर्थ में वर्तमान बहुव्रीहि समासान्त गन्ध शब्द-को इत्
आदेश हो । जैसे—सूराऽल्पाऽस्मिन् सूगन्धि भोजनम्, अल्प-
मस्मिन् भोजने घृतं घृतगन्धि, चीरगन्धि, तैजगन्धि, दधिगन्धि,
सक्रगन्धि इत्यादि ।

२५३—उपमानाच्च ॥ ५ । ४ । १३७ ॥

उपमान वाची से परे गन्ध शब्द को इत् आदेश हो। पद्मस्यैव गन्धोऽस्य पद्मगन्धि, उत्पत्तस्यैव गन्धाऽस्य पुष्पस्य तदुत्पलगन्धि, करीषगन्धि, कुमुदगन्धि।

२५४-पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः ॥ ५।४।१३८ ॥

बहुव्रीहि समास में हस्ति आदि शब्दों को छांड़ के उपमान वाची शब्द से परे पाद शब्द के अकार का लोप हो। व्याघ्रस्यैव पादावस्य शुन स व्याघ्रपात्, सिंहपात्। अहस्त्यादिभ्य इति किम्— हस्तिपाद, कटोलपादः।

२५५-कुम्भपदीषु च ॥ ५।४।१३९ ॥

कुम्भपदी आदि शब्दों में पाद शब्द के अकार का लोप निपातन से किया है। कुम्भपदी, शतपदी, अत्रापदी इत्यदि।

२५६-सख्यासुपूर्वपदस्य च ॥ ५।४।१४० ॥

बहुव्रीहि [समास म] सख्या और सु पूर्वक पाद शब्द के अकार का लोप हो। द्वौ पादावस्य द्विपात्, त्रिपात्, चतुष्पात्, शोभनीः पादावस्य सुपात्।

२५७ वयसि दन्तस्य दत् ॥ ५।४।१४१ ॥

सख्या और सुपूर्वक बहुव्रीहि [समास में] दन्त शब्द को समासान्त दत् आदेश हो। द्वौ दन्तावस्य द्विदन्, त्रिदन्, चतुर्दन्, शोभना दन्ता अस्य सुदन् कुमार। वयसीति किम्—द्विदन्तो कुञ्जरः।

२५८-छन्दसि च ॥ ५।४।१४२ ॥

वेद में बहुव्रीहि म दन्त शब्द को समासान्त दत् आदेश हो। जैसे—पद्मदन्तमालभेत, उभयदन्तमालभते।

२५९-स्त्रियां संज्ञायाम् ॥ ५।४।१४३ ॥

जहाँ स्त्री की संज्ञा करना हो वहाँ बहुव्रीहि में दन्त शब्द को

समासान्त्त दृष्ट आदेश हो । अयादती, फानदती । संज्ञायामिति किम्—समदन्ती, क्षिग्धदन्ती ।

२६०—विभाषा श्यावारोकाभ्याम् ॥ ५ । ४ । १४४ ॥

श्याव और अरोक शब्द से परे बहुव्रीहि में दन्त शब्द को विकल्प करके समासान्त दृष्ट आदेश हो । श्यावा दन्ता अस्म्य श्यावदन्, श्यावदन्तः, अरोकदन्, अरोकदन्तः । अरोकनाम दांतिरहितः ।

२६१—अग्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवराहेभ्यश्च ॥ ५ । ४ । १४५ ॥

अग्रान्त शब्द, शुद्ध, शुभ्र, वृष और वराह इनसे परे बहुव्रीहि में दन्तशब्द को विकल्प करके समासान्त दृष्ट आदेश हो । जैसे—कुड्मलामिव दन्ता अस्म्य कुड्मलामदन, कुड्मलामदन्तः; शुद्धदन्, शुद्धदन्तः; शुभ्रदन्, शुभ्रदन्तः; वृषदन्, वृषदन्तः; वराहदन्, वराहदन्तः ।

२६२—ककुदस्यावस्थाया लोपः ॥ ५ । ४ । १४६ ॥

अवस्था अर्थ गम्यमान हो तो बहुव्रीहि में ककुद शब्द के अन्त का समासान्त लोप हो । अहंजातककुन् वत्स, माल इत्यर्थः; सन्ननककुन्, वृद्धवया वृष इत्यर्थः, स्थूलककुत्, बलवानित्यर्थः । अवस्थायामिति किम्—श्रेतककुदः ।

२६३—त्रिककुत् पर्वते ॥ ५ । ४ । १४७ ॥

पर्वत अर्थ में त्रिककुन् निपातन किया है । त्रीणि ककुदान्यस्य त्रिककुन् पर्वतः । पर्वत इति किम्—त्रिककुदोऽप्यः ।

२६४—उद्विम्यां काकुदस्य ॥ ५ । ४ । १४८ ॥

एन् और वि से परे बहुव्रीहि में जो ककुद शब्द उसके अन्त का समासान्त लोप हो । उद्विम्यं काकुदस्य उद्विम्यन्, विद्याकुन् । उद्विम्यं काकुदस्येति ।

२६५—एषाद्विभाषा ॥ ५ । ४ । १४० ॥

॥ षष्ठीहि में पूर्ण शब्द से परे जो काकुद उसके अन्त का समासान्त लोप विकल्प करके हो । पूर्णकाकुद, पूर्णकाकुद ।

२६६—सुहृद्दुर्हृदौ मित्रामित्रयोः ॥ ५ । ४ । १५० ॥

सुहृद् और दुर्हृद् निपातन मित्र और अमित्र अर्थों में किये हैं । शोभनं हृदयमस्य सुहृन्मित्रम्, दुष्ट हृदयमस्य दुर्हृदमित्रम् । मित्रामित्रयोरिति किम् । सुहृदयः कारुणिक, दुर्हृदयश्चौरः ।

२६७—उरःप्रभृतिभ्यः कप् ॥ ५ । ४ । १५१ ॥

उरस् आदि शब्द जिसके अन्त में हों उस बहुव्रीहि समास से समासान्त कप् प्रत्यय हो । जैसे—व्यूढमुगऽस्य व्यूढोऽस्क, प्रियसपिष्क, अवमुक्तोपान्तकः ।

२६८—इनः स्त्रियाम् ॥ ५ । ४ । १५२ ॥

इन् प्रत्ययान्त बहुव्रीहि समास से समासान्त कप् प्रत्यय हो । यहवो दरिद्रनोऽस्यां शालाया बहुदरिद्रका शाला, बहुञ्जात्रिका, बहुस्वामिका नगरी, बहुवाग्मिका मभा । स्त्रियामात् किम्—बहुदण्डी ऋ, बहुदरिद्रको वा राजा ।

२६९—नघन्तश्च ॥ ५ । ४ । १५३ ॥

नघन्त और ऋकागन्त बहुव्रीहि समास से कप् प्रत्यय हो । जैसे । यहव्य कुमार्योऽस्या शालाया सा बहुकुमारीका शाला, बहुमहापन्थुका देश । अत—यहव्य कर्तारोऽस्य बहुकर्तृको यज्ञ ।

[२८०—न कपि ॥ ७ । ४ । १४ ॥

१ ऋ यहाँ 'एषाद्विभाषा' इस सूत्र से लोप अविहित समासगत अर्थों विकल्प करके कप् प्रत्यय हो जाता है ।

कप् परे रहने पर अणु को ह्रस्व नहीं होता । जैसे—बहुकुमारीका शाला, बहुब्रह्मवन्धूका देश ।

२७१—शेषाद्विभाषा ॥ ५ । ४ । १५४ ॥

जिस बहुब्रह्मि से सामासन्त काये नहीं कहा उससे विकल्प करके कप् प्रत्यय हो ।

२७२—आपोऽन्यतरस्याम् ॥ ७ । ४ । १५ ॥

कप् परे रहने पर आवन्त का विकल्प करके ह्रस्व हो । जैसे— बहुखट्वाकः, बहुखट्वाकः, बहुखट्वा; बहुमालकः, बहुमालाकः, बहुमाला ।]

२७३—न संज्ञायाम् ॥ ५ । ४ । १५५ ॥

बहुब्रह्मि समास से संज्ञा विषय में समासान्त कप् प्रत्यय न हो । विश्व यशाऽस्य स विश्वयशाः ।

२७४—ईयसश्च ॥ ५ । ४ । १५६ ॥

ईयसन्त बहुब्रह्मि समास से कप् प्रत्यय न हों । बहवः भेषांसोऽस्य बहुभेषान्, बहवः भेषस्योऽस्य बहुभेषसी । ह्रस्वत्वमपि न भवति—ईयसो बहुब्रह्मि ईवदिति वचनात् ।

२७५—वन्दिते भ्रातुः ॥ ५ । ४ । १५७ ॥

प्रशसा अथे में भ्रातृ शब्दान्त बहुब्रह्मि से समासान्त कप् प्रत्यय न हो । शोभनो भ्राताऽस्य सुभ्र ता । वन्दित इति क्विप्-मूखे-भ्रातृकः, दुष्टभ्रातृकः ।

२७६—ऋतश्छन्दसि ॥ ५ । ४ । १५८ ॥

वैदिक प्रयोग विषय में ऋकारान्त बहुब्रह्मि समास से कप् प्रत्यय न हो । परिहृता माताऽस्य स परिहृतमाता, विद्वान्विताऽस्य विद्वान्विता । विदुषी स्वसाऽस्य स विद्वत्स्वसा, सुहोता ।

२७७ नाडीतन्त्र्योः स्वाङ्गे ॥ ५ । ४ । १५९ ॥

स्वाङ्गवाची नाडी और तन्त्री शब्दान्त बहुव्रीहि से समापान्त कप् प्रत्यय न हो। बहुव्रीहि नाड्योऽस्य बहुनाडि. कायः, बहुतन्त्री भावा। स्वाङ्ग इति किम्—बहुनाडीकः स्वम्भः, बहुतन्त्रीका वाणा।

२७८—निष्प्रवाणिश्च ॥ ५ । ४ । १६० ॥

प्रवाणी नाम कोरी की शलाई का है। निर्गता प्रवाणी यस्मात् स निष्प्रवाणिः पट, निष्प्रवाणिः कम्बल, प्रत्यय इत्यर्थः।

२७९—सप्तमीविशेषणे बहुव्रीहौ ॥ २ । २ । १५ ॥

बहुव्रीहि समास में सप्तम्यन्त और विशेषण पद का पूर्वनिपात हो। जैसे—सप्तमी-कण्ठकाल, सरसिलोमा। विशेषण—चित्रगुः। शबलगुः।

२८०—वा०—सर्वनामसंख्ययोरुपसंख्यानम् ॥२॥२॥१५॥

सर्वनाम और संख्यावाची शब्दों का पूर्वनिपात हा। सर्वश्वेत, सर्वकृष्णः, द्विशुक्लः, द्विकृष्णः, विभदेव, विश्रयशा, द्विपुत्रः, द्विभार्य। अथ यत्र संख्यासर्वनामयोरैव बहुव्रीहिः कस्य तत्र पूर्वनिपातन भवितव्यम्? परत्वात् संख्यायाः। द्वयन्य त्रयन्य।

२८१—वा०—वा प्रियस्य पूर्वनिपातो भवतीति वक्तव्यम् ॥

२ । २ । १५ ॥

प्रिय शब्द का विकल्प करके पूर्व निपात हो। प्रियधर्मः, धर्मप्रियः।

२८२—वा०—सप्तम्याः पूर्वनिपाते गङ्वादिभ्यः परवचनम् ॥ २ । २ । १५ ॥

बहुव्रीहि समास में सप्तम्यन्त शब्दों का पूर्वनिपात "सप्तमी

वि०" (सा० २७९) इस सूत्र से कर चुके हैं, सो गडुआदि शब्दों में न हो अर्थात् परनिपात हा । जैसे—गडुकण्ठ, गडुशिराः ।

२८३—निष्ठा ॥ २ । २ । ३६ ॥

निष्ठान्त शब्द का प्रयोग बहुब्रीहि समास में पूर्व हो । अधीता निया येन अधीतविद्य, प्रबालितहस्तपाद, कृत्कट, कृतधर्म, कृतार्थ, संशितघ्नतः ।

२८४—वा०—निष्ठायाः पूर्वनिपाते जातिकालसुखादिभ्यः परवचनम् ॥ २ । २ । ३६ ॥

जहा निष्ठान्त शब्दों का पूर्वनिपात किया है वहां जातिवाची, कालवाची और सुखादि शब्दों से पूर्वनिपात न हो अर्थात् परप्रयोग किया जावे । जैसे—शार्ङ्गजग्धा, पलायडुभक्षिती, मासजातः, संवत्सरजातः, सुखजातः, दुःखजात ।

२८५—वा०—प्रहरणार्थेभ्यश्च परे निष्ठासप्तम्यौ भवत इति वक्तव्यम् ॥ २ । २ । ३६ ॥

शस्त्रवाची शब्दों से परे निष्ठान्त और सप्तम्यन्त शब्द होने चाहिये, असिदृष्टो येन अस्युद्यत, सुप्तलो गतः, दण्डपाणिः ।

२८६—वाहितान्यादिषु ॥ २ । २ । ३७ ॥

बहुब्रीहि समास में आहितामि इत्यादि शब्दों में निष्ठान्त कर् पूर्व निपात विकल्प करके हो । अग्निराहतो येन आग्न्याहितः, आहितामि ; जातपुत्रः, पुत्रजातः ; जन्तदन्तः, दन्तजातः इत्यादि ।

अथ इसके आगे द्वन्द्वसमास का प्रकरण है

२८७—चार्थे द्वन्द्वः ॥ २ । २ । ३९ ॥

जो चकार के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबन्त, वे परस्पर समास को पावे सो द्वन्द्वसंज्ञक समास हो । उभयपदार्थप्रधानो द्वन्द्वः । द्वन्द्व समास में पूर्व पर सब शब्दों के अर्थ प्रधान रहते हैं । चकार के चार अर्थ हैं—समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर और समाहार । सो समुच्चय और अन्वाचय इन अर्थों में असमर्थ होने से समास में नहीं होता और इतरेतर तथा समाहार अर्थों में द्वन्द्व समास होता है । प्लक्षश्च न्यमोवश्च तौ प्लक्षन्यम्राधौ, धवश्च खदिरश्च पलाशश्च ते धवखदिरपलाशाः ।

२८८—द्वन्द्वाच्चुदपहान्तात्समाहारे ॥ ५ । ४ । ७ ॥

जो द्वन्द्व समाहार अर्थ में वर्तमान हो तो चवर्गान्त, दकारान्त, [पकारान्त] और हकारान्त द्वन्द्व समास से समासान्त टच् अत्यय हो । जैसे वाक् च त्वक् च अनयोः समाहार वाक्त्वचम्, स्रक् च त्वक् च स्रक्त्वचम्, श्रीश्च स्रक् च श्रीस्रजम्, इद्वजेन्, वागूर्जम्; समिधश्च दृपदश्च समिद्दृपदम्, संपद्विपदन्, वाग्-विप्रुपम्, छत्रांपानहम्, धेनुगोदुहम् । द्वन्द्वादिति किम्—तपुदपान्-मा भूत्—पञ्चवाचः समाहृताः पञ्चवाक् । चुदपहान्तादिति किम्—वाक्समित् ।

२७९—उपसर्जनं पूर्वम् ॥ २ । २ । ३०—॥

सब समासों में उपसर्जन संज्ञक का पूर्व प्रयोग करना चाहिये । कर्षं भित कष्टभित, शङ्कुलाखण्डः इत्यादि ।

२६०—राजदन्तादिषु परम् ॥ २ । २ । ३१ ॥

सब समासों में राजदन्त आदि शब्दों का परे प्रयोग होना है । -दन्तानां राजा राजदन्त, अमेणवम्, लिप्तवासितम् ।

२६१—द्वन्द्वे षि ॥ २ । २ । ३२ ॥

द्वन्द्व समास में विसङ्गक शब्द का पूर्वनिपात होता है। पदुश्च गुप्तश्च पदुगुप्तौ ।

२९२-वा०—अनेकप्राप्तावेकस्य नियमः शेषेध्वनियमः ॥

२ । २ । ३२ ॥

जहाँ अनेक विसङ्गकों का पूर्वनिपात प्राप्त हो वहाँ एक विसङ्गक पूर्व प्रयोक्तव्य है और जो शेष रहे उनमें कुछ नियम नहीं है। पदुश्चपदुश्चकना, पदुश्चकलमृदव ।

२९३-वा०—अतुनक्षत्राणामानुपूर्व्येण समानाक्षराणां पूर्वनिपातो वक्तव्यः ॥ २ । २ । ३२ ॥

अतु और नक्षत्र जिस क्रम से पढ़े लिये और समझे जाते हैं वही उसी क्रम से पूर्व निपात होना चाहिये। जैसे—शिशिरवसन्ताबुदगयनस्थौ, कृत्तिकारोहिण्य, चित्रास्वाती ।

२९४-वा०—अभ्यर्हितं पूर्वं निपततीति वक्तव्यम् ॥

२ । २ । ३२ ॥

द्वन्द्व समास में पूजित (मान्य) का पूर्व निपात होता है। माता च पिता मातापितरौ, भद्रा च मेधा च भद्रामेधे, दीक्षा च तपश्च दीक्षातपसौ ।

२९५-वा०—लघ्वक्षरं पूर्वं निपततीति वक्तव्यम् ॥

२ । २ । ३२ ॥

जिस पद में थोड़ी मात्रा हो उस पद का द्वन्द्वसमास में पूर्व निपात होता है। कुशाश्च काशाश्च कुशाकाशम्, शरचापम्, शरशादेम् ।

२९६-वा०—अपर आह सर्वत एवाभ्यर्हितं पूर्वं

निपततीति वक्तव्यम् लघ्वक्षरादपीति ॥ २ । २ । ३२ ॥

किन्हीं आचार्यों का ऐसा मत है कि सब विधियों का अपवाद होके अभ्यर्हित का ही पूर्वनिपात होना चाहिये। जैसे—रीक्षातपसी, अद्धातपसी।

२९७-वा०-वर्णानामानुपूर्व्येण पूर्वनिपातो भवतीति चक्तव्यम् ॥ २ । २ । ३२ ॥

ब्राह्मण आदि वर्णों का यथाक्रम पूर्वनिपात जानना चाहिये।
ब्राह्मणत्रयिविट्शूद्राः।

२९८-वा०-भ्रातुश्च ज्यायसः पूर्वनिपातो भवतीति चक्तव्यम् ॥ २ । २ । ३२ ॥

द्वन्द्व समास में षडे भाई का पूर्वनिपात होता है। युधिष्ठिरार्जुनौ, रामलक्ष्मणौ।

२९९-वा०-संख्याया अल्पीयस्याः पूर्वनिपातो भवतीति चक्तव्यम् ॥ २ । २ । ३२ ॥

द्वन्द्वसमास में अल्पसंख्यावाची शब्दों का पूर्वनिपात होता है। एकादश, द्वादश, त्रिंशः, त्रिचतुराः, तत्रतिशतम्।

३००-वा०-धर्मादिपूमयं पूर्वं निपाततीति चक्तव्यम् ॥ २ । २ । ३२ ॥

धर्म आदि शब्दों में दोनों पदों का पूर्वनिपात होता है। धर्मार्थो, अर्थधर्मो, कामार्थो, अर्कामो, गुणवृद्धो, वृद्धिगुणो, आद्यन्तो, अन्तार्थो।

३०१-अजायदन्तम् ॥ २ । २ । ३४ ॥

जिसके आदि में अच् और अकार अन्त में हो उस पद का पूरे निपात होता है। वृत्रघ्नो, ईशकेशयो, इन्द्ररामो।

३०२-वा०-द्वन्द्वे ध्यजाद्यन्तं विप्रतिषेधेन ॥ २।२।३४॥

जहा अजादि अदन्त और विसंज्ञक का द्वन्द्व समास हो वहां विप्रतिषेध से] अज दि अदन्त का पूर्वनिपात होता है । जैसे—
द्रामो, इन्द्रवायू । तदकरणं क्रिम्—अश्वाशृपो, घृपाश्रे ।

३०३-द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् ॥ २।४।२॥

प्राणि तूर्य ऋ और सेना के अङ्गों का जो द्वन्द्व समास हो एक-
वचन हो । प्राणशङ्ग-पाणी च पादौ च प णिपादम्, शिगोम्रोवम् ।
तूर्यङ्ग—मादेङ्गिकपाणिकम्, वीणावादकपरिवादकम् । सेनाङ्ग—
विक्रमाशरोहम्, रथिकुपादातम् ।

३०४-अनुवादे चरणानाम् ॥ २।४।३॥

-अनुवाद † अर्थ में चरणवाची सुबन्तों का जो द्वन्द्व समास
हो एक वचन होता है । स्थणोऽद्यन्त्या चेति वक्तव्यम् । जहां
स्था और इण् धातु का लङ् लकार का प्रयोग हो वहां चरण वाची
सुबन्तों का द्वन्द्व एक वचन होता है । उद्गतात् कठकालापम्,
प्रत्यष्ठात् कठकौथुमम् । अनुवाद इति क्रिम्—उद्गुः कठकालापा,
प्रत्यष्ठुः कठकौथुमा । स्थणोरिति क्रिम्—अनन्दिपुः कठकालापाः ।
अद्यतन्यामिति क्रिम्—उद्यन्ति कठकालापाः । इस सूत्र में चरण
शब्द से इन लोगों का ग्रहण है कि जो वेद की शाखाओं के निमित्त

ऋ ङाक भादि वागो का यह नाम है ।

† अनुवाद उसे कहते हैं जो पूर्व कहे प्रसंग को किसी प्रयोजन के
लिये फिर कहना है ।

३. यहाँ पर कठ कलापों के उदाहरण का अनुवाद होगा यहाँ उदाहरण
होगा, और जहाँ उदाहरण की प्रथमतः प्रतीति होगी वहाँ पर प्राणुदाहरण
होगा । पु० मी० ।

अर्थात् जिनके नाम से इस समय भी शाखा प्रसिद्ध हैं। जैसे—
कठ, मुण्डक, चरक इत्यादि।

३०५—अध्वयुः क्रतुरनपुंसकम् ॥ २ । २ । ४ ॥

जो क्रतु वाची शब्द नपुंसक न हो तो अध्वर्यु नाम यजुर्वेद में विधान किये क्रतु नाम यज्ञवाची सुबन्तो का द्वन्द्व समास एकवचन हो। जैसे—अकाशमेधम्। सायान्हातिरात्रम्। अध्वर्युः क्रतुरिति किम्—इपुत्रौ, उद्भिद्बन्निभिदौ। अनपुंसकमात् किम्—राजसूयवाजपेये। इह कर्मत्र भवति—दशपोषेमासौ ? क्रतुशब्दः सोमयज्ञेषु रुदः।

३०६—अध्ययनतोऽविप्रकृष्टाख्यानाम् ॥ २ । ४ । ५ ॥

जिन ग्रन्थों का पठनपाठन अतिसमीप होता हो उन सुबन्तों का द्वन्द्व समास एकवचन हो। पदकक्रमकम्, क्रमकत्रातिकम्, अप्राध्यायीमहाभाष्यम्। अध्ययनत इति किम्—पितापुत्रौ। अविप्रकृष्टाख्यानामिति किम्—याज्ञिकवैयाकरणौ।

३०७—जातिप्राणिनाम् ॥ २ । ४ । ६ ॥

प्राणिवर्जित जातिवाची सुबन्तों का द्वन्द्व समास एकवचन हो। आराशस्त्रि, घानाशण्डुलि, शय्यासनम्। जातिरिति किम्—नन्दकपाश्वजन्यौ। अप्राणिनामिति किम्—ब्रह्मत्रियविट्शूद्राः।

—३०८—विशिष्टलिङ्गो नदीदेशोऽग्रामाः ॥ २ । ४ । ७ ॥

भिन्न लिङ्ग नदी और भिन्न लिङ्ग देशवाची सुबन्तों का द्वन्द्व समास एकवचन हो ग्राम को छोड़ के। नदी—उद्वगश्च इरावती च उद्वघेरावति, गङ्गा च शोणश्च गङ्गाशोणम्। देश—कुरुवश्च मुदक्षेत्रं

१. इ, वस, उदाभद् भीर वन्निभिद् वशों का विधान सामवेद के शाब्दिक प्राकरण में किया है। पु० मी०।

च कुरुकुरुत्तोरम्, कुरुकुरुजाङ्गलम् । विशिष्टलिङ्ग इति किम्—गङ्गा-
चमुने, मद्रकेकयाः ।

३०६-वा०—श्राम इत्यत्र नगराणां प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥

श्रामो के द्वन्द्व के एकवचन के निषेध में नगरों का प्रतिषेध
करना चाहिये अर्थात् श्राम के प्रतिषेध से नगरों का प्रतिषेध न हो,
बल्कि एकवचन हो जावे । जैसे—मथुरापाटलिपुत्रम् ।

३१०-वा०—उभयतश्च श्रामाणां प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥

उभयतः अर्थात् श्राम और नगरों का अवयव जो द्वन्द्वसमास
हसका एकवचन न हो । सौम्यं नाम नगरम्, केतवता नाम श्रामः—
सौर्यं च केतवता च सौर्यकेतवते । जाम्बयं नगरं, शालूकिनी
श्रामः—जाम्बयशालूकिन्यौ ।

निरवसित कहते हैं। अनिरवसित शूद्रों का द्वन्द्व समास एकवचन हो। तत्रायस्कारम्, रजकतन्तुवायम्। अनिरवसितानामिति किम्—
[चयडालमृतपाः।

३१४—गवाश्वप्रभृतीनि च ॥ २। ४। ११ ॥

यहाँ "गवाश्वम्" इत्यादि शब्द द्वन्द्व समास में एकवचनान्त निपातन किये हैं। गवाश्वम्, गवाविकम्, गवैडकम्, अजाविकम्, अजैडकम्। गत्रार्श्वप्रभृतिषु यथाचारित द्वन्द्ववृत्तं द्रष्टव्यम्। 'रूपान्तरे तु नायं विधिभेवतीति * गाश्वश्वौ, [गाश्वश्वम्]। पशुद्वन्द्वविभाषैक भवति'।

३१५—विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जनपशुशकुन्य-
श्ववडवपूर्वापराधरोत्तराणाम् ॥ २। ४। १२ ॥

वृक्ष, मृग, तृण, धान्य, व्यञ्जन, पशु, शकुनि, अश्ववडव, पूर्वापर, अधरात्तर इन सुबन्तों का द्वन्द्व समास परस्पर विकल्प करके एकवचन हो। वृक्ष—वृक्षन्यमाधम्; वृक्षन्यमाधा। मृग—रुष्टपतम्, रुष्टपता। तृण—कुशकाशम्, कुशकाशा। धान्य—ग्रीहियवम्, ग्रीहियवा। व्यञ्जनम्—दधिघृतम्, दधिघृते। पशु—गोमहिषम्, गोमहिषाः। शकुनि—तित्तिरिक्पिञ्जलम्, तित्तिरिक्पिञ्जला, हंसचक्रवाकम्, हंसचक्रवाका; अश्ववडवम्, अश्ववडवौ; पूर्वापरम्, पूर्वापरे; अधरात्तमम्, अधरात्तरे।

३१६—या—उहुप्रकृतिः फलसेनावनस्पतिमृगशकुनिक्षुद्र-
जन्तुधान्यतृणानाम् ॥

ॐ रूपान्तर भर्षात् त्रित पदा में अश्व भादेश नहीं होता वही वा एकवचन विधि नहीं होता।

१. उत्तरस्येति धेवः। पु० मी०

एषां बहुपङ्क्तिरेव द्वन्द्व एकवद्भवति * न द्विपङ्क्तिः । यदरा-
ल्लके, रथिकाश्वारोहौ, पृथगन्यग्रांधौ, रुद्रपतौ, हंसचक्रवाकौ,
[कालिचे, मोहियवौ, कुशकाशी ।

३१७—विप्रतिपिद्धं चानधिकरणवाचि ॥ २। ४। १३ ॥

जो भिन्न द्रव्यवाची और परस्पर विरुद्धार्थ सुबन्तों का द्वन्द्व,
हि एकवचन विकल्प करके हो । शीतोष्णे; सुखदुःखम्, सुखदुःखे;
जीवितमरणम्, जीवितमरणे । विप्रतिपिद्धमिति किम्—कामक्रांधौ ।
अधिकरणवाचिनामिति किम्—शीतोष्णे उदके ।

३१८—न दधिपयश्चादीनि ॥ २। ४। १४ ॥

दधिपय आदि शब्दों [का] द्वन्द्व एक वचन न हो । दधि च
पयश्च ते दधिपयसी, सर्पिमधुनी, मधुमर्षिणी, मक्षप्रजापती, शिव-
वैश्रवणौ इत्यादि ।

३१९—अधिकरणौतावत्त्वे च ॥ २। ४। १५ ॥

अधिकरणवाची द्वन्द्व समास के एतावत्त्वनाम परिमाण अर्थ
में एकवचन हो । चतुर्विंशदन्तोष्ठाः, दश मार्दङ्गिकपाणविकाः ।

३२०—विमापा समीपे ॥ २। ४। १६ ॥

अधिकरण के एतावत्त्व के समीप अर्थ में एकवचन विकल्प
करके हो । उपदशं दन्तोष्णम्, उपदशा दन्तोष्ठाः; उपदशं मार्दङ्गिक-
पाणविकम्, उपदशा मार्दङ्गिकपाणविकाः ।

३२१—स नपुंसकम् ॥ २। ४। १७ ॥

जिस द्विगु और द्वन्द्व को एकवद्भाव [का] विधान किया है सो

उदा. छः बहुपङ्क्ति अर्थात् अहाँ बहुवचनगत शरों का द्वन्द्व हो वहीं एक
वचन हो । "बहवामशब्दे" वही द्विपङ्क्ति के होने से एक वचनवद्वत्त्वा ।

नपुंसक लिङ्ग होता है, दिगु—पञ्चगवम्, दशगवम् । द्वन्द्व-
पाणिपादम्, शिरोम्रीवम् इत्यादि ।।

परपद का निङ्ग प्राप्त हुआ था उसका अपवाद यह सूत्र है ।

३२२—अव्ययीभावश्च ॥ २ । ४ । १८ ॥ ८

अव्ययीभाव समास नपुंसक लिङ्ग हो ।

३२३—वा०—पुण्यसुदिनाभ्यामहः क्लीबतेष्यते ॥

२ । ४ । ३० ॥

जैसे—पुण्य च तदहश्च पुण्याहम्, सुदिनाहम् ।

३२४—वा०—पथ संख्याव्ययादे क्लीबतेष्यते ॥

२ । ४ । ३० ॥

संख्या और अव्यय जिसके आदि में हो ऐसे पथिन् शब्द को
नपुंसकलिङ्ग हो । त्रिपथम्, चतुष्पथम्, त्रिपथम्, सुपथम् ।

३२५—वा०—क्रियाविशेषणानां च क्लीबता वक्तव्या ॥

मृदु पचति, शोभन पचति ।

शेष एक प्रकरणम्

३२६—' सरूपाणामेकशेष एकविमत्तौ ॥१॥२॥६४॥

३. सिद्धांतकीमुदी आदि अनापं ऋमविपरीत ग्रन्थ पढ़ने वाले
भाषुनिष्ठ विवाकरण एकशेष को द्वन्द्व समास का एक भेद समझते हैं ।
परन्तु यह ठनको बड़ी भूल है । एकशेष प्रकरण भटाप्यायी के प्रथमा
रूपाय के द्वितीय पाद के अन्त में पदाई और समास प्रकरण भटाप्यायी
के द्वितीयाप्याय के प्रथम और द्वितीय पाद में । द्वन्द्व समास तो द्वितीय
पाद के अन्त में है । तब मला एकशेष द्वन्द्व का भेद कैसे हो सकता है ।

जो तुल्य रूप शब्द हों उनका एक विभक्ति परे हो तो एक शेष या अन्य रूपों की निवृत्ति हो। वृत्तश्च वृत्तश्च वृत्तौ, वृत्तश्च वृत्तश्च वृत्तश्च वृत्ता, इत्यादि बहुत उदाहरण होते हैं। सरूपाणामिति किम्—वृत्तन्यप्रोधाः। रूपग्रहणे किम्—भिन्नेष्वर्थे यथा स्यात्। वृत्ता, पादाः, मापा इति। एकग्रहणे किम्—द्विबह्वोः शेषो माभूत्। कविभक्ताविति किम्—पयः पयो जग्मति, वासो वासश्छादयति, प्राणाभ्यां च कृतं प्राङ्गणाभ्या च देहीति।

३२७-वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः ॥१॥२॥६५॥

जो तल्लक्षण अर्थात् वृद्धप्रत्ययान्त और युवप्रत्ययान्त ही का शेष नाम विरूपता हो और मूत्र प्रकृति समान होंवे तो वृद्ध नाम में प्रत्ययान्त शब्द और युव प्रत्ययान्त शब्द का जब एक सङ्ग उच्चारण करें तब वृद्ध शेष रहे और युवा की निवृत्ति हो। उदाहरण—गर्ग्येश्च गार्ग्यायणश्च तौ गार्ग्यौ। वात्स्यश्च वात्स्यायनश्च वात्स्यौ। इति किम्—गर्ग्येश्च गार्ग्यायणश्च गर्ग्यगार्ग्यायणौ। यूनेति किम्—गर्ग्येश्च गगश्च गार्ग्यगर्गौ। तल्लक्षण इति किम्। गार्ग्येवात्स्यायनौ। प्रकारः किमर्थ—भागवित्तिश्च भागवित्तिकश्च भागवित्तिभागवित्तिकौ। कृत्सा और सौवीर ये दो अर्थे भागवित्तिक शब्द में युव प्रत्ययान्त से भी अलग हैं।

३२८-स्त्री पुं वच ॥ १ । २ । ६६ ॥

जब वृद्धा स्त्री और युवा का एक सङ्ग उच्चारण करें तब वृद्धा जो शेष रहे युवा की निवृत्ति हो। पुं वत् अथान् स्त्रा को पुल्लिङ्ग के लक्षण कार्य हो जो तल्लक्षण ही विशेष होवे। तां। गर्गी च गार्ग्या-

इति का प्रधान कारण मटोबिरीक्षित द्वारा अष्टाध्यायी के अन्त में जोरकर एक शेष को द्वन्द्व प्रकार में रखा देना है। पु० मी०।

यणश्च गार्ग्यो, वात्सी च वात्स्यायनश्च वात्स्यौ, दाक्षी च दाक्षा-
यणश्च दाक्षी ।

३२९-पुमान् स्त्रिया ॥ १ । २ । ६७ ॥

जो तल्लक्षण विशेष होवे तो स्त्री के साथ पुरुष शेष रहे स्त्री निवृत्त हों । जैसे—ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च ब्राह्मणी, कुक्कुटी च कुक्कुटश्च कुक्कुटी । यहां तल्लक्षण विशेष इसलिए है कि "कुक्कुटश्च मयूरी च कुक्कुटमयूरी" यहां एरुशेष न होवे । एवकार इसलिये है कि "इन्द्रश्च इन्द्राणीचेन्द्रेन्द्राण्यौ" यहां इन्द्राणी शब्द में पुंयोग की आख्या स्त्रत्व से पृथक् होने के कारण एरुशेष न हो ।

३३०-भ्रातृपुत्री स्वसृदुहितृभ्याम् ॥ १ । २ । ६८ ॥

भ्रातृ और पुत्र शब्द, यथाक्रम स्वसृ और दुहितृ के साथ शेष रहें । भ्राता च स्वसा च भ्रातरी, पुत्रश्च दुहिता च पुत्री ।

३३१-नपुंसकमनपुंसकेनैकवचास्यान्यतरस्याम् ॥
१ । २ । ६९ ॥

नपुंसकलिङ्गवाची शब्द नपुंसकभिन्नवाची शब्द के साथ एरु-
शेष पावे और नपुंसक को एक वचन भी विकल्प करके हो ।
शुक्रश्च कम्यलः शुक्रा च बृहतिका शुक्रं च घनं तदिदं शुक्रम्,
तानीमानि शुक्रानि । अनपुंसक के साथ इसलिये कहा है कि "शुक्रं
च शुक्रं च शुक्रं च शुक्रानि" यहां एकवचन न हो ।

३३२-पिता मात्रा ॥ १ । २ । ७० ॥

मातृ शब्द के साथ पितृशब्द विकल्प करके शेष रहे । माता च
पिता च पितरी, मातापितृविति वा ।

३३३-श्वशुरः श्वश्र्वा ॥ १ । २ । ७१ ॥

श्वशुर शब्द श्वश्र्वा शब्द के साथ विकल्प करके शेष रहे । श्वश्र्वा
च श्वशुरश्च श्वशुरी, श्वश्र्वाश्वशुराविति वा ।

३३४-त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम् ॥ १ । २ । ७१ ॥

यहाँ नित्य ग्रहण पूर्व विकल्प की निवृत्ति के लिये है त्यद् आदि शब्द सय शब्दों के साथ शेष रहें । स च देवदत्तश्च तौ, यश्च देव-दत्तश्च यौ ।

३३५-वा०-त्यदादीनां मिथो यद्यत् परं तच्छिष्यते ॥ १ । २ । ७२ ॥

त्यदादि शब्दों के एकशेष में जो शब्द परे होता है वह शेष रहता है । सच यश्च यौ, यश्च कश्च कौ ।

३३६-ग्राम्यपशुसंघेष्वतरुणेषु स्त्री ॥ १ । २ । ७३ ॥

ग्राम में रहने वाले पशुओं के समुदाय में स्त्रीवाची शब्द पुरुष-वाची शब्द के साथ शेष रहें । 'पुमान् स्त्रिया' (सा० ३२९) इस सूत्र से पुरुषवाची शब्द का शेष पाया था उसका अपवाद यह सूत्र है । महिषाश्च महिष्यश्च महिष्य इमाश्चरन्ति, गाव इमाश्चरन्ति, अजा इमाश्चरन्ति । ग्राम्यप्रदृशं किम्—हरव इमे, पूषता इमे । पश्विति किम्—श्रावणा, स प्रेयाः । सघेऽविति किम्—एतौ गावौ चरतः । अतदघेऽविति किम्—घरसा इमे, बर्केरा इमे ।

३३७-वा०-अनेकशफोष्विति वक्तव्यम् ॥ १ । २ । ७३ ॥

अनेक शफ अर्थात् जिन पशुओं के सूर दो २ हों कि जैसे—गाय भैंस आदि वर्गों में यह शिथि हों और यहाँ न होवे कि "अथा इमे, गर्हमा इमे" पौड़े और गधे के सूर जुड़े होते हैं ।

इसके आगे सामान्य सूत्रों को लिखते हैं जिनमें समास विशेष का नियम नहीं है ।

३३८-प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् ॥ १ । २ । ७३ ॥

समास शिष्यायक सूत्रों में प्रथमा शिष्यि से जिस शब्द का

सञ्चारण किया हो वह उपसर्जन सङ्गक ही। द्वितीया समास में द्वितीया प्रथमानिदिष्ट और तृतीया समास में तृतीया प्रथमानिदिष्ट है। ऐसे ही और भी जानो। कष्टश्रितः, शङ्कुलाया खण्डः।

३३६—उपसर्जनं पूर्वम् ॥ २ । २ । ३० ॥

इस सत्र से उपसर्जन सङ्गक का पूर्व निपात होता है। तथा अन्य भी उपसर्जन संज्ञा के बहुत कार्य हैं सो अपने अपने प्रकरण में समझने चाहिये। यहां समास में उनके लिखने की आवश्यकता नहीं।

३४०—एकविभक्ति चापूर्वनिपाते ॥ १ । २ । ४४ ॥

जिस पद की समास में एक ही विभक्ति नियत हो वह उपसर्जन सङ्गक हो। अपूर्वनिपाते—पूर्वनिपाताख्य जो उपसर्जन कार्य है उसको छोड़ के। निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या (सा० १९२) यहां जैसे पञ्चम्यन्त ही पद का नियम है इसलिये उत्तर पद की उपसर्जन संज्ञा होती है। निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः निष्कौशाम्बिः। यहां उपसर्जन संज्ञा का प्रयोजन यह है कि स्त्रीप्रत्यय का ह्रस्व हो जाता है। एकविभक्तिं किम्—राजकुमारां ऋ। अपूर्वनिपात इति किम्—निष्कौशाम्बिः। यहां [पूर्वनिपात करने के लिये] कौशाम्बी की उपसर्जन संज्ञा नहीं होती।

३४१—गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य ॥ १ । २ । ४८ ॥

ग, इति स्वरूपमहणं, स्त्रीति प्रत्ययमहणं स्वरितरेवात्। इसका

ऋ १६, एक विभक्ति का नियम इसलिये नहीं है कि कुमारी शब्द से सर्व विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे—राजः कुमारी, राजः कुमारीम्, राजः कुमारां, राजः कुमारे इत्यादि। इस प्रकार कौशाम्बी शब्द में सब विभक्तियां नहीं होतीं।

अर्थ यह है कि जो चतुर्थ अध्याय में 'ल्लियाम्' (छौ० १) इस अधिकार सूत्र करके प्रत्यय कहे हैं उनका यहां ग्रहण है। ल्लि-शब्दान्त प्रातिपदिक को और उपसर्जन ल्लिप्रत्यायान्त प्रातिपदिक को हुस्व हो। चित्रगुः, शबलगुः, निष्कौशाम्बिः, निर्वाणसिः, अतिखटवः, अतिमालः । उपसर्जनस्येति किम्—राजकुमारी । स्वरितत्वात् किम्—अतितन्त्रीः, अतिलक्ष्मीः, अतिश्रीः ।

३४२—कडाराः कर्मधारये ॥ २ । ३ । ३८ ॥

कर्मधारय समास में कडार शब्द का पूर्वनिपात विकल्प करके हो। जैसे—कडारजैमिनि, जैमिनिकडारः इत्यादि ।

जो 'प्राक्कडारात्समासः' (सा० ५) इस सूत्र में समास का अधिकार किया था वह पूरा हो गया। अब इसके आगे सम स में किस पद के लिङ्ग का प्रयोग होना चाहिये, इसका आरम्भ हुआ है।

३४३—परवल्लिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः ॥ २ । ४ । २६ ॥

द्वन्द्व और तत्पुरुष समास में परपद का लिङ्ग हो। द्वन्द्व—कुक्कुटमयूयोविमे, मयूरीकुक्कुटाविमौ । तत्पुरुष—अर्धे, पिप्पल्या, अर्धेपिप्पला, अर्धेकोशात्की ।

३४४—द्विगुप्रासाप्त्नालंपूर्वगतिसमासेषु प्रतिषेधो

वक्तव्यः ॥ २ । ४ । २६ ॥

द्विगु, प्राप्त, आपन्न, अलंपूर्वक तथा गतिसंज्ञक इन समासों में पर पद का लिङ्ग न हो। पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पुगोदाशः पञ्चकपालः, प्राप्तो जीविकां प्राप्तजीविकः, आपन्नो जीविकां आपन्नजीविकः; अलंपूर्वकः—अलजीविकायै, अलंजीविकः । गतिसमास—निष्कान्तः शौशम्ब्या निःशौशाम्बिः, निर्वाणसिः ।

३४५—अचतुरविचतुरसुचतुरस्रीपुंसधेन्वनहुर्हर्म्माम

वाङ्मनसाक्षिभ्रुवदारगवोर्वष्ठीवपदष्ठीवनक्तंदिवरात्रिदिवाहर्दिव-
सरजसनिश्रेयसपुन्यायुपद्द्यायुष्यायुपर्यञ्जुषजातोक्षमहोक्षवृद्धो-
क्षोपशुनगोष्ठश्वा ॥ ५ । ४ । ७७ ॥

ये १५ बहुव्राहि आदि समासों में अच् प्रत्ययान्त निपातन किये हैं सो आदि में तीन बहुव्राहि हैं । अत्रिचनान नि चत्वारि सेनाङ्गानि यस्य स अचतुर, विगतानि चत्वारि यस्य स विचतुर, शोभनानि [चत्वारि] यस्य स सुचतुर । इससे आगे ११ ग्यारह द्वन्द्व समास में निपातन किये हैं । औपुसौ, धे-वनडुहौ, ऋरूमामे, वाङ्मनसे, अक्षिभ्रुवम्, दागश्च गावश्च द्दारगवम्, ऊरु च अष्ठीवन्तौ च ऊरेष्ठीवम्, टिलापो निपात्यते । पादौ चाष्ठीवन्तौ च पदष्ठीवम्, नक्त च दिवा च नक्तन्दिवम्, रात्रौ च दिवा च रात्रिन्दिवम्, मान्तत्व निपात्यते । अहनि च दिवा च अहर्दिवम्, वीप्साया द्वन्द्वो निपात्यते, अहन्यहनीत्यर्थ । एक अव्ययीभाव साकल्य अर्थ में है । सरजसमभ्यवहरति । इससे परे तत्पुरुष जानो । निश्चित श्रेयो निश्श्रेयसम् । यहा से परे षष्ठी समास है । पुरुषस्य आयुः पुरुषायुषम् । इससे परे द्विगु है । द्वे आयुषी समाहृते द्वयायुषम्, त्र्ययुषम् । इससे परे द्वन्द्व । ऋक् च यजुश्च ऋग्यजुषम् । आगे चक्षुशब्दान्त तीन कभधारय समास हैं । जातश्चासावुहा च जाताक्ष, महोक्ष, वृद्धाक्ष । इससे परे एक अव्ययीभाव समास है । शुन समीप षपशुनम् । इससे परे सप्तमी तत्पुरुष समास है । गोष्ठे श्वा गोष्ठश्च । जिस जिस समास में जो जो निपातन किये हैं वे वही वही समास में निपातन जानने चाहिये ।

३४६-वा०-चतुरोऽचूप्रकरणे व्युपाभ्यामुपसख्यानम् ॥

त्रि और उपशब्द से परे जो चतुर शब्द उससे समासान्त अच् प्रत्यय हो। जैसे—त्रिचतुराः, उपचतुराः।

३४७—द्वितीये चाऽनुपाख्ये ॥ ६ । ३ । ८० ॥

जो प्रत्यक्ष जाना जाय सो उपाख्य और जो इससे भिन्न है सो कहिये अनुपाख्य अथवा अनुमेय है। जहा द्वितीय अनुपाख्य हो वहां सह शब्द को स आदेश हो। सद्युद्धिः, साम्निः कपोतः, सपिशाचा वात्या, सराक्ष्मीका शाला। यहां अग्नि आदि साक्षात् नहीं होते, किन्तु अनुमानगम्य हैं।

३४८—ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररूपस्थानवर्ण-
वयोवचनबन्धुषु ॥ ६ । ३ । ८५ ॥

ज्योतिष्, जनपद, रात्रि, नाभि, नाम, गोत्र, रूप, स्थान, वर्ण, वयस्, वचन और बन्धु ये उत्तरपद परे हों तो समान को स आदेश हो। समानं च तज्ज्योतिश्च सज्योतिः, समानं व्योतिर्यस्मिन् स सव्योतिव्येवहागः, सजनपदः, सरात्रिः, सनाभिः, सनामा, सगोत्रः, सरूपः, सस्थान, सवयोः, सवयाः, सवचनः, सबन्धुः।

३४९—चरणे मङ्गचारिणि ॥ ६ । ३ । ८६ ॥

आचारण अथे में मङ्गचारी उत्तरपद परे हो तो समान शब्द को स आदेश हो। समानां मङ्गचारा समङ्गचारी। जा वेद पढ़ने के लिए एक आचार्य के समीर घृत को धारण करता है वह समङ्गचारी कहाता है।

३५०—इदंकिमोरोशुकी ॥ ६ । ३ । ९० ॥

जो इक् दत् और वतु परे हों तो इदम् और किम् शब्द को ईश् और की आदेश हों। ईदक्, ईदत्, इयान्, कीदक्, कीदत्, कियान्।

अथे उत्तरपद परे हो तो अन्यः शब्द को क्तु का आगम विकल्प करके हो । अन्योऽथेः अन्यदर्थः । पत्ते—अन्यार्थः ।

३६२-कोः क्तु तत्पुरुषेऽर्चि ॥ ६ । ३ । १०१ ॥

जो अजादि उत्तरपद परे और तत्पुरुष समास हो तो कु शब्द के स्थान में क्तु आदेश हो । कदजः, कदम्बः, कदुष्टः, कदन्नम् इत्यादि । तत्पुरुष इति किम्—कूपो राजा । अर्थात् किम्—कुब्राह्मण, कुपुरुषः ।

३६३-वा०—कद्भावे श्रावुपसंख्यांनम् ॥ ६ । ३ । १०१ ॥

जो कु शब्द का क्तु आदेश कहा है सो त्रि शब्द के परे भी होवे । कुन्निष्ठतास्त्रयः कत्रयः ।

३६४-रथवदयोश्च ॥ ६ । ३ । १०२ ॥

रथ और वद उत्तरपद परे हों तो कु शब्द को क्तु आदेश हो । कत्रयः, कद्वदः ।

३६४-तृणो च जातौ ॥ ६ । ३ । १०३ ॥

जाति अर्थ में तृण उत्तरपद परे हो तो कु के स्थान में क्तु आदेश हो । कत्तणा नाम जातिः । जाताविति किम्—कुत्सितानि तृणानि कुत्तणानि ।

३६६-का पथ्यक्षयोः ॥ ६ । ३ । १०४ ॥

पथिन् और अक्ष उत्तरपद परे हों तो कु शब्द को का आदेश हो । कुत्सितः पन्थाः कापथः, काक्षः ।

३६७-ईपदर्थे ॥ ६ । ३ । १०५ ॥

द्विचिन् अर्थ में वर्तमान कु शब्द का उत्तरपद परे हो तो 'वा' आदेश हो । ईपदर्थम्—कालवणम्, कामपुरम्, काऽम्लम्, ईपदुष्णम्—दोष्णम् ।

३६८-विभाषा पुरो ॥ ६ । ३ । १०६ ॥

पुरुष उत्तरपद परे हो तो कु शब्द को का आदेश विकल्प करके हो । कुत्सितः पुरुषः कापुरुष, कुपुरुषः ।

३६९—कवं चोष्णे ॥ ६ । ३ । १०७ ॥ ६

उष्ण उत्तरपद परे हो तो कु शब्द को कव आदेश विकल्प करके हो पत्त में का हो । ईपदुष्णम् कपोष्णम्, कोष्णम्, कदुष्णम् ।

३७०—पथि च छन्दसि ॥ ६ । ३ । १०८ ॥

वेद में पथिन् उत्तरपद परे हो तो कु शब्द को कव आदेश हो । पत्त में विकल्प करके 'का' भी हो । कवपथः, कापथः, कुपथः ।

३७१—पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् ॥ ६ । ३ । १०९ ॥

जिन शब्दों में लोप आगम और वर्णविकार किसी सूत्र से विधान न किये हों और वे शिष्ट पुरुषों ने उच्चारण किये हों तो वैसे ही उन शब्दों को जानना चाहिये । पृषदुदरमस्य पृषोदरम्, पृषत् उद्वानम् पृषोद्वानम् । यहां तकार का लोप है । वारिवाहको बलाहकः । यहां वारि शब्द का व आदेश है । तथा वाहक पद के आदि ओ ल आदेश जानो । जीवनस्य मृतो जीमूतः । यहां वन शब्द का लोप है । शवानां शयनं श्मशानम् । शव शब्द को श्म आदेश और शयन के स्थान में शान जानो । ऊर्ध्व एतस्येति ऊर्ध्व-स्यलम् । यहां ऊर्ध्व को ऊर्ध्व तथा स्य शब्द को स्यल आदेश जानना चाहिये । पिशिताशः पिशाघः । यहां पिशि को पि और ताश के स्थान में शाघ आदेश है । भ्रुन्तोऽस्यां सीदन्तीति वृक्षीः । सद्धातु से अधिकरण में इट् प्रत्यय और उपपद भ्रुत् शब्द का वृ आदेश हो जाता है । मक्षा रीतीति मयूरः । अप् प्रत्यय के पर रुधातु के टि

॥ यह सूत्र अप् सब साधुव्युत्पन्न सूत्रों के विषयों को उदा के बाकी विषय में प्रयुक्त होता है ।

का लोप और मही शब्द को मयू आदेश हो जाता है इसी प्रकार और भी "अश्रुत्य, कपित्थ" आदि शब्दों की सिद्धि समझनी चाहिये ।

३७२-वा०-दिक्शब्देभ्य उत्तरस्य तीरशब्दस्य तारभावो
चा भवति ॥ ६ । ३ । १०९ ॥

दिशावाची शब्दों से परे तीर शब्द का तार आदेश विकल्प करके हो । दक्षिणतीरम्, दक्षिणतारम्; उत्तरतीरम्, उत्तरतारम् ।

३७३-वा०-वाचो वादे इत्वं च लभावश्चोत्तरपदस्येति
प्रत्यये भवति ॥ ६ । ३ । १०९ ॥

वाद् उत्तरपद के परे वाक् शब्द को ड आदेश और इन् प्रत्यय के परे उत्तर वाद शब्द [के द] को ल आदेश हो जावे ।
वाचं वदतीति वाग्नादः, तस्यापत्यं वाह्वालिः ।

३७४-वा०-पप उत्वं दत्तुदशधासूत्रपदादिष्टुत्वं च
भवति ॥ ६ । ३ । १०६ ॥

पट् शब्द को उ हो, दृष्ट, दश और धा उत्तरपद के परे हों तो और उत्तरपद के आदि को मूधेन्य आदेश हो । पट्दन्ता अस्य षोडश । पट् च दश च षोडश ।

३७५-वा०-धामु वा पप उत्वं भवति उत्तरपदादेश
ष्टुत्वम् ॥ ६ । ३ । १०६ ॥

पूर्योक्त कार्य धा उत्तरपद में विकल्प परके हो । षोडा,
पट्धा षुग ।

३७६-वा०-दुरो दाशनाशदमध्येपूर्त्वं यत्तप्यगुत्तर-
पदादेशे ष्टुत्वम् ॥ ६ । ३ । १०६ ॥

दुर् शब्द को उत्तर हो दाश नाश दभ और ध्य ये उत्तरपद परे हों तो और उत्तर पदों के आदि को मूधन्य आदेश हा । कृच्छ्रेण दारयते, नाश्यत, दभ्यते च यः स दूढाशः, दूणाशः, दूढभः । दुष्टं ध्यायतीति दृढ्यः । इत्यादि ।

३७७-वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकार-
नाशौ । धातोस्तदर्थान्तिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविध निरुक्तम् ॥
काशिका ६ । ३ । १०६ ॥

३७८-संहितायाम् ॥ ६ । ३ । ११४ ॥

अब जो कार्य कहेंगे सो संहिता के विषय में होंगे अर्थात् यह अधिकार सूत्र है ।

३७९-कर्णे लक्षणस्याविष्टापञ्चमणिभिन्नच्छिन्नच्छिद्र-
सुवस्वस्तिकस्य ॥ ६ । ३ । ११५ ॥

कर्ण शब्द उत्तरपद परे हो ता विष्ट, अष्ट, पञ्च, मणि, भिन्न, छिन्न, छिद्र, सूत्र, स्वस्तिक इन नव शब्दों को छोड़ के लक्षणवाची पूर्वपद को दीर्घ आदेश हो संहिता विषय में । दात्रमित्र कर्णावस्य दात्राकर्णे, द्विगुणाकर्णे, त्रिगुणाकर्णे, द्व्यष्टगुलाकर्णे, त्र्यष्टगुलाकर्णे । यन् पशूनां स्वामिविशेषसम्बन्धज्ञापनार्थं दात्र कारादि कियते तदिह लक्षणं गृह्यते । लक्षणस्येति किम्—शोभनकर्णे । अविष्टादीनामिति किम्—विष्टकर्णे, अष्टकर्णे, पञ्चकणा माणकर्णे, भिन्नकर्णे, छिन्नकर्णे, छिद्रकर्णे, सूत्रकर्णे, स्वस्तिककर्णे ।

३८०-नद्विवृतिवृषिव्यधिरुचिसहितनिपु कौ ॥

६ । ३ । ११६ ॥

नीवृत्, उपावृत्, प्रावृत्, उपावृद्, मर्मावित्, हृदयावित्, आवित्, नीरुक्, अभीरुक्, ऋतापद्, तरीतत् । काविति किम्—परिणहनम् ।

३८१—वनगिर्योः संज्ञायां कोटरकिंशुलकादीनाम् ॥

६ । ३ । ११७ ॥

संज्ञा विषय में वन उत्तरपद परे हो तो कोटर आदि और गिरि परे हो तो किंशुलक आदि पूर्वपदों को दीर्घ आदेश हो । कोटरावणम्, मिश्रकावणम्, सिद्धकावणम्, सारिकावणम्; किंशुलकागिरिः, अजनागिरिः । कोटरकिंशुलकादीनामिति किम्—असिपन्नवनम्, कृष्णगिरिः ।

३८२—अष्टनः संज्ञायाम् ॥ ६ । ३ । १२५ ॥

अष्टन् पूर्वपद को दीर्घ आदेश हो संज्ञा विषय में, अष्टावक्रः, अष्टावन्धुरः, अष्टापदम् । संज्ञायामिति किम्—अष्टपुत्रः, अष्टवन्धुः ।

३८३—छन्दसि च ॥ ६ । ३ । १२६ ॥

वेद विषय में अष्टन् पूर्वपद को उत्तरपद परे हो तो दीर्घ आदेश हो । आग्नेयमष्टाकपालं निर्वपेत्, अष्टाहिरण्या दक्षिणा, अष्टापदं सुवर्णम् ।

३८४—वा०—गवि च युक्ते भाषायामष्टनो दीर्घो भवतीति वक्तव्यम् ॥ काशिका ६ । ३ । १२६ ॥

लौकिक प्रयोग विषय में युक्तवाची गो शब्द उत्तरपद परे हो तो अष्टन् पूर्वपद को दीर्घ हो जावे । जैसे—अष्टागर्भं शकटम् ।

३८५—चित्तेः कपि ॥ ६ । ३ । १२७ ॥

कप् प्राप्य परे हो तो चिति पद को दीर्घ आदेश हो । द्विचितीकः, त्रिचितीकः ।

३८६—विश्वस्य यमुराटोः ॥ ६ । ३ । १२८ ॥

वसु और राट् उत्तरपद परे हों तो विश्व पूर्वपद को दीर्घ आदेश हो। विश्वावसुः, विश्वाराट्।

३८७—नरे संज्ञायाम् ॥ ६ । ३ । १२६ ॥

संज्ञा विषय में जो नर उत्तरपद परे हो तो विश्व पूर्वपद को दीर्घ हो। विश्वानरो नाम यस्य वैश्वानरिः पुत्रः। संज्ञायामिति इत्यादि—विश्वे जरा यस्य स विश्वनरः।

३८८—मित्रे चर्षौ ॥ ६ । ३ । १३० ॥

ऋषि अर्थ में मित्र उत्तरपद परे हो तो विश्व पूर्वपद को दीर्घ आदेश हो। विश्वमित्रो ऋषिः। ऋषाविति किम्—विश्वमित्रो माणवकः।

३८९—सर्वस्य द्वे ॥ ८ । १ । १ ॥

सब शब्दों के दो दो रूप होंगे। यह अधिकार सूत्र है।

३९०—तस्य परमाग्नेडितम् ॥ ८ । १ । २ ॥

दो भागों का जो पर रूप है सो आग्नेडित संज्ञक हो। चौर चौरश्, दस्यो दस्योश्, घातयिष्यामि त्वा, वन्धयिष्यामि त्वा।

३९१—अनुदात्तं च ॥ ८ । १ । ३ ॥

जो पर भाग है सो अनुदात्त भी हो।

३९२—नित्यवीप्सयोः ॥ ८ । १ । ४ ॥

नित्य और वीप्सा अर्थ में वर्तमान जो शब्द उसको द्वित्व हो। तिङ् अव्यय और कृत् इनमें वो नित्यत्व होता है। तथा सुप् में वीप्सा होती है, व्याप्तुमिष्यद्वा वीप्सा। पचति पचति, पठति पठति, जल्पति जल्पति, मुक्त्वा मुक्त्वा प्रजति, भोजं भोजं प्रजति। प्रामो प्रामो रमणीयः, जनपदो जनपदो रमणीयः, पुरुषः पुरुषो निधनमुपैति।

३९३—परेर्वर्जने ॥ ८ । १ । ५ ॥

भाव और अन्तोदात्त । सुब्लोप-पटुपटुः, मृदुमृदुः, परिडतपडितः ।
पुंबद्भाव-पटुपट्वी, मृदुमृद्वी, कालिककालिका । अन्तोदात्त-
पटुपटुः, पटुपट्वी ।

४०१-प्रकारे गुणवचनस्य ॥ ८ । १ । १२ ॥

प्रकार नाम सादृश्य अर्थ में वर्तमान शब्द को द्वित्व हो । पटु
पटु, परिडत परिडत । प्रकार वचन इति किम्-पटुर्देवदत्तः ।
गुणवचनस्येति किम्-अग्निर्माणवकः ।

४०२-वा०-आनुपूर्व्ये द्वे भवत इति वक्तव्यम् ॥

८ । १ । १२ ॥

मूले मूले स्थूलाः, अग्रे अग्रे सूक्ष्माः, ज्येष्ठं ज्येष्ठं प्रवेशय ।

४०३-वा०-स्वार्थेऽवधार्यमाणोऽनेकस्मिन् द्वे भवत इति

वक्तव्यम् ॥ ८ । १ । १२ ॥

अस्मात् कार्पापणादिह भवद्भ्यां मापं मापं देहि । अवधार्य-
माण इति किम्-अस्मात् कार्पापणादिह भवद्भ्यां मापमेकं देहि-
द्वौ मापौ देहि, त्रीन् वा मापान् देहि । अनेकस्मिन् इति किम्-
अस्मात् कार्पापणादिह भवद्भ्यां मापमेकं देहि ।

४०४-वा०-चापले द्वे भवत इति वक्तव्यम् ॥

८ । १ । १२ ॥

संभ्रमेण प्रवृत्तिश्रमलम् । अहिरहिरिर्बुध्यस्व बुध्यस्व । नायर्यं
द्वावेव शब्दौ प्रयोक्तव्यौ । किं तर्हि ? यावद्भिः शब्दैः सोऽर्थोऽव-
गम्यते तावन्तः प्रयोक्तव्याः । अहिरहिरिर्बुध्यस्व बुध्यस्व बुध्यस्व ३ ।

४०५-वा०-श्रामीक्ष्ये द्वे भवत इति वक्तव्यम् ॥

८ । १ । १२ ॥

मुक्त्वा मुक्त्वा प्रजात, भोजं भोजं प्रजाति ।

४०६-वा०-क्रियासमभिहारे द्वे भवत इति वक्तव्यम् ॥
८ । १ । १२ ॥

स भवान् लुनीहि लुनीहीत्येवायं लुनाति ।

४०७-वा०-डाचि बहुलं द्वे भवत इति वक्तव्यम् ॥
८ । १ । १२ ॥

पटपटा करोति, पटपटायते ।

४०८-वा०-पूर्वप्रथमयोरर्थाऽतिशयविवक्षाया द्वे
भवत इति वक्तव्यम् ॥ ८ । १ । १२ ॥

पूर्वं पूर्वं पुष्यन्ति । प्रथमं प्रथमं पच्यन्ते ।

४०९-वा-इतरद्वययोः समसंप्रधारणयोः स्त्रीनिगदे
भावे द्वे भवत इति वक्तव्यम् ॥ ८ । १ । १२ ॥

उभाविमावाढ्यौ, कतरा कतरा अनयोराढ्यता ? सर्वं इमे
आढ्या, कतमा कतमा एपामाढ्यता ? इतरद्वयमाभ्यामन्यत्रापि हि
दृश्यते—उभाविमावाढ्यौ, कीदृशी कीदृशी अनयोराढ्यता ? तथा
स्त्रीनिगदाद् भावादन्यत्रापि हि दृश्यते—उभाविमावाढ्यौ, कतरः
कतरोऽनयोर्विभवः ? इति ।

४१०-वा०-कर्मव्यतिहारे सर्वनाम्नो द्वे भवत इति
वक्तव्यम्, समासवच्च बहुलम्, यदा न समासवत् प्रथमैकरचनं
तदा पूर्वपदस्य ॥ ८ । १ । १२ ॥

अन्यमन्यमिमे प्राङ्गणा भोजयन्ति, अन्योन्यमिमे प्राङ्गणा
भोजन्ति, अन्योन्यस्येमे प्राङ्गणा भोजयन्ति, इतरैतरान् भोजयन्ति ।

४११-वा०-स्त्रीनपुंसकयोः इतरपदस्य चाम्भावो
वक्तव्यः ॥ ८ । १ । १२ ॥

अन्योन्यामिमे ब्राह्मण्यौ भोजयतः, अन्योन्यम्भोजयतः, इतरेतरम्भोजयतः, इतरेतरम्भोजयतः, अन्योन्यामिमे ब्राह्मणकुले भोजयतः, इतरेतरमिमे ब्राह्मणकुले भोजयतः ।

४१२—द्वन्द्वं रहस्यमर्यादावचनव्युत्क्रमणयज्ञपात्रप्रयोगाभिव्यक्तिषु ॥ ८ । १ । १५ ॥

द्वन्द्वं यहाँ द्वि शब्द को द्वित्व तथा पूर्वपद को अम्भाव और उत्तरपद को अकार आदेश निपातन किया है रहस्य, मर्यादावचन, व्युत्क्रमण, यज्ञपात्रप्रयोग और अभिव्यक्ति इन अर्थों में । रहस्य—द्वन्द्वं मन्त्रयते द्वन्द्वं मिथुयायते ॥ मर्यादावचन—आचतुरं हीमे पशवो द्वन्द्वं मिथुनायन्ते, माता पुत्रेण मिथुनं गच्छति, पौत्रेण तत्पुत्रेणापीति । व्युत्क्रमण—द्वन्द्वं व्युत्क्रान्ताः, द्विवर्गसम्यन्धात्पृथगवस्थिता इत्यर्थः । यज्ञपात्रप्रयोग—द्वन्द्वं यज्ञपात्राणि प्रयुनक्ति धीरः । अभिव्यक्ति—द्वन्द्वं नारदपक्षेत्तौ, द्वन्द्वं संकर्षणवासुदेवौ । द्वावप्यभिव्यक्तौ साहचर्येणेत्यर्थे ।

वसुकालाङ्कभूर्वर्षे भाद्रमास्यसिते दले ।

द्वादश्यां रविवारेऽयं सामासिकः पूर्णोऽनघाः ॥

इति श्रीमत्परिव्राजकाचार्य्येण श्रीयुत्यतिश्रमहाविद्वद्धिः

श्रीशिवजानन्दसरस्वतीस्वामिभिः सुशिक्षितेन

दयानन्दसर्स्वतीस्वामिना निर्मितः

आर्यभाषाव्याख्यया सुभूषितः

सामसिकोऽयं ग्रन्थः

पुनर्मगमत् ॥

आर्यसमाज के नियम

- १—सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है ।
- २—ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्त्ता है, उसी की उपासना करना योग्य है ।
- ३—वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है । वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परमधर्म है ।
- ४—सत्य के प्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिये ।
- ५—सब काम धर्मानुसार, अर्थात् सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिये ।
- ६—संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना ।
- ७—मद्य से प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्त्तना चाहिये ।
- ८—अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये ।
- ९—प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिये, किन्तु मद्य की उन्नति में अपनी उन्नति मममानी चाहिये ।
- ०—मद्य मनुष्यों को सामाजिक मर्यादितकारी नियम पालने में पातद्वर रहना चाहिये और प्रत्येक दितकारी नियम में मद्य